



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 249]
No. 249]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 12, 2007/फाल्गुन 21, 1928
NEW DELHI, MONDAY, MARCH 12, 2007/PHALGUNA 21, 1928

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2007

का.आ. 343(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 1710(अ), तारीख 5 अक्टूबर, 2006, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तमिलनाडु राज्य के धर्मापुरी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के 113.275 कि.मी. से 163.000 कि.मी. (कृष्णागिरि-थोपुरघाट सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 5 नवंबर, 2006 को "दि हिन्दू" और "दिनांथाथी" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और, आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्टें दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के 113.275 कि. मी. से 163.000 कि. मी. तक (कृष्णागिरी से थोपुरघाट सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण :-

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्ग मी में)	भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
				उप मंडल से पूर्व	उप मंडल के बाद				
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1.	धर्मपुरी	1. धर्मपुरी	(1) पलायम	40/2ए	40/2ए1	निजी	शुष्क	900	1. पी. एम. पी. टेक्सटाईल सप्लींग मिल
				40/2बी	40/2बी1	निजी	शुष्क	153	1. सुब्रामनि पुत्र मुथुसामी गाउंडर
				42/2सी	42/2सी1	निजी	शुष्क	72	1. गोविंदन पुत्र सीदान
				42/2डी	42/2डी1	निजी	शुष्क	52	1. राजामल पत्नी पेरिया मधु 2. जयावेल पुत्र पेरियानन
				42/2ई	42/2ई1	निजी	शुष्क	83	1. राजथी पत्नी सीदान 2. बालारसन पुत्र पलानी गाउंडर 3. कदासामी पुत्र पलानी गाउंडर
				42/2एफ	42/2एफ1	निजी	शुष्क	294	1. राजामल पत्नी पेरिया मधु 2. जयावेल पुत्र पेरियानन 3. थंगाराज पुत्र कालीप्पन 4. सेतु पुत्र राजी 5. हनुमंथन पुत्र पेरामा गाउंडर 6. सेल्वाराज पुत्र पेरामा गाउंडर
				42/2जी	42/2जी1	निजी	शुष्क	206	पनीरसेल्वम पुत्र पेरियानन
				43/2बी	43/2बी1	निजी	शुष्क	517	1. शनमुगम पुत्र मुरुन्थाचेटी 2. चिन्नासामी पुत्र मुरुन्थाचेटी
				43/1बी3	43/3	निजी	शुष्क	598	1. परी पुत्र मुनियप्पन 2. मनि पुत्र गोविंदसामी 3. सीदान पुत्र कुप्पाची गाउंडर
					43/1बी3बी	निजी	शुष्क	100	4. राजेंद्रन पुत्र पाचीप्पन 5. गोविंदन पुत्र सीदान 6. सीदामल पत्नी गोविंदन
				43/1बी5	43/1बी5ए	निजी	शुष्क	918	1. मनिकम पुत्र कुप्पाची गाउंडर 2. पप्पा पत्नी मनिकम 3. रंगासामी पुत्र मनिकम
				150/2डी	150/2डी1	निजी	शुष्क	150	1. गोविंदसामी पुत्र राजा गाउंडर 2. विश्वनाथन पुत्र राजा गाउंडर 3. कानामल पत्नी पेरियानन 4. पलानीगाउंडर पुत्र राजा गाउंडर 5. मुरुगन पुत्र राजा गाउंडर 6. राधाकृष्णन पुत्र पेरियानन (माइनर गार्डियन मदर चिन्नामल)
				150/2ई1	150/2ई1ए	निजी	शुष्क	107	1. सीदान पुत्र पेरियानन 2. विश्वनाथन पुत्र राजा गाउंडर 3. चिन्नामल पत्नी मुरुगन 4. कानामल पत्नी पेरियानन 5. पनीरसेल्वम पुत्र पेरियानन

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				150/2ई2	150/2ई2ए	निजी	शुष्क	185	कानामल पत्नी पेरियानन
				150/2ई3	150/2ई3ए	निजी	शुष्क	98	1. सीदान पुत्र पेरियानन 2. विश्वानाथन पुत्र राजा गाउंडर 3. चिन्नामल पत्नी मुरुगन 4. कानामल पत्नी पेरियानन 5. पनीरसेल्वम पुत्र पेरियानन
				150/2एफ	150/2एफ1	निजी	शुष्क	804	1. सीदान पुत्र मुरुगन 2. राधाकृष्णन पुत्र मुरुगन 3. पलानीगाउंडर पुत्र मुरुगन
				151/1ए	151/1ए1	निजी	शुष्क	137	1. वसंथा पत्नी पेरियानन 2. माइनरस थेनरल 3. इलाथेनरल, गार्डियन मदर वसंथा
				151/1बी	151/1बी1	निजी	शुष्क	112	पेरियासामी पुत्र मुनुयामी
				151/5	151/5ए	निजी	शुष्क	109	1. पेरुमल पुत्र पेरियानन 2. माइनरस मादक्ष, गार्डियन मदर लक्ष्मी
				151/6	151/6ए	निजी	शुष्क	38	गोपालाकृष्णन पुत्र पेरियानन
				151/8	151/8ए	निजी	शुष्क	6	1. पंचाली पत्नी अरजुनन 2. अबीमानन पुत्र अरजुनन 3. नाटसन पुत्र अरजुनन 4. माइनर धीरुपथि पुत्र सुब्रामनि 5. कृष्णामुथि पुत्र अरजुनन
				162/1	162/1ए	निजी	शुष्क	215	1. लोगानाथन पुत्र सरकारीया 2. पनीरसेल्वम पुत्र सरकारीया
				162/2ए	162/2ए1	निजी	शुष्क	210	1. लोगानाथन पुत्र सरकारीया 2. पनीरसेल्वम पुत्र सरकारीया
				162/2डी	162/2डी1	निजी	शुष्क	51	1. नाटसन पुत्र अरजुनन 2. सुब्रामनियन पुत्र अरजुनन 3. कानागन पुत्र अरजुनन 4. कृष्णामुथि पुत्र अरजुनन 5. अम्पादुरई पुत्र अरजुनन 6. अन्नादुरई पुत्र अरजुनन 7. अबीमानन पुत्र अरजुनन 8. पंचाली पत्नी अरजुनन 9. पेरियासामी पुत्र मुनुयामी 10. धीरुपथि पुत्र सुब्रामनि (माइनर)
				163	163/1	सरकारी	बटई	1412	सरकारी
				169/2ए1	169/2ए1ए	निजी	शुष्क	23	कानागन पुत्र राजू मरिमुथु
				169/2ए2	169/2ए2ए	निजी	शुष्क	26	1. मुनियामल पत्नी राजी 2. चंद्रन पुत्र राजी

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				169/2बी	169/2बी1	निजी	शुष्क	65	1. कुप्पामुथु पुत्र मुथु 2. मधु पुत्र पानु @ कुप्पामुथु 3. मुरुगन पुत्र कुप्पामुथु 4. कंदासामी पुत्र कुप्पामुथु
				169/2डी1	169/2डी1ए	निजी	शुष्क	75	1. मुनियामल पत्नी राजी 2. चंद्रन पुत्र राजी
				169/2ई	169/2ई1	निजी	शुष्क	310	1. कुप्पामुथु पुत्र मुथु 2. मधु पुत्र पानु @ कुप्पामुथु 3. मुरुगन पुत्र कुप्पामुथु 4. कंदासामी पुत्र कुप्पामुथु
				169/2एफ1	169/2एफ1ए	निजी	शुष्क	110	कानागन पुत्र राजू @ मरिमुथु
				169/2एफ2	169/2एफ2ए	निजी	शुष्क	137	1. बानुमथि पत्नी नागाराजन 2. मुनियामल पत्नी राजी 3. चंद्रन पुत्र राजी
				169/2जी	169/2जी1	निजी	शुष्क	53	कलाईसेल्वी पत्नी हरिकृष्णन
				170/1ए	170/1ए1	निजी	शुष्क	249	कलाईसेल्वी पत्नी हरिकृष्णन
				170/1बी	170/1बी1	निजी	शुष्क	242	1. मुनियामल पत्नी राजी 2. चंद्रन पुत्र राजी 3. मुनियामल पुत्र श्रीनिवासन
				170/2बी	170/2बी1	निजी	शुष्क	870	बीमागाउंडर पुत्र मुनियन
				170/2सी	170/2सी1	निजी	शुष्क	123	1. सस्यथ @ शनमुगम पुत्र मुनुसामी @ नेदुप्पागाउंडर 2. गोविंदमल पत्नी मुनुसामी @ नेदुप्पागाउंडर 3. सीवामुरुमन पुत्र मुनुसामी @ नेदुप्पागाउंडर
				172/2	172/2	निजी	शुष्क	850	1. मनिकम पुत्र कुप्पाची 2. रंगासामी पुत्र मनीकिम
				172/3ए	172/3ए2	निजी	शुष्क	337	1. मनिकम पुत्र कुप्पाची 2. एम गोपाल गाउंडर पुत्र मेरीमुथुगाउंडर 3. रंगासामी पुत्र मनीकिम
				172/4ए	172/4ए2	निजी	शुष्क	50	1. गोविन्दन पुत्र सिदान 2. अरुनाचलमब पुत्र अन्नामाली गाउंडर
				172/4बी	172/4बी2	निजी	शुष्क	50	महालिगम पुत्र धर्मालिगम
				172/4सी	172/4सी2	निजी	शुष्क	84	ज्योतिलिगम पुत्र धर्मालिगम
				172/4डी	172/4डी2	निजी	शुष्क	34	मनोगरन पुत्र नाडुप्पन
				172/4ई	172/4ई2	निजी	शुष्क	36	गोबरामल पत्नी पेचियामुथु

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				172/4जी	172/4जी2	निजी	शुष्क	87	1. गोविन्दन पुत्र सिदान 2. अरुणाचलमन पुत्र अन्नामाली गारुंडर
				178/2बी	178/2बी2	निजी	शुष्क	270	विन्नासामी पुत्र पेरीयाचमबी
				178/2सी	178/2सी2	निजी	शुष्क	360	मदीयान पुत्र पेरीयाचमबी
				178/2जी	178/2जी2	निजी	शुष्क	1100	1. अनबालागन पुत्र नाडुप्पन 2. मनोहरन पुत्र नाडुप्पन
				178/2 आई	178/2आई2	निजी	शुष्क	1550	1. मुनुसामी पुत्र मुनुसामी 2. राजेन्द्रन पुत्र मुनुसामी 3. पेरीयाम्मा पत्नी सिवा
				178/2जे 1	178/2जे 1बी	निजी	शुष्क	880	मुनुयामल पुत्री कालीयामल
				178/2जे 2	178/2जे 2बी	निजी	शुष्क	621	घन्नाबाकीयम पुत्री कालीयामल
				178/2जे 3	178/2जे 3बी	निजी	शुष्क	233	पेरियानन पुत्र कालियामन पेरियामल पत्नी सीवम
				178/2के	178/2के2	निजी	शुष्क	1658	1. मुनुसामी पुत्र मुनुसामी 2. सार्जेन्द्रन पुत्र मुनुसामी
				178/2एल	178/2एल	निजी	शुष्क	600	पेरुमल पुत्र कांछा गारुंडर
				178/2एम	178/2एम	निजी	शुष्क	300	पेरुमल पुत्र चेंदरायन
				180	180/2	निजी	शुष्क	1250	मनिकम पुत्र पेरियागारुंडर
				189/8	189/8बी	निजी	नम	15	पलानीसामी पुत्र पणुचेटी
				189/10	189/10बी	निजी	नम	450	1. मुधुसामी पुत्र कन्दासामी गारुंडर 2. जयसमन पुत्र कन्दासामी गारुंडर 3. कन्दासामी पुत्र कुप्पामुधु @ पोनुसामी 4. कन्दासामी पुत्र रामालिगम
				190/4	190/4बी	निजी	शुष्क	37	1. पोनु @ कुप्पामुधु पुत्र मुधु गारुंडर 2. कन्दासामी पुत्र कुप्पामुधु @ पोनुसामी
				190/5	190/5बी	निजी	शुष्क	250	1. पेरियानन पुत्र विन्नापायन 2. पोनु @ कुप्पामुधु पुत्र मुधु गारुंडर 3. मुनियामल पत्नी राजी 4. चान्द्रन पुत्र राजी 5. कानागन पुत्र राजी 6. नारायणन पुत्र विन्नान @ पेरीयन्नान 7. मुरुमन पुत्र पोनु @ कुप्पामुधु
				190/6ए	190/6ए	निजी	शुष्क	100	कानागन पुत्र राजी मेरीमुधु
				190/6बी	190/6बी	निजी	शुष्क	100	1. मुनियामल पत्नी राजी @ मेरीमुधु 2. चन्द्रन पुत्र राजी @ मेरीमुधु

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				199/5	199/5बी	निजी	शुष्क	580	1. रानी पत्नी बास्करन 2. पेरियानन पुत्र पेरियानन
				200/1सी1	200/1सी1बी	निजी	शुष्क	56	1. चिन्नामधु पुत्र हरिगोविन्द
					200/1सी1सी	निजी	शुष्क	2739	2. पेरियामधु पुत्र हरिगोविन्द 3. नदुमधु पुत्र हरिगोविन्द
				200/1सी2	200/1सी2बी	निजी	शुष्क	605	तमिलारसन पुत्र डी.सी. कृष्णन
				200/1डी	200/1डी2	निजी	शुष्क	1247	1. श्रीनीवासन पुत्र मुनियागाउंडर 2. मनि पुत्र श्रीनिवासन 3. मुनिप्पन पुत्र श्रीनिवासन 4. सरोजा पत्नी श्रीनिवासन
				200/1ई2	200/1ई2बी	निजी	शुष्क	250	1. चिन्नामधु पुत्र हरिगोविन्द 2. पेरियामधु पुत्र हरिगोविन्द 3. नदुमधु पुत्र हरिगोविन्द
				200/1ई3	200/1ई3	निजी	शुष्क	150	1. मनि पुत्र श्रीनीवासन 2. मनिप्पन पुत्र श्रीनिवासन
				200/1ई4	200/1ई4	निजी	शुष्क	400	मनि पुत्र श्रीनीवासन
				200/1ई7	200/1ई7बी	निजी	शुष्क	33	1. सीवामुरुगन पुत्र मुनुसामी 2. सम्पथ पुत्र मुनुसामी
				200/1ई8	200/1ई8	निजी	शुष्क	250	1. सीवामुरुगन पुत्र मुनुसामी 2. सम्पथ पुत्र मुनुसामी
				204/6ए	204/6ए2	निजी	शुष्क	116	1. समथानाथन पुत्र मुनुसामी 2. मधु पुत्र मुनुसामी 3. राजागोपाल पुत्र मुनुसामी
				204/6बी	204/6बी2	निजी	शुष्क	160	1. मदायन पुत्र बीमागाउंडर 2. मायाकानन पुत्र बीमागाउंडर
				204/7ए1	204/7ए1	निजी	शुष्क	300	1. राजागोपाल पुत्र मुनुसामी 2. मधु पुत्र मुनुसामी 3. समिनाथन पुत्र मुनुसामी
				204/7ए2	204/7ए2	निजी	शुष्क	150	1. मदायन पुत्र बीमागाउंडर 2. मायाकानन पुत्र बीमागाउंडर 3. राजागोपाल पुत्र मुनुसामी
				205/1	205/1बी	निजी	शुष्क	934	1. सम्पथ @ शनमुगम पुत्र मुनुसामी @ नेदुप्पागाउंडर 2. सीवामुरुगन @ शनमुगम पुत्र मुनुसामी @ नेदुप्पागाउंडर
				205/2	205/2	सरकारी	बटई सड़क	800	सरकारी
				206	206	सरकारी	सड़क मार्गिन	1100	सरकारी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				207/1	207/1ए	निजी	शुष्क	568	1. सम्पत्ति @ जनमुगम पुत्र मुनुसामी @ नेदुप्पावाउंडर 2. सीयामुगम @ जनमुगम पुत्र मुनुसामी @ नेदुप्पावाउंडर
				396	396/2	निजी	शुष्क	1100	1. सरोज प्रती श्रीनिकसन 2. मनि पुत्र श्रीनिकसन
				397	397	निजी	शुष्क	800	1. सरोज प्रती श्रीनिकसन 2. मनि पुत्र श्रीनिकसन
				398/1	398/1	सरकारी	सड़क मार्जिन	1200	सरकारी
				398/2ए	398/2ए2	निजी	शुष्क	750	रामाचंद्रन पुत्र राजीगाउंडर
				398/2बी	398/2बी2	निजी	शुष्क	364	कल्लिकर वेंकटराव युनियन मलानपाली
				398/2सी	398/2सी2	निजी	शुष्क	1600	1. मनि पुत्र राजीगाउंडर 2. धीरधामलाई पुत्र राजीगाउंडर 3. रामाचंद्रन पुत्र राजीगाउंडर 4. सेल्वम पुत्र राजीगाउंडर
				417/1	417/1	सरकारी	बटई	950	राह के लिये
				417/2	417/2बी	निजी	शुष्क	5112	1. धीरधामलाई पुत्र राजीगाउंडर 2. रामाचंद्रन पुत्र राजीगाउंडर 3. सेल्वम पुत्र राजीगाउंडर
				418/1	418/1	सरकारी	बटई	950	राह के लिये
				418/2ए1	418/2ए1बी	निजी	शुष्क	260	मुनुसामी पुत्र रसनागाउंडर
				418/2ए2	418/2ए2बी	निजी	शुष्क	65	मुनुसामी पुत्र रसनागाउंडर रामाचंद्रन पुत्र रसनागाउंडर
				418/2बी	418/2बी2	निजी	शुष्क	187	1. राजागोपाल पुत्र मुनुसामी 2. मधु पुत्र मुनुसामी 3. समिनाथन पुत्र मुनुसामी
				418/2डी4	418/2डी4	निजी	शुष्क	100	वेदीपन पुत्र पलानीगाउंडर
				418/2डी5	418/2डी5	निजी	शुष्क	100	बी.अबीमानन पुत्र पलानीगाउंडर
				418/2ई	418/2ई2	निजी	शुष्क	430	वेक्टरन पुत्र राजागोपाल
				425/1	425/1	सरकारी	बटई	500	राह के लिये
				425/2ए	425/2ए2	निजी	शुष्क	182	1. चिन्नासीथी @ कननामल पत्नी बीमागाउंडर 2. पेरिकामधु पुत्र बीमागाउंडर 3. मायाकावन पुत्र बीमागाउंडर 4. कल्लिकर पुत्री बीमागाउंडर 5. माधामल पुत्र बीमागाउंडर 6. रंगामल पुत्री बीमागाउंडर
				425/2बी	425/2बी2	निजी	शुष्क	244	साधामल पत्नी गोपाल

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				426/2	426/2बी	निजी	शुष्क	1540	1. श्रीनीवासन पुत्र मुनियागाउँडर 2. चिन्नासीधी @ कानामल पत्नी बीमागाउँडर 3. कासियामल पत्नी राजेंद्रन 4. पेरियामधु पुत्र बीमागाउँडर 5. मायाकानन पुत्र बीमागाउँडर 6. कल्याणी पुत्री बीमागाउँडर 7. माधामल पुत्र बीमागाउँडर 8. रंगामल पुत्री बीमागाउँडर
				429/2	429/2बी	निजी	शुष्क	1507	बुथा
				429/3	429/3	निजी	शुष्क	300	राह के लिये
				430/2ए	430/2ए2	निजी	शुष्क	765	कंदामल पत्नी कांधन
				433/1	433/1	सरकारी	बटई	300	सरकारी
				433/2ए1	433/2ए1बी	निजी	शुष्क	650	मुरुगेसन पुत्र कांदागाउँडर
				433/2ए2	433/2ए2बी	निजी	शुष्क	886	1. कुजंथावेल पुत्र कांदागाउँडर 2. गोपाल पुत्र अन्नामलाई
				433/2ए4	433/2ए4बी	निजी	शुष्क	231	सीवाकुमार पुत्र सुब्रामनियम
				434/1	434/1	सरकारी	बटई	300	राह के लिये
				435/1	435/3	सरकारी	बटई	1050	राह के लिये
				435/2ए	435/2ए2	निजी	शुष्क	6650	घासामीपांडरम पुत्र रामानन
				440/1	440/1	सरकारी	बटई	350	राह के लिये
				440/2ए2	440/2ए2बी	निजी	शुष्क	4000	मुरुगेसन पुत्र कांदागाउँडर
				441/1	441/1	सरकारी	बटई	350	राह के लिये
				441/2ए	441/2ए2	निजी	शुष्क	2800	घासामीपांडरम पुत्र रामानन
				444	444/2	सरकारी	बटई	365	राह के लिये
				445/1	445/1	सरकारी	बटई	200	राह के लिये
				445/2ए	445/2ए2	निजी	शुष्क	1710	चिन्नाप्पा पत्नी सीदान
				446/1	446/1	सरकारी	बटई	400	राह के लिये
				446/2ए1ए	446/5	निजी	शुष्क	879	1. पेरुमल पुत्र कोजांथाई गाउँडर @ पेरुसु 2. नवानाथन पुत्र कोजांथाई गाउँडर @ पेरुसु 3. वजीरावेल पुत्र वेदीवेल 4. नंजामल पत्नी थंगाराजु 5. थेवागुनम पुत्र वेक्टावलम
				446/2ए1बी	446/6	निजी	शुष्क	248	पांडुरंगन पुत्र पाचागाउँडर
				446/2ए2	446/2ए2बी	निजी	शुष्क	324	1. पाचियामल पत्नी काथीरेसन 2. पाचियामल पत्नी काथीरेवेल
				446/3	446/3बी	निजी	शुष्क	123	कमलसन पुत्र गोपाल
				446/4	446/4बी	निजी	शुष्क	176	पलानी पुत्र मुनुस्वामी
				450/1	450/1	सरकारी	बटई	750	राह के लिये
				450/2ए1	450/2ए1बी	निजी	शुष्क	835	1. ईनबासेकरन पुत्र चिन्नागाउँडर 2. परमासिवम पुत्र पाचियामल
				450/2ए2	450/2ए2बी	निजी	शुष्क	880	अब्बू पुत्र मरियागाउँडर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				450/2बी1	450/2बी1बी	निजी	शुष्क	486 वाजीरावल पुत्र बादीवेलगाउंडर
				450/2बी2	450/2बी2बी	निजी	शुष्क	1214 दुरईसामी पुत्र सेनोदागाउंडर
				451	451	सरकारी	बटई	20100 एन.एच.7 की तरह
				452	452	सरकारी	बटई	23550 एन.एच.7 की तरह
				453	453	सरकारी	बटई	10100 एन.एच.7 की तरह
				454/1	454/1	सरकारी	बटई	50 राह के लिये
				454/2	454/2ए	निजी	नम	81 1. कुंची पुत्र मुनियान 2. गोविंदामल पत्नी हरिगोविंदन
				455/1	455/1	सरकारी	बटई	450 राह के लिये पड़ा है
				455/2ए	455/2ए1	निजी	नम	137 1. कुंची पुत्र मुनियान 2. गोविंदामल पत्नी हरिगोविंदन
				455/2बी	455/2बी1	निजी	नम	44 गोविंदामल पत्नी हरिगोविंदन
				455/2सी	455/2सी1	निजी	नम	247 1. गोविंदामल पत्नी हरिगोविंदन 2. पेरियामधु पुत्री हरिगोविंदन 3. चिन्नामधु पुत्री हरिगोविंदन 4. नंदुमधु पुत्री हरिगोविंदन 5. सेत्वी पुत्री हरिगोविंदन
				456/1	456/1	सरकारी	बटई	250 सरकारी
				467/1बी	467/1बी1	निजी	नम	401 कृष्णनन पुत्र अलीमधु
				468	468/1	सरकारी	मोसाबरी	730 सरकारी
				469/1	469/1	सरकारी	बटई	1250 सरकारी
				469/2ए2ए	469/3	निजी	शुष्क	143 वेदीसवरन पुत्र वियापुरी
				469/2ए2बी	469/4	निजी	शुष्क	128 1. पलानीप्पन पुत्र कांदागाउंडर 2. मनि पुत्र मरिप्पन 3. अलगामल पत्नी पलानीसामी 4. चेलामधु पुत्र सोलायप्पन 5. मधु पुत्र वियापुरी
				469/2ए3ए	469/5	निजी	शुष्क	84 1. सेलामधु पुत्र सालायप्पन 2. पलानीसामी पुत्र कांदागाउंडर 3. मनि पुत्र मरिप्पन 4. अलगामल पत्नी पलानीसामी
				469/2ए3बी	469/6	निजी	शुष्क	21 मधु पुत्र वियापुरी
				469/2ए3सी	469/7	निजी	शुष्क	34 1. वेथीसवरन पुत्र वियापुरागाउंडर 2. वियापुरागाउंडर
				469/2बी4	469/2बी4ए	निजी	शुष्क	138 अशोकन पुत्र परमासीवम
				469/2बी5	469/2बी5ए	निजी	शुष्क	110 1. मादीवनम पुत्र थंगावेल 2. मनिकदन पुत्र सम्पथ 3. स्वर्णमबीकाई पत्नी वेक्टाचलम
				469/2बी6	469/2बी6ए	निजी	शुष्क	155 धनसेकरन पुत्र थंगावेल
				486/1	486/1	सरकारी	बटई	400 सरकारी
				486/2ए1	486/2ए1ए	निजी	शुष्क	610 मुनुसामी पुत्र रमनागाउंडर
				486/2बी	486/2बी1	निजी	शुष्क	477 रामाचंद्रन पुत्र रमनागाउंडर

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				506/1	506/1	सरकारी	बटई	250	राह के लिये
				506/2ए	506/2ए	निजी	शुष्क	50	पाचीप्पन पुत्र कुप्पु @ पलानी
				506/2बी	506/2बी1	निजी	शुष्क	317	अंदल पत्नी कृष्णन
				506/2एच	506/2एच1	निजी	शुष्क	248	पचियापन पुत्र कुप्पु @ पलानी
				506/2जे	506/2जे1	निजी	शुष्क	8	अरुमुगम पुत्र कालियप्पन
				506/2के1	506/2के1ए	निजी	शुष्क	87	1. अईनन पुत्र रमन 2. गोंदाप्पन पुत्र रमन
				506/2एल	506/2एल	निजी	शुष्क	50	1. सीदान पुत्र रमन 2. रामालिंगम पुत्र सीदान 3.रामाधंदन पुत्र सीदान
				506/2एम	506/2एम1	निजी	शुष्क	21	नटराज पुत्र कालियप्पन
				506/2एक्स	506/2एक्स1	निजी	शुष्क	6	सीधामल पत्नी अरुमुगम
				507/1	507/1	सरकारी	बटई	200	राह के लिये
				507/2बी	507/2बी1	निजी	शुष्क	22	अर्थानारी पुत्र कालीयप्पन
				507/2सी	507/2सी1	निजी	शुष्क	22	पलानी पुत्र कालीयप्पन
				507/2डी	507/2डी1	निजी	शुष्क	20	मधु पुत्र कालीयप्पन
				508/1	508/3	सरकारी	बटई	434	राह के लिये
				508/2बी1	508/2बी1	निजी	शुष्क	200	1. मधु पुत्र कालियप्पन 2.अर्थानारी पुत्र कालीयप्पन 3. अरुनमुगम पुत्र कालियप्पन 4. चिन्नाप्पायन पुत्र कालियप्पन 5. नटराज पुत्र कालियप्पन
				508/2बी2	508/2बी2ए	निजी	शुष्क	10	मधु पुत्र कालियप्पन
				508/2बी3	508/2बी3ए	निजी	शुष्क	39	अर्थानारी पुत्र कालीयप्पन
				508/2बी4	508/2बी4ए	निजी	शुष्क	50	अरुमुगम पुत्र कालियप्पन
				508/2बी5	508/2बी5ए	निजी	शुष्क	52	चिन्नाप्पायन पुत्र कालियप्पन
				508/2बी6	508/2बी6ए	निजी	शुष्क	58	नटराज पुत्र कालियप्पन
				508/2बी7ए	508/4	निजी	शुष्क	125	कृष्णन पुत्र पलानीगाउंडर
				508/2बी7बी	508/5	निजी	शुष्क	115	पचियापन पुत्र पलानीगाउंडर
				512/1	512/1	सरकारी	बटई	400	राह के लिये
				512/3	512/3	निजी	शुष्क	200	1. रामाजेयम पुत्र मुनुसामी 2. धरुमन पुत्र मुनुसामी 3. कुलासेकरन पुत्र चिधाम्बरा गाउंडर
				512/4	512/4ए	निजी	शुष्क	86	रामाजेयम पुत्र मुनुसामी
				512/7ए	512/7ए1	निजी	शुष्क	82	मुनियामल पत्नी गुनासेकरन
				512/7बी	512/7बी1	निजी	शुष्क	64	गुनासेकरन पुत्र चिधाम्बरा गाउंडर
				512/10	512/10ए	निजी	शुष्क	94	अलागामल पत्नी केसवन
				512/11	512/11ए	निजी	शुष्क	64	सीदामल पत्नी अराथानारी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				513/1	513/1	सरकारी	बटई	100	राह के लिये
				513/3	513/3ए	निजी	शुष्क	38	1. अरथानारी पुत्र कालियाप्पन 2. गोविंदन पुत्र मुनुसामी 3. अलागामल पुत्र केसवन
				515/1	515/1	सरकारी	बटई	100	सरकारी
				516/1	516/1	सरकारी	बटई	350	सरकारी
				516/2बी1	516/2बी1	निजी	शुष्क	150	गोविंदन पुत्र वेलायन
				516/2बी2	516/2बी2ए	निजी	शुष्क	38	गोविंदन पुत्र वेलायप्पन
				520/1	520/1	सरकारी	बटई	300	सरकारी
				520/3	520/3	निजी	शुष्क	150	1. चिन्नाघोलन पुत्र चिन्नामुनियन 2. सेतु पुत्र नदुप्पागाउंडर 3. चिन्नाप्पा पत्नी कंदासामी
				520/7	520/7	निजी	शुष्क	50	गोविंदन पुत्र पेरुमल
				520/5	520/5ए	निजी	शुष्क	223	गोविंदन पुत्र मुनियागाउंडर
				520/8	520/8ए	निजी	शुष्क	391	1. गोविंदन पुत्र पेरुमल 2. गोविंदन पुत्र मुनियागाउंडर
				521/1	521/1	सरकारी	बटई	100	सरकारी
				521/2बी1	521/2बी1	निजी	शुष्क	50	1. कोलांदाईमल 2. मुरुगेसन पुत्र वेदिवेलगाउंडर 3. मनि पुत्र वेदिवेल 4. वजीरावेल पुत्र वेदिवेल गाउंडर
				521/2बी2ए	521/3	निजी	शुष्क	229	मुरुगेसन पुत्र वेदिवेल
				521/2बी2बी	521/4	निजी	शुष्क	229	मनि पुत्र वेदिवेल
				521/2बी2सी	521/5	निजी	शुष्क	226	वजीरावेल पुत्र वेदिवेल गाउंडर
				566/1	566/1	सरकारी	बटई	650	सरकारी
				566/2ए	566/2ए1	निजी	शुष्क	292	1. रामाचंद्रन पुत्र रमन्ना गाउंडर 2. पार्वथी पत्नी मनि
				567/1	567/1	सरकारी	बटई	650	सरकारी
				567/2डी	567/2डी1	निजी	शुष्क	400	मुनुसामी पुत्र कुलापायन
				567/2ई	567/2ई	निजी	शुष्क	400	1. नंजामल पत्नी गोविंदन 2. चिन्नाराजी पुत्र कौंती 3. मुनुसामी पुत्र कौंती 4. चिन्नासामी पुत्र कौंती 5. सेल्वम पुत्र गोविंदन
				567/2एफ	567/2एफ1	निजी	शुष्क	90	सीदामल पत्नी मुनिराज
				569/1	569/1ए	निजी	शुष्क	55	सीदामल पत्नी मुनिराज
				569/2	569/2ए	निजी	शुष्क	286	1. चिन्नासामी पुत्र कौंती 2. मदामल पत्नी पलानी
				569/3	569/3	निजी	शुष्क	350	1. नंजामल पत्नी गोविंदन 2. मुनीसामी पुत्र कौंती 3. चिन्नासामी पुत्र कौंती 4. सेल्वम पुत्र गोविंदन

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				569/5	569/5ए	निजी	शुष्क	304	मधु पुत्र वेटी @ मुनुसामी
				572/1ए	572/1ए	निजी	शुष्क	300	1. मधु पुत्र पोनु
									2. पलानीयप्पन पुत्र वीरप्पा चेटियार
									3. मनोकर पुत्र वेत्युथम
									4. सुदाकर पुत्र अपुनी नायन
									5. धेवानाई
									6. पोनु
				572/1बी	572/1बी1	निजी	शुष्क	340	मधु पुत्र पोनु
				572/1सी1	572/1सी1ए	निजी	शुष्क	148	1. पलानीयप्पन पुत्र वीरप्पाचेटियार
									2. सुदागर पुत्र अपुनी नायर
									3. कृष्णामूर्धि पुत्र रामासामीअययार
				572/1सी2	572/1सी2ए	निजी	शुष्क	165	मनोकर पुत्र वेत्युथम
				572/1सी3	572/1सी3ए	निजी	शुष्क	189	सुदागर पुत्र अपुनी नायर
				591/1ए	591/1ए1	निजी	शुष्क	61	1. सींगारम पुत्र पलानीगाउंडर
									2. नुरजहां पत्नी सीराजुदीन
									3. मालेसवरन पुत्र गोपाल
				591/1बी	591/1बी1	निजी	शुष्क	145	अनबालगन पुत्र करुप्पना गाउंडर
				591/2ए	591/2ए1	निजी	शुष्क	767	अनबालगन पुत्र करुप्पना गाउंडर
				592/2ए1	592/2ए1ए	निजी	शुष्क	101	गनेसन पुत्र पेरुमल गाउंडर
				592/2ए2	592/2ए2ए	निजी	शुष्क	573	बालाकृष्णन पुत्र मरप्पागाउंडर
				592/2सी1बी	592/7	निजी	शुष्क	11	1. अन्नादुरई पुत्र मुनुसामी
									2. सुदांधीरा वनीथा पत्नी अन्नादुरई
				592/2सी2	592/2सी2ए	निजी	शुष्क	65	जदियन पुत्र रामासामी
				592/2सी3	592/2सी3ए	निजी	शुष्क	60	सिधन पुत्र रामासामी
				592/3	592/3ए	निजी	शुष्क	104	पचियामल पत्नी सिधन
				592/4	592/4ए	निजी	शुष्क	16	ईलामल पत्नी राजेन्द्रन
				593/1	593/1	सरकारी	चारागाह भूमि	2900	सरकारी
			(2) अधियामन-कोट्टई	23/1ए	23/1ए2	निजी	शुष्क	900	1. मुनीयमल पत्नी सुन्दरम
									2. सेवानाथम पुत्र मेरी
				23/1बी	23/1बी2	निजी	शुष्क	310	राजु पुत्र अंधि
				23/1जी	23/1जी2	निजी	शुष्क	210	मथीयालजहान पुत्र चिन्ना नागाप्पन
				23/2ए	23/2ए	निजी	शुष्क	50	राधा रुकमनी पत्नी गणपति
				23/2बी	23/2बी2	निजी	शुष्क	2280	पेरुमल पुत्र पेरियनाप्पन
				24/4	24/4बी	निजी	शुष्क	290	गोविन्दासामी पुत्र मुनियन

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				24/5	24/5बी	निजी	शुष्क	2180	1.कृष्णन पुत्र मुनियन 2.कन्दासामी पुत्र शिवालिंगम
				24/6	24/6बी	निजी	शुष्क	220	1.मेरीयप्पन पुत्र मुनियन 2.थंगाराज पुत्र मुनियन 3.गोविन्दासामी पुत्र मुनियन 4.कृष्णन पुत्र मुनियन 5.चिन्नासामी पुत्र मुनियन 6.मुनुसामी पुत्र मुनियन 7.पचागाउंडर पुत्र मुनियन 8.चिन्नामल पत्नी जदयन 9.विरप्पन पुत्र मुनियन
				24/7	24/7बी	निजी	शुष्क	3055	चिन्नामल पत्नी जदयन
				24/8	24/8बी	निजी	शुष्क	1500	गोविन्दसामी पुत्र मुनीयन
				24/9	24/9बी	निजी	शुष्क	1220	1.माधवन पुत्र हरिवन्दन 2.शान्धी पत्नी मधियालगन 3.गाधीमथी पत्नी रवि 4.गोविन्दासामी पुत्र कुप्पुसामी 5.सान्थिलकुमार पुत्र मुनीराथिनम 6.मामल्लान पुत्र जगनाथन 7. जी सथी पुत्र गोविन्दाराजन 8.बी सेलवम पुत्र प्रसुयामन 9.जी सरनया पुत्री गोविन्दाराजन 10. आर सोमना पत्नी वेक्टावलम 11.मुनीयामल पत्नी पेरीयन्नान
				24/15	24/15बी	निजी	शुष्क	1400	1.हरीचन्द्रन पुत्र मुनीयन 2.पलानियामल पत्नी वेदीवेल 3.प्रकाशम पुत्र मरीयप्पन 4.शिवप्रकाशम पुत्र मुरुगन 5.मुनीराज पुत्र रामासामीचेति 6. सेखर पुत्र चिदम्बरम 7.गोमथी पुत्री रामदासा 8.गोपीनाथ पुत्र रामदासा 9.रंगानाथन पुत्र मरी 10.सोलामल पुत्री माधोप्पन 11.सरवणन पुत्र गोपाल

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				25/5	25/5ए	निजी	शुष्क	20	1.सनकासी @ मोटटीयन पुत्र कालीयप्पन 2. गोविंदमल पत्नी कृष्णन 3. कोथावरी पत्नी चिन्नावन 4. पचियमल पत्नी गोविन्दन 5. लक्ष्मी पत्नी पेरीयासामी 6. पेरीयासामी पुत्र मुनुगाउंडर
				25/6	25/6ए	निजी	शुष्क	140	कालीममल पत्नी मुथालाक्कारन @ गोविन्दन
				25/7	25/7ए	निजी	शुष्क	440	माटटीयन @ कोनधि पुत्र कुल्लान @ कोनधि
				25/8	25/8ए	निजी	शुष्क	750	राधा रुकमनी पत्नी गणपति
				25/9	25/9	निजी	शुष्क	450	पेरुमल पुत्र पेरीयनागापन
				25/10	25/10ए	निजी	शुष्क	1030	1. नारायणन पुत्र पेरीयनागापन 2. लक्ष्मी पत्नी ईलानगोवन
				26/1	26/1बी	निजी	शुष्क	1500	पेरुमल पुत्र पेरीयनागापन
				26/2	26/2ए	निजी	शुष्क	1100	1. नारायणन पुत्र पेरीयनागापन 2. लक्ष्मी पत्नी ईलानगोवन
				26/3	26/3ए	निजी	शुष्क	450	1. कानगाराज पुत्र (स्व) मुनुसामी 2. सान्धी पुत्र कानगाराज
				26/5	26/5बी	निजी	शुष्क	900	1. वेल्लाक्कारन पुत्र मुनुसामी गाउंडर 2. कानगाराज पुत्र मुनुसामी 3. सान्धी पत्नी कानगाराज 4. कवीता पुत्री कानगाराज 5. कयन्त्री पुत्री कानगाराज 6. कासथरी पुत्री कानगाराज
				26/6	26/6बी	निजी	शुष्क	2220	1. कानगाराज पुत्र (स्व) मुनुसामी 2. सान्धी पत्नी कानगाराज
				49/1डी	49/1डी2	निजी	शुष्क	650	मुनसामी पुत्र कुल्लान @ कोलधि गाउंडर
				49/2ए	49/2ए	निजी	शुष्क	261	माटटीयन पुत्र चिन्नावन @ कालीयप्पन
				49/2बी	49/2बी	निजी	शुष्क	1600	माटटीयन पुत्र चिन्नावन @ कालीयप्पन
				49/3ए	49/3ए1	निजी	शुष्क	300	मनधि @ मेरी पुत्र पेरुमल
				49/3बी	49/3बी1	निजी	शुष्क	500	चिन्नास्सामी पुत्र मुनीन
				50/1सी	50/1सी2	निजी	शुष्क	120	1. मेरीयप्पन पुत्र कोलीगउंडर 2. मुनुसामी पुत्र कुल्लान @ कोनधि गाउंडर
				50/2	50/2बी	निजी	शुष्क	1535	चिन्नावन कालीयप्पन पुत्र मोटटीयन
				50/3ए	50/3ए1	निजी	शुष्क	1670	मेरीयप्पन पुत्र मुनीन

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				51/1	51/1ए	निजी	शुष्क	1000	1.पुसीयामल पत्नी कोनाप अदीया 2.पेरीयामल पत्नी कोनापातियान
				51/2	51/2ए	निजी	शुष्क	1940	1.पेरीयासामी पुत्र मुथुगाउंडर 2.चिन्नासामी पुत्र मुथुगाउंडर
				51/3	51/3ए	निजी	शुष्क	405	1.पेरीयासामी पुत्र मुथुगाउंडर 2.चिन्नासामी पुत्र मुथुगाउंडर
				52/1ए	52/1ए2	निजी	शुष्क	400	1.मेरीयाप्पन पुत्र जदायन @ अनीगाउंडर 2.सम्पत पुत्र जदायन @ अनीगाउंडर
				52/2	52/2बी	निजी	शुष्क	3400	1.पेरीयामल पत्नी कोनाप्प गाउंडर 2.जदायन @ अदिगाउंडर 3.पेरीमिलादेवी पत्नी मरीयप्पन
				52/4	52/4बी	निजी	शुष्क	700	कोलानिधि पुत्र पेरुमल
				52/5	52/5बी	निजी	शुष्क	480	पुन्नुसामी पुत्र पेरुमल
				52/7	52/7	निजी	शुष्क	150	1.कोलानिधि पुत्र पेरुमल 2.पुन्नुसामी पुत्र पेरुमल 3.राजु पुत्र पेरुमल 4.पेरीयासामी पुत्र मुथुगाउंडर 5.चिन्नासामी गाउंडर पुत्र मुथुगाउंडर
				87/ए1ए	87/ए1ए2	निजी	शुष्क	6	1.जमबेरी पुत्र देवराज 2.मुनियामल पत्नी मरियप्पन
				89/1	89/1ए	निजी	शुष्क	1250	1.चिन्नाकालीप्पन पुत्र पेरुमल 2.नागराज पुत्र पेरुमल 3.कालीप्पन पुत्र कीत्तन @ मेरीयप्पन 4.कावेरीममल पत्नी पेरुमल
				89/2	89/2ए	निजी	शुष्क	1240	1.पेरीयाकालियाप्पन पुत्र पेरुमल 2.कुप्पन पुत्र पेरुमल 3.नागराज पुत्र पेरुमल 4.कावेरीममल पत्नी पेरुमल 5.पेरुमल पुत्र चिन्नाप्पु @ लक्ष्मणनगाउंडर
				90/1	90/1ए	निजी	शुष्क	367	1.गणपति पुत्र पेरीयान्ना 2.विजय पत्नी मनीकिम
				93	93/1	निजी	शुष्क	1750	शानमुगम (धर्माकार्थ्या मन्दिर भूमि)

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				113/1	113/1बी	निजी	शुष्क	3600	1. वेक्टेसन पुत्र मोलायागाउंडर
									2. कालीयमल पत्नी कृष्णन
				113/2बी	113/2बी1	निजी	शुष्क	420	1. कृष्णन पुत्र कुटटीगाउंडर
									2. कालीयमल पत्नी कृष्णन
				113/2सी	113/2सी2	निजी	शुष्क	1170	1. मरीयाप्पन पुत्र कुटटीगाउंडर
									2. कालीयमल पत्नी कृष्णन
				113/2एफ2	113/2एफ2ए	निजी	शुष्क	4	1. वियापुरी पुत्र कुटटीगाउंडर
									2. कृष्णन पुत्र कुटटीगाउंडर
									3. मरीयाप्पन पुत्र कुटटीगाउंडर
									4. कालीयमल पत्नी कृष्णन
				113/2एफ3	113/2एफ3ए	निजी	शुष्क	55	वियापुरी पुत्र कुटटीगाउंडर
				113/2एफ6	113/2एफ6बी	निजी	शुष्क	1025	1. कुटटीगाउंडर पुत्र गोविन्दागाउंडर
									2. महालिंगम पुत्र पेरुमल
									3. कालीयमल पत्नी कृष्णन
				114/1	114/1बी	निजी	शुष्क	1570	मुनियामल पत्नी मरियप्पन
									जमबेई पुत्र देवराज
				114/2	114/2	निजी	शुष्क	210	1. पापथी पत्नी देवराज
									2. जमबेई पुत्र देवराज
									3. मुनियामल पत्नी मरियप्पन
				115	115/2	निजी	शुष्क	600	1. जमबेई पुत्र देवराज
									2. मुनियामल पत्नी मरियप्पन
				147/1	147/1बी	निजी	शुष्क	370	1. मुनियामल पत्नी गोविंदासामी
									2. पारासख्ठी पुत्र गोविंदासामी
									3. पुष्पावाली पुत्री गोविंदासामी
									4. वनीथा पुत्री गोविंदासामी
									5. अमसावेनी पुत्री गोविंदासामी
									6. कोमाथी पुत्री गोविंदासामी
									7. कालीमल पत्नी नारासागाउंडर
									8. अम्बालावनन पुत्री नारासागाउंडर
									9. पथराकली पुत्री नारासागाउंडर
									10. देवागी पुत्री नारासागाउंडर
									11. पलानीमल पुत्री नारासागाउंडर
									12. सारघा पुत्री नारासागाउंडर
									13. तमिलारासी पुत्री नारासागाउंडर
									14. सुलोचना पुत्री नारासागाउंडर
									15. कालीमल पुत्री नारासागाउंडर
									16. देवराज पुत्र नारासागाउंडर

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				147/2	147/2बी	निजी	शुष्क	13	कृष्णन पुत्र पाचागाउंडर
				148/1	148/1बी	निजी	शुष्क	4520	रंगनाथन पुत्र वेक्टरा गाउंडर
				148/2	148/2बी	निजी	शुष्क	2850	1. कृष्णन पुत्र कालीयप्पागाउंडर 2. मनि पुत्र बालासुब्रामनि
				148/3	148/3बी	निजी	शुष्क	505	मनिकम पुत्र गोविंदागाउंडर
				149/2बी	149/2बी1	निजी	शुष्क	730	1. कृष्णन पुत्र कालीयप्पागाउंडर 2. कालीमल पत्नी कृष्णन
				188/1	188/1ए	निजी	शुष्क	1030	1. अन्नामलाई पुत्र सुब्रामनियन 2. वेकुंदन पुत्र मरियागाउंडर
				188/2	188/2ए	निजी	शुष्क	2340	1. वेकुंदन पुत्र मरियागाउंडर 2. कालीप्पन पुत्र मायामुनियन 3. वुरई पुत्र वेकुंदन
				189/1	189/1ए	निजी	शुष्क	947	1. कृष्णन पुत्र कालीयप्पागाउंडर 2. मनि पुत्र बालासुब्रामनि
				189/2बी	189/2बी1	निजी	शुष्क	1560	1. कृष्णन पुत्र कालीयप्पागाउंडर 2. मनि पुत्र बालासुब्रामनि
				189/2सी	189/2सी2	निजी	शुष्क	4073	चिन्ना पत्नी शनमुगम
				190/1	190/1बी	निजी	शुष्क	1285	वेटरायन पुत्र रंगन
				191/1ए	191/1ए2	निजी	शुष्क	43	1. कृष्णन पुत्र कालीयप्पागाउंडर 2. मनि पुत्र बालासुब्रामनि 3. मनोहरन पुत्र कालीप्पन
				191/1बी	191/1बी2	निजी	शुष्क	1778	मनोहरन पुत्र कालीप्पन
				191/2सी	191/2सी2	निजी	शुष्क	1300	मनोहरन पुत्र कालीप्पन
				344/19	344/19बी	निजी	शुष्क	1250	1. मरिप्पन पुत्र एम. ए. मुनियन 2. मनिकम पुत्र मरिप्पन 3. कालीप्पन पुत्र गुरुनाथन 4. वाजीराम पुत्र चिन्नाकोनगिरी 5. मरिप्पन
				344/20	344/20	निजी	शुष्क	300	मुनियन पुत्र मेरी मुनियन
				344/21	344/21	निजी	शुष्क	350	1. मुनियन पुत्र मायामुनियन 2. मरिप्पन पुत्र मायामुनियन 3. पेरुमल पुत्र मायामुनियन 4. सामन पुत्र मायामुनियन 5. कालीप्पन पुत्र मायामुनियन 6. राजा पुत्र मायामुनियन
				344/22	344/22बी	निजी	शुष्क	408	1. मरिप्पन पुत्र एम. ए. मुनियन 2. मनिकम पुत्र मरिप्पन

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				344/23	344/23बी	निजी	शुष्क	240	राजा पुत्र कालीष्मन
				348/1	348/1बी	निजी	शुष्क	220	धनसेकरन पुत्र राजन
				348/2	348/2बी	निजी	शुष्क	260	लक्ष्मनन पुत्र रंगन
				348/3ए	348/3ए	निजी	शुष्क	155	लक्ष्मनन पुत्र रंगन
				348/3बी	348/3बी	निजी	शुष्क	56	गोविंदन पुत्र रंगन
				348/4	348/4ए	निजी	शुष्क	1100	1. गोविंदन पुत्र वेटरायन
									2. गोपाल पुत्र कानु @ वेटरायन
									3. मुरुगन पुत्र कानु @ वेटरायन
				348/6ए	348/6ए	निजी	शुष्क	75	लक्ष्मनन पुत्र रंगन
				348/6बी	348/6बी	निजी	शुष्क	29	गोविंदन पुत्र रंगन
				348/6सी	348/6सी1	निजी	शुष्क	440	गोविंदन पुत्र रंगन
				348/7	348/7	निजी	शुष्क	350	1. गोपाल पुत्र कानु @ वेटरायन
									2. मुरुगन पुत्र कानु @ वेटरायन
				348/8ए	348/8ए2	निजी	शुष्क	150	कृष्णनन पुत्र वेटरायन
				348/9	348/9बी	निजी	शुष्क	670	कृष्णनन पुत्र गोविंदन @ वेटरायन
				348/10	348/10	निजी	शुष्क	300	मरिमुथु पुत्र कानु @ वेटरायन
				348/11	348/11ए	निजी	शुष्क	530	1. मुथिवेदीयामल पत्नी कानु @ वेटरायन
									2. मरिमुथु पुत्र कानु @ वेटरायन
				348/12	348/12ए	निजी	शुष्क	500	1. मरिमुथु पुत्र कानु @ वेटरायन
									2. गोविंदासामी पुत्र मरिमुथु
				349/1	349/1बी	निजी	शुष्क	95	1. रंगन पुत्र वेटरायन
									2. पत्तानीमल पत्नी राजा
				349/2	349/2बी	निजी	शुष्क	200	धनसेकरन पुत्र राजन
				349/3	349/3	निजी	शुष्क	600	गोविंदन पुत्र रंगन
				349/4	349/4ए	निजी	शुष्क	1638	लक्ष्मनन पुत्र रंगन
				349/5	349/5	निजी	शुष्क	400	1. लक्ष्मनन (माइनर गार्डियन मदर मुथुवेदी)
									2. रंगन पुत्र वेटरायन
									3. गोविंदन पुत्र रंगन
				349/6	349/6	निजी	शुष्क	1200	1. लक्ष्मनन पुत्र रंगन
									2. गोविंदन पुत्र रंगन
				349/8	349/8ए	निजी	शुष्क	150	1. कृष्णनन पुत्र वेटरायन
									2. मुरुगन पुत्र कानु @ वेटरायन
									3. गोपाल पुत्र कानु @ वेटरायन
				349/10	349/10ए	निजी	शुष्क	400	कृष्णनन पुत्र वेटरायन
				349/11	349/11ए	निजी	शुष्क	400	कृष्णनन पुत्र गोविंदन @ वेटरायन

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				349/12	349/12ए	निजी	शुष्क	600	1. गोपाल पुत्र कानु @ वेटरायन
									2. मुरुगन पुत्र कानु @ वेटरायन
				350/1	350/1ए	निजी	शुष्क	250	1.वेटरायन पुत्र वेटरायन
									2.मरियामल पत्नी मुनुसामी
				350/2	350/2ए	निजी	शुष्क	428	गोविंदन पुत्र वेटरायन
				350/11	350/11ए	निजी	शुष्क	575	1.वेटरायन पुत्र वेटरायन
									2.मरियामल पत्नी मुनुसामी
				350/14	350/14ए	निजी	शुष्क	600	गोविंदन पुत्र वेटरायन
				350/15	350/15	निजी	शुष्क	400	गोविंदन पुत्र रंगन
				350/16	350/16ए	निजी	शुष्क	40	1.मुरुगन पुत्र कानु @ मरियाप्पन
									2.गोपाल पुत्र कानु @ मरियाप्पन
				354/1	354/1बी	निजी	शुष्क	420	1. बुवानेसवरी पत्नी वेक्टाचलम
									2. परानजोथी पत्नी गोपाल
				402/3	402/3बी	निजी	शुष्क	124	अरिकगाउडर पुत्र गोपाल
				402/4	402/4	निजी	शुष्क	1800	पुनजोलाई पुत्र पलापाटियन @ पेरियानन
				402/5	402/5ए	निजी	शुष्क	753	सुरामा पत्नी संकर
				402/7	402/7बी	निजी	शुष्क	87	कानन पुत्र पेरुमल
				403/4	403/4बी	निजी	शुष्क	100	कोलांदीई पुत्र गोपाल
				403/5	403/5बी	निजी	शुष्क	6	कृष्णन पुत्र गोपाल
				403/7	403/7	निजी	शुष्क	300	पुनजोलाई पुत्र पलापाटियन @ पेरियानन
				403/8	403/8ए	निजी	शुष्क	2020	पेरियानन पुत्र नाथापटायन @ पाचाकगाउडर
				403/9	403/9ए	निजी	शुष्क	68	सुरामा पत्नी संकर
				404/6	404/6बी	निजी	शुष्क	125	सुरामा पत्नी संकर
				404/7	404/7बी	निजी	शुष्क	1980	पेरियानन पुत्र पेरियासामी
				404/8	404/8ए	निजी	शुष्क	1550	लेनिन पुत्र कांदन
				406/3	406/3	निजी	शुष्क	590	मधायन पुत्र मेरी
				406/4	406/4	निजी	शुष्क	700	गोविंदासामी पुत्र मधायन
				408/2	408/2	निजी	शुष्क	700	अधीयामन पुत्र पेरियानन
				409/1	409/1बी	निजी	शुष्क	1165	मधायन पुत्र कुमरी
				409/2	409/2बी	निजी	शुष्क	1150	राजा पुत्र अजगन @ पेरियानन
				410/1	410/1बी	निजी	शुष्क	344	राजामनिकम पुत्र पेरियानन
				410/2	410/2	निजी	शुष्क	1950	राजा पुत्र अजगन @ पेरियानन
				410/3	410/3	निजी	शुष्क	900	1.मधायन पुत्र कशीकुटी
									2.मधायन पुत्र मेरी
				410/4	410/4	निजी	शुष्क	109	रानी पत्नी मधायन
				411/2	411/2बी	निजी	शुष्क	970	पदमा पत्नी गोविंदासामी

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				411/3	411/3ए	निजी	शुष्क	360	1. पुदालु @ पेरियानन पुत्र धीडालन
									2. पेरुमल पुत्र पेरियानन
				411/4	411/4ए	निजी	शुष्क	388	धनसेकरन पुत्र पेरुमल
				412/1	412/1बी	निजी	शुष्क	2952	नेरु @ रामामुर्धि पुत्र बीमन @ पोंडारन
				428/2	428/2बी	निजी	शुष्क	250	कोलादीवेल पुत्र मरिप्पन
				518	518/1	सरकारी	रास्ता	1544	सरकारी
				519/2	519/2ए	निजी	शुष्क	2650	1. नादुनंजन पुत्र चिन्नानंजन 2. रामाक्कल पत्नी नादुनंजन
				520	520/2	निजी	शुष्क	3100	1. मरिप्पन पुत्र मुनियन 2. कृष्णामुर्धि पुत्र मुनियन
				521/1	521/1बी	निजी	शुष्क	2000	1. मरिप्पन पुत्र मुनियन 2. मनिकम पुत्र मुनियन 3. वाजीराम पुत्र मुनियन
				521/4	521/4बी	निजी	शुष्क	200	काली पुत्र चिन्नाकानन
				521/6	521/6	निजी	शुष्क	1820	नेरु @ रामामुर्धि पुत्र बीमन @ पोंडारन
				867/1ई1वाई	867/20	निजी	शुष्क	7200	1. के. अथमानाथन 2. नंजन 3. राजगोपाल 4. गोपाल 5. गुरु @ कालीप्पन 6. थंगावेल 7. कालीप्पन 8. कावरीप्पन 9. कुंदीयामल पत्नी वेदीप्पन 10. अमराक्की 11. स्थीनामल 12. पुष्पा 13. सलामल 14. मधुमल पत्नी कंदसासी 15. सलामल पत्नी चिन्नासासी 16. सलामल पत्नी मरिप्पन 17. सांथामनि पत्नी रामासासी 18. सरवनन पुत्र पेरुमल 19. के. गीथात्कमी पत्नी गोपालाकृष्णन 20. जयाराज पुत्र मुधुकुमार 21. विमलारासी पत्नी अथमानाथन 22. पलानी पुत्र चिन्नासासी 23. पेरियनन पुत्र मधु 24. सेल्वम पुत्र गोपाल 25. पेरिक्का पत्नी मुनुसासी 26. पांडुरंगन पत्नी वेक्टरमन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				867/1ई2	867/1ई2बी	निजी	शुष्क	5391 के. गीष्वालक्ष्मी पत्नी गोपालाकृष्णन
				867/2	867/2बी	निजी	शुष्क	10400 1. के. अधमानाथन 2. गोमथी 3. गोविंदन 4. कालीगाउंडर 5. मेचेरी पुत्र लक्ष्मनन 6. कालीप्पन 7. नारायणन पुत्र अबीमानन 8. परसुरमन 9. बाधरागली पत्नी पलानी (बाधरागल @ पांडकासी) 10. सनमुगम पुत्र मुथुकुमारन 11. डी. एस. वरदामल पत्नी डी. एन. चेनप्पा अय्यर 12. कालीप्पन पुत्र इलाय्यागाउंडर 13. एम. जगन्नाथन पुत्र मुथुकुमार 14. मेचेरी पुत्र गांडकाप्पन @ लक्ष्मणागाउंडर 15. कामेकी 16. मुनुसामी 17. मनिकम 18. पोनुसामी 19. सनमुगम 20. अमरावथी 21. लक्ष्मी 22. एस./ वरसंधी 23. पलानी पुत्र चिन्नासामी 24. विमलासानी पत्नी अबामानाथन
				867/7सी	867/7सी2	निजी	शुष्क	1000 विन्नाकानु पत्नी विद्यावृत्ति
				867/7डी	867/7डी2	निजी	शुष्क	1100 1. पादाबातल पत्नी संधी 2. गनेसन पुत्र कोलांडीषेल
				867/15ए	867/15ए2	निजी	शुष्क	4000 राजामल पत्नी लक्ष्मणागाउंडर
				867/15ई	867/15ई2	निजी	शुष्क	5710 1. कुप्पामल पत्नी कोलांडीषेल 2. लक्ष्मीसंध सुंदरादा पुत्र सुंदरादास
				1064/1	1064/1बी	निजी	शुष्क	1900 1. मुनुसामी पुत्र चिन्नासामी 2. मनिकम पुत्र चिन्नासामी 3. सनमुगम पुत्र चिन्नासामी 4. राजेसवरी 5. देविंदन पुत्र कालीगाउंडर

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				1065/3	1065/3बी	निजी	शुष्क	2000	1. ए. के. कमलेशन 2. गोविंदन 3. पलानीमल पत्नी कालीगाउंडर 4. देवेदीरन पुत्र कालीगाउंडर (माइनर गार्डियन मदर पलानीमल) 5. चिन्नासामी 6. पलानीमल पत्नी शनमुगम 7. कानु @ मुनुसामी पुत्र चिन्नासामी
			(3) नल्लामपल्ली	14/1	14/1बी	निजी	शुष्क	15	1. शान्ति पुत्र कानगराज 2. गणेशन पुत्र मुनुसामी 3. कान्नाराज पुत्र मुनुसामी
				14/2	14/2बी	निजी	शुष्क	2798	1. कान्नाराज पुत्र मुनुसामी 2. शान्ति पुत्र कानगराज
				14/3	14/3बी	निजी	शुष्क	1700	1. जयलक्ष्मी पत्नी कृष्णामुर्धि 2. कविता पुत्री कृष्णामुर्धि 3. कुप्पाराज पुत्र कृष्णामुर्धि
				19	19/2 19/3	निजी	शुष्क	20 84	1. दिमारायसामी 2. वेटरायासामी) 3. एन एम वेनुगोपाल (अध्यक्ष धर्माकारथा)
				20	20/2	निजी	शुष्क	8882	1. दिमारायसामी 2. वेटरायासामी) 3. एन एम वेनुगोपाल (अध्यक्ष धर्माकारथा)
				21/1	21/1ए	निजी	शुष्क	4200	1. मदेश पुत्र कानु 2. मदन पुत्र कन्दासामी 3. मोहन पुत्र कन्दासामी
				23/1ए	23/1ए1	निजी	शुष्क	1010	रथुबालन पुत्र दोदानान
				23/1बी	23/1बी1	निजी	शुष्क	1316	1. लखन पुत्र नानजाप्पन 2. केजाराज पुत्र लखन
				27/1	27/1ए	निजी	शुष्क	810	1. पेन्नान @ मुनीराज पुत्र पेरुमल 2. दुरई @ देरईराज पुत्र पेरुमलचेति
				27/2	27/2ए	निजी	शुष्क	1500	1. पेन्नान @ मुनीराज पुत्र पेरुमल 2. दुरई @ देरईराज पुत्र पेरुमलचेति

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				28	28/1	निजी	शुष्क	74	1.चिन्नाआककुमारी पुत्र पोधीयन 2.अनबाजगन पुत्र चिन्नाआककुमारी
				36/3ए	36/3ए2	निजी	शुष्क	4	शान्ति ल सेलवन पुत्र पेरुमल
				36/3सी	36/3सी1	निजी	शुष्क	285	पेरुमल पुत्र रामागाउंडर
				37/2	37/6	सरकारी	रास्ता	2000	सरकारी
				37/5बी	37/5बी2	निजी	शुष्क	820	1.सरोजा पत्नी नटराज 2.चिन्नासामी पुत्र थाथागाउंडर 3.रंगासामी पुत्र थाथागाउंडर 4.पलानिगाउंडर पुत्र रामागाउंडर 5.अलामेलु पत्नी मनी 6.पार्वती पत्नी गोविन्दासामी 7.पलानिसामी पुत्र पविष्यन 8.कालमरी पुत्र गोकुनदाप्पन 9.अनान्धन पुत्र कृष्णन
				44/1बी2	44/1बी2बी	निजी	शुष्क	800	1.एस एम पेरुमल पुत्र नादुमरीगाउंडर 2.मरीयमल पुत्री एस एम पेरुमल 3.मरीप्पन पुत्र एस एम पेरुमल 4.मरीमुथु पुत्र एस एम पेरुमल 5.शक्तिवेल पुत्र एस एम पेरुमल
				44/2	44/2	निजी	शुष्क	300	1.एस एम पेरुमल पुत्र नादुमरीगाउंडर 2.मरीयमल पुत्री एस एम पेरुमल 3.मरीप्पन पुत्र एस एम पेरुमल 4.मरीमुथु पुत्र एस एम पेरुमल 5.शक्तिवेल पुत्र एस एम पेरुमल
				45/1ए	45/1ए2	निजी	शुष्क	2400	संगदेवन पुत्र सुनगरान @ कनिप्पन
				45/2	45/2ए	निजी	शुष्क	322	सुब्रामनी पुत्र मुनियन
				50/3	50/3बी	निजी	शुष्क	1800	1.सिधान पुत्र थंगाराज 2.सजा पुत्र थंगाराज
				50/4	50/4ए	निजी	शुष्क	1650	रेकरेन्ट एस दिन्नागरन पुत्र सलोमन सचिव ईडियन कर्ष बगलौर आई सी
				51/1बी	51/1बी2	निजी	शुष्क	1664	सुब्रामनी पुत्र मुनियगाउंडर
				51/2सी	51/2सी2	निजी	शुष्क	1595	वल्लीयमल पत्नी कालानधि
				55/2	55/2ए	निजी	शुष्क	400	1.कान्नु 2. पेरुमल पुत्र नेदुमरीगाउंडर
				227/1	227/1बी	निजी	शुष्क	448	1.जयलक्ष्मी पत्नी कृष्णामुथि 2.कविता पुत्री कृष्णामुथि 3. कुप्पाराज पुत्र कृष्णामुथि
				227/2	227/2बी	निजी	शुष्क	1850	सुब्रामनी पुत्र कसथुरी

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				228/3	228/3बी	निजी	शुष्क	780	मुरुगेशन पुत्र पेरुमल
				228/4	228/4बी	निजी	शुष्क	350	शन्धि पत्नी कानगासाज
				250/1	250/1बी	निजी	शुष्क	1660	1. चिन्नाकान्नु पुत्री पेरीयासामी 2. वेदीयमल पत्नी कन्दासामी 3. वसन्ता पत्नी सामीनाथन्
				250/2	250/2ए	निजी	शुष्क	500	1. जानकी पत्नी राजा 2. रामन पुत्र कथीरिपुराथन @ पेरुमल 3. मुर्धि पुत्र गोविन्दन 4. चिन्नाराजी पत्नी गणेशन 5. नानदन पत्नी अययादुरई 6. चिन्नापेरुमल पुत्र चिन्नासामी
				250/3	250/3बी	निजी	शुष्क	1090	1. चिन्नासामी पुत्र नादुमरी 2. शेखर पुत्र चिन्नासामी
				250/4	250/4 बी	निजी	शुष्क	300	शानमुगम पुत्र मरीप्पन
				250/5	250/5ए	निजी	शुष्क	1570	चिन्नाकान्नु पत्नी मुनीयन
				250/6	250/6बी	निजी	शुष्क	3093	1. पेरीयागाउरर पुत्र चिन्नामरी 2. अययाकान्नु पुत्र चिन्नामरी 3. कमलेशन पुत्र चिन्नामरी 4. राजामनी पुत्र चिन्नामरी 5. जनगी पत्नी राजी 6. शानमुगम पुत्र मरीप्पन 7. राजामनी पुत्र चिन्नामरी 8. वेदीयम्मल पत्नी कन्दासामी 9. कुनझीयामल पत्नी चिन्नामरी 10. पेरुमल पुत्र चिन्नामरी
				251/1ए1	251/1ए1बी	निजी	शुष्क	34	चिन्नाकान्नु पुत्र पेरीयासामी
				251/1ए3ए	251/1ए3ए	निजी	शुष्क	3380	1. चिन्नासामी पुत्र नादुमरी 2. चिन्नापेरुमल पुत्र चिन्नासामी 3. शेखर पुत्र चिन्नासामी
				251/1ए3बी	251/6	निजी	शुष्क	765	1. पोटुराज पुत्र कान्नु @ पेरुमल 2. शानमुगम पुत्र कान्नु @ पेरुमल
				251/2ए	251/2ए2	निजी	शुष्क	1128	1. चिन्नासामी पुत्र नादुमरी 2. चिन्नापेरुमल पुत्र चिन्नासामी 3. शेखर पुत्र चिन्नासामी
				252/1ए	252/1ए2	निजी	शुष्क	16	1. पेरुमल पुत्र नादुमरी 2. मरीप्पन पुत्र पेरुमल

भाग II - खण्ड 3 (1)									
1	2	3	4	5		6	7	8	9
				252/2	252/2 ए	निजी	शुष्क	150	1. मरीप्पन पुत्र परूमल 2. कन्दासामी 3. नदुमरी 4. परूमल 5. कुल्लु @ मरी
				252/3ए1	252/3ए1ए	निजी	शुष्क	1650	परूमल पुत्र नादुमरीगाउंडर
				252/3ए2	252/3ए2बी	निजी	शुष्क	2632	परूमल पुत्र नादुमरीगाउंडर
				252/3ए3	252/3ए3बी	निजी	शुष्क	2175	1. परूमल पुत्र नादुमरीगाउंडर 2. मरीप्पन पुत्र परूमल
				252/3ए4	252/3ए4बी	निजी	शुष्क	1245	1. चिन्नासामी पुत्र नादुमरीगाउंडर 2. चिन्नापरूमल पुत्र चिन्नासामी 3. शेखर पुत्र चिन्नासामी
				254/2बी	254/2बी 2	निजी	शुष्क	355	1. चिन्नाकान्नु पुत्री पेरीयासामी 2. वेदीयमल 3. कन्दासामी 4. जनकी पत्नी राजी 5. परूमल पुत्र नादुमरी 6. चिन्नासामी पुत्र नादुमरी 7. शानमुगम पुत्र मरीप्पन 8. कुनथिममल पुत्र चिन्नामरी 9. अयथाक्कान्नु पुत्र चिन्नामरी 10. कान्नु 11. चिन्नाकान्नुममल 12. चिन्नापरूमल पुत्र चिन्नासामी 13. शेखर पुत्र चिन्नासामी
				255/1ए	255/1ए2	निजी	शुष्क	1750	पविप्पन पुत्र पविप्पन
				255/1बी	255/1बी2	निजी	शुष्क	1000	1. पचीमल पत्नी देवराज 2. शिवकुमार 3. वेलायुथम 4. राजा पुत्र पविप्पन
				255/1सी	255/1सी2	निजी	शुष्क	1000	1. राजा पुत्र पविप्पन 2. पचीमल पत्नी देवराज 3. शिवकुमार 4. वेलायुथम
				255/1डी	255/1डी2	निजी	शुष्क	1200	पविप्पन पुत्र पविप्पन
				256/2	256/3	सरकारी	पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क विभाग)	172	सरकारी

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				257/2	257/2	सरकारी	पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क विभाग)	150	सरकारी
				258/2ए	258/2ए2	निजी	शुष्क	1300	1.अल्लीमुथु पुत्र नल्लागाउंडर 2.गोविन्दामल पत्नी अल्लीमुथु
				258/2बी	258/2बी	सरकारी	पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क विभाग)	150	सरकारी
				259/1ए2ए	259/3	निजी	शुष्क	665	1.सिधान पुत्र वेटरायन 2. अरंगान्नान पुत्र करीशनादार 3.मनी पत्नी मुथुकुमारन 4.चिन्नासामी पुत्र चिन्नामुनियप्पन 5.कलमरी पुत्र मुथुकुमारन 6.मलार पत्नी देवम
				259/1ए2बी	259/1ए2बी	निजी	शुष्क	450	मनी पुत्र मुथुकुमारन
				259/1बी	259/1बी	सरकारी	पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क विभाग)	150	सरकारी
				260/1डी	260/1डी2	निजी	शुष्क	1060	1.पेरुमल पुत्र कारीयानपेरुमल @ थायन 2.कृष्णाराज पुत्र जप्पानचेति 3.लक्ष्मी पत्नी राजागोपाल 4.विजयलक्ष्मी पत्नी सगदेवन 5.मनीकम पुत्र पेरुमल
				260/1ई	260/1ई2	निजी	शुष्क	628	1.थिक्कालन @ मरीप्पन पुत्र कुरीथुकरन पुत्र मरीप्पन 2.शिवलिंगम पुत्र पेरुमलगाउंडर 3.लक्ष्मी पत्नी ईश्वरन 4.राजी पत्नी पेरुमल 5.मरीमुथु पुत्र पेरुमल 6.ईश्वरन पुत्र अरीयागाउंडर 7.शमुनदेश्वरी पत्नी वदीवेल
				260/1एफ	260/1एफ	निजी	शुष्क	100	1.पेरुमल पुत्र कारीयानपेरुमल @ थायन 2.थिक्कालन @ मरीप्पन पुत्र कुरीथुकरन पुत्र मरीप्पन
				260/2	260/2	सरकारी	पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क विभाग)	150	सरकारी

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				261/3ए1ए	261/5	निजी	शुष्क	850	1.थिक्कालन @ मरीप्पन पुत्र कुरीथुकरन पुत्र मरीप्पन 2.शिवालिंगम पुत्र पेरुमलगाउंडर 3.लक्ष्मी पत्नी ईश्वरन 4.राजी पत्नी पेरुमल 5.मरीमुथु पुत्र पेरुमल 6.ईश्वरन पुत्र अरीयागाउंडर 7.शमुनदेश्वरी पत्नी वदीवेल
				261/3ए1बी	261/6	निजी	शुष्क	460	मरीमुथु पुत्र थिक्कालन @ मरीप्पन
				261/3ए1सी	261/7	निजी	शुष्क	14	थिक्कालन @ मरीप्पन पुत्र कुरीथुकरन पुत्र मरीप्पन शिवालिंगम पुत्र पेरुमलगाउंडर लक्ष्मी पत्नी ईश्वरन राजी पत्नी पेरुमल मरीमुथु पुत्र पेरुमल ईश्वरन पुत्र अरीयागाउंडर शमुनदेश्वरी पत्नी वदीवेल सेलवम पुत्र थिक्कालन @ मरीप्पन
				261/3ए1डी	261/3ए1डी	निजी	शुष्क	100	थिक्कालन @ मरीप्पन पुत्र कुरीथुकरन पुत्र मरीप्पन शिवालिंगम पुत्र पेरुमलगाउंडर लक्ष्मी पत्नी ईश्वरन राजी पत्नी पेरुमल मरीमुथु पुत्र पेरुमल ईश्वरन पुत्र अरीयागाउंडर शमुनदेश्वरी पत्नी वदीवेल
				261/3ए2	261/3ए2	निजी	शुष्क	100	मुरुगेशन पुत्र सिधान
				262	262/2	सरकारी	ओनी	690	सरकारी
				263/1एच1	263/1एच1बी	निजी	शुष्क	646	1.नागाराजी पुत्र सिधागाउंडर 2.मनी पुत्र चिन्तामनी
				263/1आई	263/1आई2	निजी	शुष्क	253	1.माईनर सुब्रामनी पुत्र सामाजायम चेतियार (गार्डियन मदर सुसिला) 2.महेश्वरी पत्नी शिवालिंगम 3.बंगादुरई पुत्र नागन
				263/1जे	263/1जे 2	निजी	शुष्क	245	चिन्नाथमबी पुत्र सिधागाउंडर
				263/2	263/2	सरकारी	पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क विभाग)	100	सरकारी

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				264/1ए	264/1ए2	निजी	शुष्क	523	1.सुब्रह्मानियम पुत्र रामाजयाचेतियार 2.रामासामी पुत्र पचिचप्पन 3.चिन्नाकुट्टी @ मुनुसामी पुत्र मुनुसामी 4.देवराजन पुत्र मनी 5.शानमुगम पुत्र कन्दासामी 6.मुरली पुत्र रामासामी 7.प्रदीपकुमार पुत्र चिदम्बरम 8.पचियमल पुत्री रामासामी
				264/1बी	264/1बी2	निजी	शुष्क	886	रदीशकुमार पुत्र चिदम्बरम
				264/1सी	264/1सी2	निजी	शुष्क	790	1.सुब्रह्मानियम पुत्र रामाजयाचेतियार 2.रामासामी पुत्र पचिचप्पन 3.चिन्नाकुट्टी @ मुनुसामी पुत्र मुनुसामी 4.देवराजन पुत्र मनी 5.शानमुगम पुत्र कन्दासामी 6.मुरली पुत्र रामासामी 7.प्रदीपकुमार पुत्र चिदम्बरम 8.पचियमल पुत्री रामासामी
				264/2	264/2	सरकारी	पोत परिवहन, सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सडक विभाग)	600	सरकारी
				265/1ए	265/1ए2	निजी	शुष्क	600	1.माईनर सुब्रह्मनी पुत्र रामाजयम चेतियार (गार्डियन मदर सुसिला) 2.महेश्वरी पत्नी शिवालिंगम 3.मदायन
				265/1बी	265/1बी2	निजी	शुष्क	1130	1.माधीयन पुत्र थिरथागीरि 2.शिवालिंगम पुत्र थिरथागीरि
				265/2	265/2	सरकारी	पोत परिवहन, सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सडक विभाग)	500	सरकारी
				266/1ए	266/1ए2	निजी	शुष्क	924	1.सुब्रह्मनि पुत्र रामाजयामचेतिई 2.अल्लीमुथु पुत्र नल्लागाउंडर 3.गणपति 4.सुब्रह्मनी
				266/1सी	266/1सी2	निजी	शुष्क	517	1.नटराजन पुत्र गोजनदाप्पान 2.वदीवेल
				266/1डी	266/1डी2	निजी	शुष्क	490	मुरुगेशन पुत्र सिधान

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				286/2	286/2	सरकारी	पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क विभाग)	250 सरकारी
				287	287/2	सरकारी	बटई	18960 सरकारी
				285/1ए	285/1ए	सरकारी	पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क विभाग)	250 सरकारी
				287/1	287/1	सरकारी	पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क विभाग)	200 सरकारी
				288/1ए	288/1ए	सरकारी	पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क विभाग)	200 सरकारी
				288/1बी1	288/1बी1ए	निजी	शुष्क	4 1. ईल्लामल पत्नी पचियप्पन 2. सुब्रामनि पुत्र पचियप्पन
				288/1बी2	288/1बी2ए	निजी	शुष्क	35 मरीप्पन पुत्र सेवाथागाउंडर
				288/2बी1	288/2बी1ए	निजी	शुष्क	275 1. कुलनधि वीरागाउंडर पुत्र 2. पंचागाउंडर 3. मधामल पत्नी एस के पलानि
				294/ 1ए	294/ 1ए1	निजी	शुष्क	205 मुथैयालामल पत्नी किचिनायडु
				294/1बी1	294/1बी1ए	निजी	शुष्क	53 अंदी @ चिन्नाथमबी पुत्र चिन्नाथमबी
				294/1बी2	294/1बी2ए	निजी	शुष्क	158 1. अंदी @ पेरुमल पुत्र कीमबन @ चिन्नाथमबी 2. वेनुगोपाल पुत्र पेरुमलगाउंडर 3. सुब्रामनी पुत्र अंदी 4. कामराज पुत्र अंदी 5. मनी पुत्र अंदी
				294/2ए	294/2ए1	निजी	शुष्क	230 6. वेनुगोपाल पुत्र पेरुमल
				294/2बी1	294/2बी1ए	निजी	शुष्क	250 कृष्णन पुत्र पेरुमल
				295/1ए	295/1ए	सरकारी	पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क विभाग)	300 सरकारी
				295/1बी1	295/1बी1ए	निजी	शुष्क	215 सदस्य कालीमगलसबा
				295/1बी2ए	295/1बी2ए	निजी	शुष्क	140 कालीप्पन पुत्र एस सी गोपाल

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				295/1बी2बी	295/1बी2बी	निजी	शुष्क	68	1.गोपाल पुत्र विन्नासामी सदस्य कालीमगलसबा
									2. कालीप्पन पुत्र एस सी गोपाल
				295/2बी1	295/2बी1ए	निजी	शुष्क	247	1.चिन्नामल पत्नी अरुमुगागाउंडर
									2.राजामनी पुत्री अरुमुगागाउंडर
									3.ईन्दरानि पुत्री अरुमुगागाउंडर
									4.रथिनामल पुत्री अरुमुगागाउंडर
									5.मीलामल पुत्री अरुमुगागाउंडर
				295/2बी2	295/2बी2ए	निजी	शुष्क	113	सदस्य कालीमगलसबा
				300/1	300/1	सरकारी	पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क विभाग)	450	सरकारी
				300/2ए	300/2ए1	निजी	शुष्क	129	1.चिन्नामल पत्नी अरुमुगागाउंडर
									2.राजामनी पुत्री अरुमुगागाउंडर
									3.ईन्दरानि पुत्री अरुमुगागाउंडर
									4.रथिनामल पुत्री अरुमुगागाउंडर
									5.मीलामल पुत्री अरुमुगागाउंडर
									6.सदस्य कालीमगलसबा
				300/2बी	300/2बी 1	निजी	शुष्क	165	1.पईचीमल पत्नी देवराज
									2.शिवकुमार
									3.वेलायुथम
				300/2सी	300/2सी1	निजी	शुष्क	160	राजा पुत्र पचिप्पन
				300/2डी	300/2डी 1	निजी	शुष्क	150	पचिप्पन पुत्र पचिप्पन
				301/1	301/1	सरकारी	पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क विभाग)	300	सरकारी
				301/2ए	301/2ए1	निजी	शुष्क	230	1.वेलु पुत्र पेरुमल
									2.परसुरामन पुत्र पेरुमल
									3.अशोकन पुत्र पेरुमल सदस्य कालीमगलसबा
									4. वेलु
									5.विमलाराजी पुत्री एन टी रामाजयम
									6. मनगायारकास्सी पुत्री एन टी रामाजयम
									7.मनजुलादेवी पुत्री एन टी रामाजयम
									8.सुब्रामनि पुत्र एन टी रामाजयम
				301/2बी	301/2बी1	निजी	शुष्क	112	वेट्टीगाउंडर पुत्र वेदीगाउंडर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				303/1ए	303/1ए	सरकारी	पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क विभाग)	300 सरकारी
				303/1बी	303/1बी1	निजी	शुष्क	150 1. जे पी पेररबगारन पुत्र जे के पट्टाबीरामाचेतियार 2. जे पी शिबकुमार पुत्र जे पी पेररबगारन 3. जे पी बाजलाजी जे पी पेररबगारन
				303/2बी1	303/2बी1ए	निजी	शुष्क	19 कृष्णन पुत्र पेरुमल
				304/1	304/1	सरकारी	पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क विभाग)	300 सरकारी
				304/2	304/2ए	सरकारी	कुटाई	200 सरकारी
				305/1	305/1	सरकारी	पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क विभाग)	150 सरकारी
				305/2	305/2ए	निजी	शुष्क	586 1. विमलारानी पुत्री एन टी समाजयम 2. मनगयारकरसी पुत्री एन टी समाजयम 3. मन्जुलादेवी पुत्री एन टी समाजयम 4. सुबीरामनी पुत्र एन टी समाजयम 5. कोनमरी पुत्र गुन्दु पत्तानि 6. चिन्नाराज पुत्र चन्दीरपिल्ले 7. एम सुबीरामनिम 8. एम मरीप्पन 9. पचिप्पन 10. गाविन्दामल पत्नी पेरीयन्ना 11. पेनजली पत्नी ईन्दुमन्न
			(4) डोकुम्बोथना- हल्ली	265/1	265/9	सरकारी	अमृत्याकित बेकार शुष्क (कसदु)	285 सरकारी
				265/2	265/10	सरकारी	कसदु	235 सरकारी
				267/1	267/1	सरकारी	बटई	700 सरकारी
				267/2ए1	267/2ए1बी	निजी	शुष्क	1176 1. धर्मातिगम पुत्र मुनुसामी 2. रामन पुत्र मुनुसामी 3. माधीयन पुत्र मुनुसामी 4. कावेरीमल पत्नी माधीयन
				267/2ए2ए	267/4	निजी	शुष्क	1003 1. कासी पुत्र मुनुसामी 2. मिथिली पत्नी चन्दीरावेलु

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				267/2ए2बी	267/5	निजी	शुष्क	10	1. शेखर पुत्र रघुथा गाउंडर
				267/2ए3	267/2ए3बी	निजी	शुष्क	861	2. कविता पत्नी शेखर
				267/2बी1ए	267/6	निजी	शुष्क	300	1. शेखर पुत्र रघुथा गाउंडर
				267/2बी1बी	267/7	निजी	शुष्क	353	2. कविता पत्नी शेखर
				267/2बी2ए	267/8	निजी	शुष्क	333	गणेशन पुत्र पेरुमल गाउंडर
				267/2बी2बी	267/9	निजी	शुष्क	306	1. कायलबीजी पुत्र देवराजी
				267/2बी3	267/2बी3बी	निजी	शुष्क	952	2. वेल्लीनगीरि पुत्र अरुमुगम
				267/2बी4	267/2बी4बी	निजी	शुष्क	354	पी ए सेलवम पुत्र अनगाप्पन
				267/2बी6	267/2बी6बी	निजी	शुष्क	329	पी ए सेलवम पुत्र अनगाप्पन
				267/3	267/3बी	निजी	शुष्क	59	1. गणेशन पुत्र अरुमुगम
				268/ए2	268/ए2	सरकारी	सड़क	450	2. रामासामी पुत्र मधाप्पन
				268/ए1बी1	268/डी	निजी	शुष्क	652	ए पार्थासार्थी पुत्र अरुमुगम
				268/ए1बी2	268/सी	निजी	शुष्क	94	1. वेल्लीनगीरि पुत्र अरुमुगम
				268/ए1सी	268/ए1सीबी	निजी	शुष्क	880	2. देवगी पत्नी पीरकाश
				268/बी1बी	268/बी1बी2	निजी	शुष्क	1406	गणेशन पुत्र पेरुमल गाउंडर
				269/1	269/1	सरकारी	सड़क	850	सरकारी
				269/2बी	269/2बी	सरकारी	सड़क	100	सरकारी
				269/2ए1ए	269/2ए1ए	निजी	शुष्क	250	मुनुसामी पुत्र रामन्ना गाउंडर
				269/2ए1सी	269/9	निजी	शुष्क	278	अनगाप्पन पुत्र पोन्नीयन
				269/2ए1डी	269/10	निजी	शुष्क	450	अनगाप्पन पुत्र पोन्नीयन
				269/2ए2ए1	269/8 269/11	निजी	शुष्क	2700 494	अनगाप्पन पुत्र पोन्नीयन
				269/2ए2ए2	269/12	निजी	शुष्क	243	1. अमरिथालिगन पुत्र शिवालिंगन
				269/3	269/3ए	निजी	शुष्क	20	2. मुनियामल पत्नी कान्दन
				269/4	269/4	निजी	शुष्क	200	3. लक्ष्मी पत्नी गणपति
				269/5	269/5	निजी	शुष्क	150	कृष्णन पुत्र विन्ना गाउंडर
				269/6	269/6बी	निजी	शुष्क	348	अनगाप्पन पुत्र पोन्नीयन
				271/1	271/1	सरकारी	सड़क	1300	अनगाप्पन पुत्र पोन्नीयन
				271/2ए2	271/2ए2बी	निजी	शुष्क	1080	1. पी ए सेलवम पुत्र पोन्नीयन
									2. पी ए सेलवम पुत्र अनगाप्पन
									पलानि पुत्र पेरुमल
									सरकारी
									कृष्णन पुत्र वैक्कटा उदय

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				271/2ए3	271/2ए3	निजी	शुष्क	400 मधु पुत्र मेरीमुथु
				271/2ए4	271/2ए4बी	निजी	शुष्क	1540 चिन्नाप्पा पत्नी मधु
				271/2ए5ए	271/2ए5ए	निजी	शुष्क	7450 1. रामाचन्द्रन पुत्र रामन्ना गाउंडर
								2. थंगाराज
								3. सनीप्पन
				271/2ए5बी	271/2ए5बी	निजी	शुष्क	2650 मुनुसामी पुत्र रामन्ना गाउंडर
				271/2बी	271/2बी	सरकारी	सड़क	1000 सरकारी
				271/3	271/3बी	निजी	शुष्क	290 अनगप्पन पुत्र पोन्नीयन
				271/5	271/5बी	निजी	शुष्क	620 अनगप्पन पुत्र पोन्नीयन
				271/7	271/7	निजी	शुष्क	900 अनगप्पन पुत्र पोन्नीयन
				271/8	271/8	निजी	शुष्क	1050 1. पी ए सेलवम पुत्र पोन्नीयन
								2. पी ए सेलवम पुत्र अनगप्पन
				277/1	277/1	सरकारी	सड़क	1050 सरकारी
				277/2ए1ए	277/6	निजी	शुष्क	492 पलानि पुत्र चिन्नामुनियन
				277/2ए1बी	277/7	निजी	शुष्क	361 मधामल पत्नी पलानि
				277/2ए1सी	277/8	निजी	शुष्क	191 जयाकोडि पत्नी पलानि
				277/2बी1ए	277/9	निजी	शुष्क	722 मधामल पत्नी पलानि
				277/2बी1बी	277/10	निजी	शुष्क	822 मुनुसामी पुत्र अन्नामलाई
				277/2बी1सी	277/11	निजी	शुष्क	785 मुनुसामी पुत्र अन्नामलाई
				277/2ए2	277/2ए2बी	निजी	शुष्क	1174 1. वल्लीममल पुत्री चिन्नामुनियन
								2. राजमल पत्नी कृष्णन
				277/2बी2	277/2बी2	सरकारी	सड़क	2150 सरकारी
				277/2सी1ए	277/12	निजी	शुष्क	676 कृष्णन पुत्र चिन्नामुनियन
				277/2सी1बी	277/13	निजी	शुष्क	300 1. मेरीप्पन पुत्र मुनियन
								2. चिन्नासामी पुत्र मुनियन
								3. मुनियामल पुत्री मुनियन
								4. सुबीरामनी पुत्र मल्लीयन
				277/2डी1ए	277/14	निजी	शुष्क	715 वेदीप्पन पुत्र मुनुसामी
				277/2डी1बी	277/15	निजी	शुष्क	869 1. देईवमुनम पुत्र वेक्टाचलम
								2. रंगानाथन् पुत्र रामाचन्द्रन
								3. मधुराज पुत्र रामाचन्द्रन
				277/2डी1सी	277/16	निजी	शुष्क	868 रंगानाथम पुत्र मुनुसामी
				277/3	277/3बी	निजी	शुष्क	767 जयाकोडि पत्नी पलानि
				277/4	277/4बी	निजी	शुष्क	188 कामवी पत्नी पेरीन्नान
				277/5	277/5बी	निजी	शुष्क	193 मेरीप्पन पुत्र मुनीन
				278	278	सरकारी	सड़क	10700 सरकारी
				279	279	सरकारी	सड़क	11100 सरकारी
				280	280	सरकारी	सड़क	8400 सरकारी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				281	281	सरकारी	सड़क	19150 सरकारी
				282	282	सरकारी	सड़क	1800 सरकारी
				285	285/2	सरकारी	बारागाह का स्थान	325 सरकारी
			(5)पगलाहल्ली	46/1	46/1	सरकारी	पोत, सड़क परिवहन एवम राजमार्ग मंत्रालय (सड़क विभाग)	450 सरकारी
				46/2ए	46/2ए1	निजी	शुष्क	315 ईजुमलाई पुत्र गोविंदचेटी पी. एम. पी. टेक्सटाईलस सपीनिंग मिल्स लि.
				47/1ए	47/1ए	सरकारी	पोत, सड़क परिवहन एवम राजमार्ग मंत्रालय (सड़क विभाग)	882 सरकारी
				47/1बी1	47/1बी1ए	निजी	शुष्क	94 राजेशवरी पत्नी मुथुसामी
				48	48/1	सरकारी	पोत, सड़क परिवहन एवम राजमार्ग मंत्रालय (सड़क विभाग)	3528 सरकारी
				49	49	सरकारी	पोत, सड़क परिवहन एवम राजमार्ग मंत्रालय (सड़क विभाग)	850 सरकारी
				50/1	50/1ए	निजी	शुष्क	150 जया
				50/2	50/2ए	निजी	शुष्क	100 मुनियामल पत्नी लिंगप्पाचेति
				50/3	50/3ए	निजी	शुष्क	10 1. सुब्बामल पत्नी नरसिहमाचेति 2. गोपाल चेति पुत्र नरसिहमाचेति 3. अरुनमुगम पुत्र गोपाल चेति
				51/1	51/1ए	निजी	शुष्क	582 नामाराजन पुत्र नारायणसामी
				51/2	51/2ए	निजी	शुष्क	488 1. रामालिंगम पुत्र करीप्पाचेति 2. सिवागननाम पुत्र करीप्पाचेति 3. मुरुगेशन पुत्र वैक्टेसन 4. जयन्धी पत्नी मुरुगेशन
				53	53/1	सरकारी	बगई	710 सरकारी
				55/1ए	55/1ए	सरकारी	पोत, सड़क परिवहन एवम राजमार्ग मंत्रालय (सड़क विभाग)	150 सरकारी
				55/1बी1	55/1बी1ए	निजी	शुष्क	665 ईथीराज पुत्र मुनियप्पागाउंडर
				55/2बी1	55/2बी1ए	निजी	शुष्क	612 1. महालिंगम 2. मुरुगेशन 3. महेंद्रन 4. मुनिराज 5. रामु 6. मुरुगेशन पुत्र वैक्टेसचेति
				56/1	56/1ए	निजी	शुष्क	414 1. सुब्रामनि पुत्र वैक्टेसचेति 2. कृष्णमूर्थि पुत्र वैक्टेसचेति

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				56/2	56/2ए	निजी	शुष्क	473	1.रमाचन्द्रन पुत्र मुनिवैति 2.धनादापानी पुत्र मरीयप्पन 3.ईटीराज पुत्र मुनियाप्पागार्डंडर
				59/1	59/1ए	निजी	शुष्क	290	1.कप्पालवैति पुत्र मुथीवैति 2.राज्जी पुत्र चेन्नाकेशवान
				59/2ए	59/2ए1	निजी	शुष्क	310	1.कप्पालवैति पुत्र मुथीवैति 2.राज्जी पुत्र चेन्नाकेशवान
				59/2बी	59/2बी1	निजी	शुष्क	298	चेन्नामल पत्नी चेन्नाकेशववैति
				60	60/1	निजी	शुष्क	1006	सदस्य कालीईमाहलसाबा कोमारापालियम
				63/1	63/1	सरकारी	पोत, सड़क परिवहन एवम राजमार्ग मंत्रालय (सड़क विभाग)	100	सरकारी
				63/2	63/2ए	निजी	शुष्क	938	सदस्य कालीईमाहलसाबा कोमारापालियम
				64/1ए	64/1ए	सरकारी	पोत, सड़क परिवहन एवम राजमार्ग मंत्रालय (सड़क विभाग)	250	सरकारी
				64/21	64/21	सरकारी	आदि द्रविड कुदारिप्पु स्ट्रीट	127	सरकारी
				64/52	64/52	सरकारी	आदि द्रविड कुदारिप्पु स्ट्रीट	76	सरकारी
				68/1	68/1	सरकारी	पोत, सड़क परिवहन एवम राजमार्ग मंत्रालय (सड़क विभाग)	250	सरकारी
				68/21	68/21	सरकारी	आदि द्रविड कुदारिप्पु कुआ वाटर टैंक	120	सरकारी
				69/1ए	69/1ए	सरकारी	पोत, सड़क परिवहन एवम राजमार्ग मंत्रालय (सड़क विभाग)	100	सरकारी
				69/1बी	69/1बी	निजी	शुष्क	466	1.कुप्पन पुत्र नागाप्पाचेतिई 2.गोविन्दन पुत्र नागाप्पाचेतिई 3.नागाप्पाचेतिई पुत्र वेन्कटाम्मचेतिई
				69/2बी	69/2बी1	निजी	शुष्क	368	1.सिधधीयन पुत्र कारीप्पाचेतिई 2.सेवानाथन पुत्र मेरी
				70/1ए	70/1ए1	निजी	शुष्क-पगलाहाली को ओपरटिव सोसाइटी	415	स्पेशल अधिकारी, पगलाहाली को0 ओपरटिव सोसाइटी
				70/2ए	70/2ए1	निजी	शुष्क-पगलाहाली को ओपरटिव सोसाइटी	342	स्पेशल अधिकारी, पगलाहाली को0 ओपरटिव सोसाइटी

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				70/3ए	70/3ए1	निजी	शुष्क पगलाहली को ओपरटिव सोसाइटी	55	स्पेशल अधिकारी, पगलाहली कोओ ओपरटिव सोसाइटी
				70/3बी	70/3बी1	निजी	शुष्क	348	वेक्टराचेति पुत्र गोविन्दप्पाचेति
				71/1	71/1ए	निजी	शुष्क	2102	1. कुटटीयाप्पाचेतिई पुत्र वेक्टरामाचेतिई 2. पेथाप्पाचेतिई @ वेक्टेसन पुत्र 3. कुटटीयाप्पाचेति
				74/1	74/1ए	निजी	शुष्क	37	1. कुटटीयाप्पाचेतिई पुत्र वेक्टरामाचेतिई 2. पेथाप्पाचेतिई @ वेक्टेसन पुत्र 3. कुटटीयाप्पाचेति
				74/2	74/2	सरकारी	वटई	650	सरकारी
				75/1	75/1ए	निजी	शुष्क	172	1. कादिरवेल पुत्र मेरीयपपागाउंडर 2. जयारामन पुत्र कुप्पागाउंडर 3. जनार्थन पुत्र स्व गुरुनाथन मुथलियार 4. पार्थीबन पुत्र स्व घनाबालमुदिलियार 5. वियापुरी पुत्र सिवानधामुदिलियार 6. कमला पत्नी स्व परमाशिवम् 7. अरुजुनन पुत्र चिन्नासामी 8. मधु पुत्र कन्दासामी 9. कावेरी पुत्र पेरुमलगाउंडर 10. सिघान पुत्र परमागाउंडर 11. एस वजराम 12. एस जयारामन 13. एस नागाराजन 14. वन्दरा पत्नी अनुबालागन 15. रेवथी पत्नी मुरुगेशन 16. कालीयामल पत्नी सेतु 17. अरुनाचलम पुत्र अन्नामलाई 18. कावेरी
				76/1ए1ए	76/1ए1ए	निजी	शुष्क	174	1. कावेरीचेति पुत्र मोबीरीचेति
					76/3	निजी	शुष्क	280	2. बाबु पुत्र दुराई 3. एस कारथिकेयन (माईनर गारजियन शुमुमार) 4. बानुप्रकाश पुत्र दुराई 5. पेरीयासामी पुत्र कालीयप्पन 6. दीपा संगमहेशवरन
				76/1ए1बी	76/1ए1बी	निजी	शुष्क	160	वरधाराज पुत्र रामासामीचेति
				76/1ए2	76/1ए2ए	निजी	शुष्क	129	1. शंकरामल पत्नी बालाकृष्णन् 2. पुष्पाबासानी पत्नी माधियान

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				76/1बी	76/1बी1	निजी	शुष्क	112	इन्दरानी पत्नी पेरियासामी
				77/2ए	77/2ए1	निजी	शुष्क	883	घनापाल पुत्र चेतियाप्पन @मेचिरीगाउंडर
				78	78	सरकारी	बटई	38850	राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क के ऊपर
				79/2	79/2	सरकारी	पोत, सड़क परिवहन एवम राजमार्ग मंत्रालय (सड़क विभाग)	300	सरकारी
				80/1ए1	80/1ए1बी	निजी	शुष्क	926	तमिलनाडु समाल इन्डसिड्रज डिवलपमेन्ट क्रापोरसन्
				80/1बी	80/1बी	सरकारी	पोत, सड़क परिवहन एवम राजमार्ग मंत्रालय (सड़क विभाग)	950	सरकारी
				80/2ए2	80/2ए2बी	निजी	शुष्क	1043	तमिलनाडु समाल इन्डसिड्रज डिवलपमेन्ट क्रापोरसन्
				80/3ए1	80/3ए1बी	निजी	शुष्क	660	तमिलनाडु समाल इन्डसिड्रज डिवलपमेन्ट क्रापोरसन्
				80/3ए2बी	80/3ए2बी	निजी	शुष्क	180	यशोदा पत्नी रामालिगम
				81/1	81/1बी	निजी	शुष्क	400	पी एम सुब्रामानिन पुत्र पी के मुथुसामी
				81/2	81/2	सरकारी	पोत, सड़क परिवहन एवम राजमार्ग मंत्रालय (सड़क विभाग)	300	सरकारी
				82/1	82/1बी	निजी	शुष्क	67	पी एम सुब्रामानिन पुत्र पी के मुथुसामी
				82/2	82/2	सरकारी	पोत, सड़क परिवहन एवम राजमार्ग मंत्रालय (सड़क विभाग)	300	सरकारी
				83/2	83/2	सरकारी	पोत, सड़क परिवहन एवम राजमार्ग मंत्रालय (सड़क विभाग)	200	सरकारी
				84/2	84/2	सरकारी	पोत, सड़क परिवहन एवम राजमार्ग मंत्रालय (सड़क विभाग)	200	सरकारी
				120/1जी	120/1जी2	निजी	शुष्क	22	लक्ष्मी पत्नी करियाप्पन
				121	121/2	सरकारी	कोईल	87	सरकारी
				122/1	122/1बी	निजी	शुष्क	47	1.रमन पुत्र गणेशन 2.गोविन्दन पुत्र गणेशन 3.सेलवम पुत्र गणेशन 4.वीरप्पन पुत्र चिन्नाईयागाउंडर
				122/2	122/2बी	निजी	शुष्क	63	1.मुनुसामी पुत्र सुन्दिरागाउंडर 2.राजन्द्रेन पुत्र थंगावेल 3.सेत्तु पुत्र पेरियासामी 4.अनबाजलागन पुत्र नागाप्पन

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				122/3	122/3बी	निजी	शुष्क	281	1.पेरुमल पुत्र गोविन्दागाउँडर 2.मरीयाप्पन पुत्र कान्नीप्पन 3.अरसांगानावागो पत्नी दुराईसज 4.पेरुमल
				130/2ए1	130/2ए1बी	निजी	शुष्क	388	1.माईलि पत्नी मधु 2.सरोजा पत्नी वेकांगाउँडर 3.सिगाराम पुत्र पलानिगाउँडर 4.दुराईसामी पुत्र मेरीमुथुगाउँडर 5.तमिलारासी पत्नी सिगराम 6.मक्कुल पुत्र धाथासगीर 7.मधु पुत्र कालानिधि @ मूरीमुथु 8.शारदा पत्नी मुरुगन 9.तमिलारासी पत्नी सिगराम 10.कविता पत्नी मुरुगन 11. अरुल
				130/2ए2	130/2ए2बी	निजी	शुष्क	71	प्रभाकरन पुत्र कलमेरी
				130/2बी	130/2बी2	निजी	शुष्क	91	गणेशन पुत्र वेनगागाउँडर
				130/2सी	130/2सी2	निजी	शुष्क	124	शनमुगम पुत्र चिन्नावेति
				130/3बी	130/3बी2	निजी	शुष्क	215	1.माईलि पत्नी मधु 2.सरोजा पत्नी वेकांगाउँडर 3.सिगाराम पुत्र पलानिगाउँडर 4.दुराईसामी पुत्र मेरीमुथुगाउँडर 5.तमिलारासी पत्नी सिगराम 6.मक्कुल पुत्र धाथासगीर 7.मधु पुत्र कालानिधि @ मूरीमुथु 8.शारदा पत्नी मुरुगन 9.तमिलारासी पत्नी सिगराम 10.शनमुगम पुत्र चिन्नावेति
				130/7बी1	130/7बी1बी	निजी	शुष्क	125	तमिलारासी पत्नी सिगराम
				130/7बी2	130/7बी2बी	निजी	शुष्क	124	शनमुगम पुत्र चिन्नावेति
				130/7बी3	130/7बी3बी	निजी	शुष्क	133	तमिलारासी पत्नी सिगराम
				130/8	130/8बी	निजी	शुष्क	381	तमिलारासी पत्नी सिगराम
				131/2	131/2बी	निजी	शुष्क	197	1.मनीकम पुत्र कुप्पाधिगाउँडर 2.रवि @ धनधापानि पुत्र काननपान 3.मनी पुत्र सख्तिगाउँडर 4.शनमुगम पुत्र चिन्नावेति
				131/3	131/3बी	निजी	शुष्क	223	कानदन पुत्र कुप्पाधिगाउँडर
				131/4	131/4बी	निजी	शुष्क	283	1.पेरामगाउँडर पुत्र कोलानीधिगाउँडर 2.रवि पत्नी पेरियासामी 3.हनुमनथन 4.सेलवाराज 5.ईनबान

भाग II - खण्ड 3(ii)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				131/5	131/5बी	निजी	शुष्क	282	पेरीयानान पुत्र कोलानीधिगाउंडर
				260/1	260/1ए	निजी	शुष्क	97	कोनमेरीगाउंडर पुत्र पलानिगाउंडर
				260/2	260/2ए	निजी	शुष्क	283	पचीयाप्पन पुत्र पचीयाप्पन
				261/1	261/1ए	निजी	शुष्क	80	नेटशन पुत्र करीयन @ पेरुमल
				261/2	261/2ए	निजी	शुष्क	140	मुथुकरुपोन्नाप्पान पुत्र कुटटीयागाउंडर
				261/3	261/3ए	निजी	शुष्क	169	मनी पुत्र वेक्टरामानायडु
				261/6	261/6ए	निजी	शुष्क	69	1.मनी पुत्र वेक्टरामानायडु 2.मुथु पुत्र मुथुगाउंडर 3.विगनेश (माईनर) 4.कालीयप्पन
				264/1	264/1	सरकारी	अदी-द्राविडर कुटीरिप्पु सड़क मार्गिन	314	सरकारी
				264/16	264/16	सरकारी	अदी-द्राविडर कुटीरिप्पु सड़क	19	सरकारी
				264/37	264/37	सरकारी	अदी-द्राविडर कुटीरिप्पु मन्दिर स्थान	8	सरकारी
				265/1	265/1	सरकारी	सड़क मार्गिन	600	सरकारी
				265/2सी	265/2सी1	निजी	शुष्क	13	1.नारायणसामी पुत्र कुटटीयागाउंडर 2.नारासिगाराज पुत्र रंगासामीनायडु
				270/1	270/1ए	निजी	शुष्क	232	रामालिंगम पुत्र अरीयागाउंडर
				270/2	270/2ए	निजी	शुष्क	109	पेरुमल पुत्र कुटटीयागाउंडर
				270/3	270/3ए	निजी	शुष्क	123	वेटटीगाउंडर पुत्र वेटटीगाउंडर
				271/1	271/1ए	निजी	शुष्क	255	नारायणसामी पुत्र अरीयागाउंडर
				271/3	271/3ए	निजी	शुष्क	221	नारायणसामी पुत्र अरीयागाउंडर
				274/1	274/1ए	निजी	शुष्क	285	1.पेरुमल पुत्र वेटटीगाउंडर 2.पेरुमल पुत्र नरसिम्नसामी 3.रामाजेयमचेतियार पुत्र देगाचेत्तामचेतियार 4.अरुल (माईनर गारजियन मदर सालामल) 5.धनाबकियम 6.कृष्णन पुत्र पेरुमलगाउंडर
				274/2	274/2ए	निजी	शुष्क	335	कमला पत्नी राजागोपाल
				275	275/1	निजी	शुष्क	683	श्री नरसिम्हा स्वामी कोईल
				277/1ए	277/1ए	निजी	शुष्क	46	पेरुमल पुत्र गोविन्दन
				277/1डी	277/1डी1	निजी	शुष्क (रास्ता)	25	रास्ते के ऊपर
				277/1ई	277/1ई	निजी	शुष्क	55	कुरे की जगह
				277/1एफ	277/1एफ1	निजी	शुष्क	3	1.पी पेरुमल 2.पी कृष्णन 3.पसुपति
				277/1 आई	277/1आई2	निजी	शुष्क (रास्ता)	248	रास्ते के ऊपर
				277/1जे	277/1जे 1	निजी	शुष्क	1	के गोविन्दासामी
				277/2	277/2ए	निजी	शुष्क	170	पेरीयाराज

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				277/3	277/3ए	निजी	शुष्क	165 गोपाल
				277/4	277/4ए	निजी	शुष्क	146 चिन्नाराज
				278/1	278/1ए	निजी	शुष्क	236 कमलेशन पुत्र परुमल
				278/2	278/2ए	निजी	शुष्क	403 सीधन
				278/3	278/3ए	निजी	शुष्क	275 वेटीगाउंडर पुत्र वेटीगाउंडर
				279/1	279/1ए	निजी	शुष्क	528 1. काननमल पत्नी मनीकम 2. परुमा पुत्र मनीकम 3. परुमल पुत्र मनीकम 4. मनी पुत्र मनीकम 5. मनीकम पुत्र मनीकम 6. मंगा पुत्री मनीकम 7. दुराई @ सेनथीपाथि पुत्र मनीकम
				280/1ए	280/1ए	निजी	शुष्क	8 पी मनीकम
				280/1बी	280/1बी	निजी	शुष्क	8 पी @ एम चेलाकुट्टी
				280/1सी	280/1सी	निजी	शुष्क	8 अरीयागाउंडर
				280/1डी	280/1डी	निजी	शुष्क	8 1. एम अरीयागाउंडर 2. एम चेलाकुट्टी 3. मनीकम
				280/1ई1	280/1ई1ए	निजी	शुष्क	124 1. मनीकम पुत्र परुमल 2. एस अरीयागाउंडर पुत्र परुमल
				280/1ई2	280/1ई2	निजी	शुष्क	50 परुमल पुत्र चेलाकुट्टी
				280/1ई3	280/1ई3	निजी	शुष्क	50 अरीयागाउंडर पुत्र चेलाकुट्टी
				280/1ई4	280/1ई4	निजी	शुष्क	50 मनीकम पुत्र चेलाकुट्टी
				280/1ई5	280/1ई5	निजी	शुष्क	50 माधवन पुत्र चेलाकुट्टी
				280/1ई6	280/1ई6	निजी	शुष्क	50 परुमल पुत्र चेलाकुट्टी
				280/1ई7	280/1ई7ए	निजी	शुष्क	46 1. मनीकम पुत्र परुमल 2. परुमल पुत्र चेलाकुट्टी 3. अरीयागाउंडर पुत्र परुमल
				280/1ई8	280/1ई8ए	निजी	शुष्क	59 परुमल पुत्र चेलाकुट्टी
				281	281/1	सरकारी	बटई	366 सरकारी
				285/2	285/2ए	निजी	शुष्क	752 सरस्वती पत्नी मनी
				286/1एच	286/1एच	सरकारी	आदि-डिविडर कुदीरिपु सड़क	74 सरकारी
				286/1ओ	286/1 ओ	सरकारी	आदि-डिविडर कुदीरिपु कुआ	162 सरकारी
				286/1पी	286/1पी	सरकारी	आदि-डिविडर कुदीरिपु नारंग खाली जगह	202 सरकारी
				292/1ए	292/1ए1	निजी	शुष्क	51 1. सेवथान @ चिन्नाथामबी पुत्र मेरीगाउंडर 2. जानुना
				292/1सी1	292/1सी1	निजी	शुष्क	596 चिन्नासामी पुत्र मेचिरीगाउंडर
				292/1डी	292/1डी1	निजी	शुष्क	253 थंगावेल पुत्र मेचिरीगाउंडर
				292/1ई	292/1ई1	निजी	शुष्क	2036 धनापाल पुत्र चेत्तियापन @ मेचिरीगाउंडर
				293	293	सरकारी	बटई	18550 राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क के ऊपर
				294/1ए	294/1ए	निजी	शुष्क	300 थलीकोनधन पुत्र पोन्नुसामी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				294/1बी	294/1बी	निजी	शुष्क	200	धनासेखरन पुत्र वेनुगोपाल
				294/1सी	294/1सी2	निजी	शुष्क	193	मनोहरन पुत्र पुन्नुसामी
				294/1डी	294/1डी2	निजी	शुष्क	227	वेटटीगाउंडर पुत्र वेटटीगाउंडर
				294/2	294/2बी	निजी	शुष्क	600	1.पेरैयाराज पुत्र रानगन 2.चिन्नाराज पुत्र रानगन 3.गोपाल पुत्र रानगन
				295/1	295/1बी	निजी	शुष्क	370	पेरुमल पुत्र कुट्टीयागाउंडर
				295/2	295/2बी	निजी	शुष्क	766	1.नारायणसामी पुत्र कुट्टीयागाउंडर 2.गोविन्दासामी पुत्र कुट्टीयागाउंडर
				296	296/2	निजी	शुष्क	1018	1.कलमरी पुत्र पेरैयाराज @पेरुमल 2.मुरुगेन पुत्र पलानि 3.रामाजयामचेतियार पुत्र देजाचालम 4.गोपाल 5.चिन्नाराजी पुत्र मुथुकुमारन 6.मनी पुत्र मुथुकुमारन 7.कोलानिधि पुत्र मुथुकुमारन 8.चिन्नासामी पुत्र कुट्टीयागाउंडर 9.मुथुकुमारन पुत्र कुट्टीयागाउंडर 10.मरीयाप्पन पुत्र पलानि 11.मुथु पुत्र वेदीवेल 12.सिधान पुत्र कालीयाप्पन
				297/1	297/1बी	निजी	शुष्क	550	1.सान्ता पत्नी चिन्नासामी 2.राजामनी पुत्र गोविन्दन 3.वेदीयाप्पन पुत्र गोविन्दन 4.गांधी पुत्र गोविन्दन 5.जदयान पुत्र वेल्लीयागाउंडर 6.चिन्नासामी पुत्र वेल्लीयागाउंडर
				297/2ए	297/2ए2	निजी	शुष्क	273	1.मुथु पुत्र कन्दासामी 2.अन्बु पुत्र कन्दासामी
				297/2बी	297/2बी2	निजी	शुष्क	198	कासी पुत्र कन्दासामी
				298	298	सरकारी	श्री नरसिम्हा- स्वामी कोईल	550	श्री नरसिम्हा स्वामी कोईल
				305	305/2	निजी	शुष्क	872	राजाजी पुत्र कृष्णन
				316/1	316/1	निजी	शुष्क	108	आर कीलीमल
				316/2	316/2	निजी	शुष्क	42	आर गोविन्दासामी
				316/3	316/3	निजी	शुष्क	41	पी सीदामल
				316/4ए	316/4ए2	निजी	शुष्क	478	1.गोविन्दासामी पुत्र रामासामीगाउंडर 2.कोलानिधि पुत्र कोरानकुट्टी 3.जयारामन पुत्र पेरुमलगाउंडर 4.पलनियामल पत्नी पेरुमल 5.कावेरी पुत्र पेरुमल

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				316/4डी	316/4डी	निजी	शुष्क	50	पलानियामल पत्नी पेरुमल-
				316/4ई1	316/4ई1	निजी	शुष्क	50	1.गोविन्दासामी पुत्र रामासामीगाउंडर 2.कोलानिधि पुत्र कोरानकुट्टी 3.जयारामन पुत्र पेरुमलगाउंडर 4.पलनियामल पत्नी पेरुमल 5.कावेरी पुत्र पेरुमल
				316/4ई2	316/4ई2	निजी	शुष्क	100	पेरुमल पुत्र चेल्लाकुट्टी
				316/4ई3	316/4ई3बी	निजी	शुष्क	785	1.गोविन्दासामी पुत्र रामासामीगाउंडर 2.कोलानिधि पुत्र कोरानकुट्टी 3.जयारामन पुत्र पेरुमलगाउंडर 4.पलनियामल पत्नी पेरुमल 5.कावेरी पुत्र पेरुमल
				317	317/2	निजी	शुष्क	1076	1.कलमरी पुत्र पेरीयाराज @ पेरुमल 2.मुरुगेन पुत्र पलानि 3.रामाजयामचेतियार पुत्र देजाचालम 4.गोपाल 5.चिन्नाराजी पुत्र मुथुकुमारन 6.मनी पुत्र मुथुकुमारन 7.कोलानिधि पुत्र मुथुकुमारन 8.चिन्नासामी पुत्र कुट्टीयागाउंडर 9.मुथुकुमारन पुत्र कुट्टीयागाउंडर 10.मरीयाप्पन पुत्र पलानि 11.मुथु पुत्र वेदीवेल 12.सिधान पुत्र कालीयाप्पन
				318/1ए	318/1ए2	निजी	शुष्क	218	1.दारीसिल @ मुनुसामी पुत्र चिन्नापेरुमल 2.रामागाउंडर पुत्र चिन्नापेरुमल 3.चिन्नाकावेरी पुत्र चिन्नापेरुमल 4.पोवागाउंडर पुत्र चिन्नापेरुमल 5.चिन्नापिल्लै पत्नी मुनुसामी 6.गोविन्दासामी पत्नी पेरीयानान 7.नटेशन पुत्र काकायीन @ मेच्चिगाउंडर
				318/1बी	318/1बी2	सरकारी	पोत, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (सड़क विभाग)	1050	सरकारी
				329	329/2	सरकारी	बटई	638	सरकारी
				330/1	330/1बी	सरकारी	पोत, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (सड़क विभाग)	83	सरकारी

भाग III - खण्ड 3 (II)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				330/2ए1	330/2ए1बी	निजी	शुष्क	121 चिन्नाथमबी पुत्र बुधन @ अरीयागाउंडर
				330/2ए2	330/2ए2बी	निजी	शुष्क	340 चिन्नासामी पुत्र कोलानधियाप्पन
				330/2ए3	330/2ए3बी	निजी	शुष्क	530 कमलेशन पुत्र कोलानधियाप्पन कान्नु पुत्र कोलादियाप्पन
				330/2ए4	330/2ए4बी	निजी	शुष्क	1085 नाडुपट्टीयन @ कन्दासामी गाउंडर पुत्र कावेरीगाउंडन
				330/2बी	330/2बी2	सरकारी	पोत, सड़क परिवहन एवम राजमार्ग मंत्रालय (सड़क विभाग)	2717 सरकारी
				502	502	सरकारी	बटई	20300 राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क के ऊपर
				503/1	503/1बी	निजी	शुष्क	2169 1. नारायणसामी पुत्र चिन्नासामीनायडु 2. जयदन @ प्रेमागाउंडर पुत्र वेक्टरसामी गाउंडर
				503/2	503/2बी	निजी	शुष्क	705 नारायणसामी पुत्र चिन्नासामीनायडु
				504	504/2	निजी	शुष्क	1604 नारायणसामी पुत्र चिन्नासामीनायडु
				505/1	505/1बी	निजी	शुष्क	1050 1. कान्नागी पत्नी रंगानाथन 2. कमलाकान्दन पत्नी सक्कारवेवेतिई 3. मुरुगेशन पत्नी सक्कारवेवेतिई 4. पेरुमल पुत्र मनिकम 5. एस पी सुब्रामनि 6. रामालिंगम् 7. कान्नामल पत्नी राजा 8. वदीवेल 9. अमुधा पत्नी मुरुगन 10. मुरलीराजा पुत्र पानजानाथम् 11. पेरीयासामी पुत्र चिन्नासामी
				505/2	505/2बी	निजी	शुष्क	234 पेरीयासामी पुत्र चिन्नासामी
				505/3	505/3बी	निजी	शुष्क	55 1. अमुधा पत्नी मुरुगन 2. पेरीयासामी पुत्र चिन्नासामी
				505/4	505/4बी	निजी	शुष्क	262 अमुधा पत्नी मुरुगन
				505/5	505/5बी	निजी	शुष्क	1436 1. कान्नागी पत्नी रंगानाथन 2. कमलाकान्दन पत्नी 2. मुरुगेशन पत्नी सक्कारवेवेतिई 4. पेरुमल पुत्र मनिकम 5. एस पी सुब्रामनि 6. रामालिंगम् 7. कान्नामल पत्नी राजा 8. वदीवेल 9. अमुधा पत्नी मुरुगन 10. मुरलीराजा पुत्र पानजानाथम् 11. पेरीयासामी पुत्र चिन्नासामी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				507/1	507/1बी	निजी	शुष्क	1195 राजेन्द्रन पुत्र ल्थीनासामपथि चेतिई
				507/2	507/2	सरकारी	बालुवर कुदीरिप्पु	294 सरकारी
				508/2	508/2बी	निजी	शुष्क	536 1. राजामनी पुत्र मादीयन 2. समपथ पुत्र मुथुकुमार
				508/3	508/3बी	निजी	शुष्क	556 माधीयान पुत्र माधीयन
				508/7	508/7बी	निजी	शुष्क	1230 कशीकालान पुत्र कन्दसासी
				509/3	509/3बी	निजी	शुष्क	662 माधीयान पुत्र सिधागाउंडर
				509/4	509/4बी	निजी	शुष्क	152 माधीयान पुत्र सिधागाउंडर
				509/5	509/5बी	निजी	शुष्क	440 अरीयागाउंडर पुत्र कुरुमबापट्टी
				509/7बी	509/7बी2	निजी	शुष्क	390 चिन्नासेदान पुत्र सेल्लाकुट्टी
				509/8	509/8बी	निजी	शुष्क	373 पेरीयासेदान पुत्र सेल्लाकुट्टी
				509/11	509/11बी	निजी	शुष्क	440 मनीकम पुत्र सेल्लाकुट्टी

[फा. सं. भाराप्र्रा/तक/एलए/केटी/धर्मापुरी 3(ए) 11/2006]

प्रभाकर, उप-सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**(Department of Road Transport and Highways)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th March, 2007

S.O. 343(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways), number S.O.1710 (E), dated the 5th October, 2006, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), and issued under sub-section(1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.7 on the stretch of land from Km 113.275 to Km 163.000 (Krishnagiri-Thoppur Ghat Section) in District Dharmapuri, in the State of Tamil Nadu;

And whereas the substance of the said notification has been published in "The Hindu", and in "Dhinanthi", both dated the 5th November, 2006 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on the date of publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km 113.275 to Km 163.000 (Krishnagiri - Thoppur Ghat Section) on the National Highways No. 7 in the State of Tamil Nadu

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey number		Type of land	Nature of land	Area (in square meters)	Name of the land owners/ Interested persons
				Before Sub division	After Sub division				
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1	Dharmapuri	Dharmapuri	(1) Palayam	40/2A	40/2A1	Private	Dry	900	1.P.M.P Textile Spinning Mill
				40/2B	40/2B1	Private	Dry	153	1.Subramani S/o Muthusamy gounder
				42/2C	42/2C1	Private	Dry	72	1.Govindan S/o Siddan
				42/2D	42/2D1	Private	Dry	52	1.Rajammal W/o Periya Madhu 2.Jayavel S/o Periyannan
				42/2E	42/2E1	Private	Dry	83	1.Rajathi W/o Siddan 2.Balaraman S/o Palani Gounder 3.Kandasamy S/o Palani gounder
				42/2F	42/2F1	Private	Dry	294	1.Rajammal W/o Peria Madhu 2.Jayavel S/o Periyannan 3.Thangaraj S/o Kaliappan 4.Settu S/o Raji 5.Hanumanthan S/o Perama Gounder 6.Selvaraj S/o Perama Gounder
				42/2G	42/2G1	Private	Dry	206	Paneerselvam S/o Periyannan
				43/2B	43/2B1	Private	Dry	517	1.Shanmugam S/o Gurunathachetty 2.Chinnasamy S/o Gurunathachetty
				43/1B3	43/3	Private	Dry	598	1.Pari S/o Muniappan 2.Mani S/o Govindasamy 3.Siddan S/o Kuppachi gounder
					43/1B3B	Private	Dry	100	4.Rajendiran S/o Pachiappan 5.Govindan S/o Siddan 6.Siddammal W/o Govindan
				43/1B5	43/1B5A	Private	Dry	918	1.Manikkam S/o Kuppachi Gounder 2.Pappa W/o Manikkam 3.Rangasamy S/o Manikkam
				150/2D	150/2D1	Private	Dry	150	1.Govindasamy S/o Raja gounder 2.Viswanathan S/o Raja gounder 3.Kannammal W/o Periyannan 4.Palanigounder S/o Raja gounder 5.Murugan S/o Raja gounder 6.Radhakrishnan S/o Periyannan (Minor Guardian mother Chinnammal)
				150/2E1	150/2E1A	Private	Dry	107	1.Siddan S/o Periyannan 2.Viswanathan S/o Rajagounder 3.Chinnammal W/o Murugan 4.Kannammal W/o Periyannan 5.Paneerselvam S/o Periyannan
				150/2E2	150/2E2A	Private	Dry	185	Kannammal W/o Periyannan
				150/2E3	150/2E3A	Private	Dry	98	1.Siddan S/o Periyannan 2.Viswanathan S/o Rajagounder 3.Chinnammal W/o Murugan 4.Kannammal W/o Periyannan 5.Paneerselvam S/o Periyannan
				150/2F	150/2F1	Private	Dry	804	1.Siddan S/o Murugan 2.Radhakrishnan S/o Murugan 3.Palanigounder S/o Murugan
				151/1A	151/1A1	Private	Dry	137	1.Vasantha W/o Periyannan 2.Minors Thenral, Elanthenral 3.Guardian mother Vasantha
				151/1B	151/1B1	Private	Dry	112	Periyasamy S/o Munuamy
				151/5	151/5A	Private	Dry	109	1.Perumal S/o Periyannan 2.Minors Madesh, Selvam Guardian mother Lakshmi
				151/6	151/6A	Private	Dry	38	Gopalakrishnan S/o Periyannan

[PART II - Sec. 3(ii)]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				151/8	151/8A	Private	Dry	6	1.Panchali W/o Arjunan 2.Abimannan S/o Arjunan 3.Natesan S/o Arjunan 4.Minor Thirupath S/o Subramani 5.Krishnamoorthi S/o Arjunan
				162/1	162/1A	Private	Dry	215	1.Loganathan S/o Sarkarai 2.Panceerselvam S/o Sarkarai
				162/2A	162/2A1	Private	Dry	210	1.Loganathan S/o Sarkarai 2.Panceerselvam S/o Sarkarai
				162/2D	162/2D1	Private	Dry	51	1.Natesan S/o Arjunan 2.Subramaniyan S/o Arjunan 3.Kanagan S/o Arjunan 4.Krishnamoorthy S/o Arjunan 5.Appadhurai S/o Arjunan 6.Annadhurai S/o Arjunan 7.Abimanan S/o Arjunan , 8.Panchali W/o Arjunan 9.Peniyasamy S/o Munusamy 10.Thirupath S/o Subramani(minor)
				163	163/1	Govern ment	Battai	1412	Government
				169/2A1	169/2A1A	Private	Dry	23	Kanagan S/o Raju @ Marimuthu
				169/2A2	169/2A2A	Private	Dry	26	1.Muniammal W/o Raji 2.Chandran S/o Raji
				169/2B	169/2B1	Private	Dry	65	1.Kuppamuthu S/o Muthu 2.Madhu S/o Ponnu @ Kuppamuthu 3.Murugan S/o Kuppamuthu 4.Kandasamy S/o Kuppamuthu
				169/2D1	169/2D1A	Private	Dry	75	1.Muniammal W/o Raji 2.Chandran S/o Raji
				169/2E	169/2E1	Private	Dry	310	1.Kuppamuthu S/o Muthu 2.Madhu S/o Ponnu @ Kuppamuthu 3.Murugan S/o Kuppamuthu 4.Kandasamy S/o Kuppamuthu
				169/2F1	169/2F1A	Private	Dry	110	Kanagan S/o Raju @ Marimuthu
				169/2F2	169/2F2A	Private	Dry	137	1.Banumathi W/o Nagarajan 2.Muniammal W/o Raji 3.Chandran S/o Raji
				169/2G	169/2G1	Private	Dry	53	Kalaiselvi W/o Harikrishnan
				170/1A	170/1A1	Private	Dry	249	Kalaiselvi W/o Harikrishnan
				170/1B	170/1B1	Private	Dry	242	1.Muniammal W/o Raji 2.Chandran S/o Raji 3.Muniappen S/o Srinivasan
				170/2B	170/2B1	Private	Dry	876	Beemagounder S/o Muniyan
				170/2C	170/2C1	Private	Dry	123	1.Sampath @ Shanmugam S/o Munusamy @ Naduppagounder 2.Govindammal W/o Munusamy @ Naduppagounder 3.Sivamunigan S/o Munusamy @Naduppagounder
				172/2	172/2	Private	Dry	850	1.Manikkam S/o Periyannan 2.Rangasamy S/o Manickam
				172/3A	172/3A2	Private	Dry	337	1.Manikkam S/o Kuppachi 2.M.Gopal Gounder S/o Marimuthugounder 3.Rangasamy S/o Manickam
				172/4A	172/4A2	Private	Dry	50	1.Govindan S/o Siddan 2.Arunachalam S/o Annamalai gounder
				172/4B	172/4B2	Private	Dry	50	Magalingam S/o Dharmalingam
				172/4C	172/4C2	Private	Dry	84	Jothilingam S/o Dharmalingam
				172/4D	172/4D2	Private	Dry	34	Manogaran S/o Naduppan
				172/4E	172/4E2	Private	Dry	36	Gowrammal W/o Pachiamuthu
				172/4G	172/4G2	Private	Dry	87	1.Govindan S/o Siddan 2.Arunachalam S/o Annamalai gounder
				178/2B	178/2B2	Private	Dry	270	Chinnasamy S/o Periyathambi
				178/2C	178/2C2	Private	Dry	360	Madaiyan S/o Periyathambi
				178/2G	178/2G2	Private	Dry	1100	1.Anbalagan S/o Naduppan 2.Manohem S/o Naduppan
				178/2I	178/2I2	Private	Dry	1550	1.Munusamy S/o Munusamy 2.Rajendran S/o Munusamy 3.Periyamma W/o Siva

பகுதி II - கட்ட 3 (ii)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
				178/2J1	178/2J1B	Private	Dry	880	Muniyammal D/o Kaliammal		
				178/2J2	178/2J2B	Private	Dry	621	Dhanabakiyam D/o Kaliammal		
				178/2J3	178/2J3B	Private	Dry	233	Periyannan S/o Kaliammal		
									Periyammal W/o Sivan		
				178/2K	178/2K2	Private	Dry	1658	1.Munusamy S/o Munusamy		
									2.Rajendran S/o Munusamy		
				178/2L	178/2L	Private	Dry	600	Perumal S/o Kandhaa gounder		
				178/2M	178/2M	Private	Dry	300	Perumal S/o Chendrayan		
				180	180/2	Private	Dry	1250	Manikkam S/o Periyannagounder		
				189/8	189/8B	Private	Wet	15	Palanisamy S/o Pappuchetty		
				189/10	189/10B	Private	Wet	450	1.Muthusamy S/o Kandasamy gounder,		
									2.Jayaraman S/o Kandasamy gounder,		
									3.Kandasamy S/o Kuppmuthu @ Ponnusamy		
									4.Kandasamy S/o Ramalingam		
				190/4	190/4B	Private	Dry	37	1.Ponnu @ Kuppmuthu S/o Muthugounder		
									2.Kandasamy S/o Kuppmuthu @ ponnusamy		
				190/5	190/5B	Private	Dry	250	1.Periyannan S/o Chinnapaiyan		
									2.Ponnu @ Kuppmuthu S/o Muthugounder		
									3.Muniyammal W/o Raji		
									4.Chandran S/o Raji,		
									5.Kanagan S/o Raji		
									6.Narayanan S/o Chinnan @ Periyannan		
									7.Murugan S/o Ponnu @ Kuppmuthu		
				190/6A	190/6A	Private	Dry	100	Kangan S/o Raji @ Marimuthu		
				190/6B	190/6B	Private	Dry	100	1.Muniyammal W/o Raji @ Marimuthu		
									2.Chandran S/o Rajai @ Marimuthu		
				199/5	199/5B	Private	Dry	580	1.Rani W/o Baskaran		
									2.Periyannan S/o Periyannan		
				200/1C1	200/1C1B	Private	Dry	56	1.Chinnamadu S/o Harigovindan		
					200/1C1C	Private	Dry	2739	2.Periyamadu S/o Harigovindan		
									3.Nadumadhu S/o Harigovindan		
				200/1C2	200/1C2B	Private	Dry	605	Tamilarasam S/o D.C. Krishnan		
				200/1D	200/1D2	Private	Dry	1247	1.Srinivasan S/o Muniyagounder		
									2.Mani S/o Srinivasan		
									3.Muniappan S/o Srinivasan		
									4.Saroja W/o Srinivasan		
				200/1E2	200/1E2B	Private	Dry	250	1.Chinnamadu S/o Harigovindan		
									2.Periyamadu S/o Harigovindan		
									3.Nadumadhu S/o Harigovindan		
				200/1E3	200/1E3	Private	Dry	150	1.Mani S/o Srinivasan		
									2.Muniappan S/o Srinivasan		
				200/1E4	200/1E4	Private	Dry	400	Mani S/o Srinivasan		
				200/1E7	200/1E7B	Private	Dry	33	1.Sivamurugan S/o Munusamy		
									2.Sampath S/o Munusamy		
				200/1E8	200/1E8	Private	Dry	250	1.Sivamurugan S/o Munusamy		
									2.Sampath S/o Munusamy		
				204/6A	204/6A2	Private	Dry	116	1.Samynathan S/o Munusamy		
									2.Madhu S/o Munusamy		
									3.Rajagopal S/o Munusamy		
				204/6B	204/6B2	Private	Dry	160	1.Madaiyan S/o Beemagounder		
									2.Mayakannan S/o Beemagounder		
				204/7A1	204/7A1	Private	Dry	300	1.Rajagopal S/o Munusamy		
									2.Madhu S/o Munusamy		
									3.Samynathan S/o Munusamy		
				204/7A2	204/7A2	Private	Dry	150	1.Madaiyan S/o Beemagounder		
									2.Mayakannan S/o Beemagounder		
									3.Rajagopal S/o Munusamy		
				205/1	205/1B	Private	Dry	934	1.Sampath @ Shanmugam S/o Munusamy @ Naduppagounder		
									2.Sivamurugan S/o Munusamy @ Naduppagounder		
				205/2	205/2	Government	Battai Road Margin	800	Government		
				206	206	Government	Road Margin	1100	Government		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				207/1	207/1A	Private	Dry	568	1.Sampath @ Shanmugam S/o Munusamy @ Naduppagounder 2.Sivamurugan S/o Munusamy @ Naduppagounder
				396	396/2	Private	Dry	1100	1.Saroja W/o Srinivasan 2.Mani S/o Srinivasan
				397	397	Private	Dry	600	1.Saroja W/o Srinivasan 2.Mani S/o Srinivasan
				398/1	398/1	Govern ment	Road Margin	1200	Government
				398/2A	398/2A2	Private	Dry	750	Ramachandran S/o Rajigounder
				398/2B	398/2B2	Private	Dry	364	Commissioner Panchayat Union, Nallampatti
				398/2C	398/2C2	Private	Dry	1600	1.Mani S/o Rajigounder 2.Theerthamalai S/o Rajigounder 3.Ramachandran S/o Rajigounder 4.Selvan S/o Rajigounder
				417/1	417/1	Govern ment	Battai	950	Lying as path
				417/2	417/2B	Private	Dry	5112	1.Theerthamalai S/o Raji 2.Ramachandran S/o Raji 3.Selvan S/o Raji
				418/1	418/1	Govern ment	Battai	950	Lying as path
				418/2A1	418/2A1B	Private	Dry	260	Munusamy S/o Ramanna gounder
				418/2A2	418/2A2B	Private	Dry	65	Munusamy S/o Ramanna gounder Ramachandran S/o Ramanna gounder
				418/2B	418/2B2	Private	Dry	187	1.Rajagopal S/o Munusamy 2.Madhu S/o Munusamy 3.Saminathan S/o Munusamy
				418/2D4	418/2D4	Private	Dry	100	Vediappan S/o Palanigounder
				418/2D5	418/2D5	Private	Dry	100	B. Abimannan S/o Palanigounder
				418/2E	418/2E2	Private	Dry	430	Venkatesan S/o Rajagopal
				425/1	425/1	Govern ment	Battai	500	Lying as path
				425/2A	425/2A2	Private	Dry	182	1.Chinnasithi @ Kannammal W/o Beemagounder 2.Periyamadhu S/o Beemagounder 3.Mayakannan S/o Beemagounder 4.Kalyani D/o Beemagounder 5.Madhammal D/o Beemagounder 6.Rangammal D/o Beemagounder
				425/2B	425/2B2	Private	Dry	244	Saradhammal W/o Gopal
				426/2	426/2B	Private	Dry	1540	1.Srinivasan S/o Muniyagounder 2.Chinnasithi @ Kannammal W/o Beemagounder 3.Kasiyammal W/o Rajendran 4.Periyamadhu, S/o Beemagounder 5.Mayakannan S/o Beemagounder 6.Kalyani D/o Beemagounder 7.Madhammal D/o Beemagounder 8.Rangammal D/o Beemagound
				429/2	429/2B	Private	Dry	1507	Bootha
				429/3	429/3	Private	Dry	300	Lying as path
				430/2A	430/2A2	Private	Dry	765	Kandammal W/o Kandhan
				433/1	433/1	Govern ment	Battai	300	Government
				433/2A1	433/2A1B	Private	Dry	650	Murugesan S/o Kandagounder
				433/2A2	433/2A2B	Private	Dry	886	1.Kuzhanthaivel S/o Kandagounder 2.Gopal S/o Annamalai
				433/2A4	433/2A4B	Private	Dry	231	Sivakumar S/o Subramaniyan
				434/1	434/1	Govern ment	Battai	300	Lying as path
				435/1	435/3	Govern ment	Battai	1050	Lying as path
				435/2A	435/2A2	Private	Dry	6650	Dhasamipandaram S/o Ramannan
				440/1	440/1	Govern ment	Battai	350	Lying as path
				440/2A2	440/2A2B	Private	Dry	4000	Murugesan S/o Kandagounder
				441/1	441/1	Govern ment	Battai	350	Lying as path
				441/2A	441/2A2	Private	Dry	2800	Dhasamipandaram S/o Ramannan
				444	444/2	Govern ment	Battai	365	Lying as path

பகுதி II - பகுதி 3 (ii)									
1	2	3	4	5		6	7	8	9
				445/1	445/1	Government	Battai	200	Lying as path
				445/2A	445/2A2	Private	Dry	1710	Chinnappappa W/o Siddan
				446/1	446/1	Government	Battai	400	Lying as path
				446/2A1A	446/5	Private	Dry	879	1.Perumal S/o Kozhanthai Gounder @ Perusu 2.Navanathan S/o Kozhanthai Gounder @ Petusu 3.Vajiravel, S/o Vadivel 4.Nanjammal W/o Thangaraju 5.Theivagunam S/o Venkatachalam
				446/2A1B	446/6	Private	Dry	248	Pandurangan S/o Pachagounder
				446/2A2	446/2A2B	Private	Dry	324	1.Pachiyammal W/o Kathiresan 2.Pachiyammal W/o Kathirvel
				446/3	446/3B	Private	Dry	123	Kamalesan S/o Gopal
				446/4	446/4B	Private	Dry	176	Palani S/o Munusamy
				450/1	450/1	Government	Battai	750	Lying as path
				450/2A1	450/2A1B	Private	Dry	835	1.Inbasekaran S/o Chinugounder 2.Paramasivam S/o Pachiammal
				450/2A2	450/2A2B	Private	Dry	880	Abbu S/o Marigounder
				450/2B1	450/2B1B	Private	Dry	486	Vajiravel S/o Vadivelgounder
				450/2B2	450/2B2B	Private	Dry	1214	Duraisamy S/o Senkodagounder
				451	451	Government	Battai	20100	Lying as NH-7 Road
				452	452	Government	Battai	23550	Lying as NH-7 Road
				453	453	Government	Battai	10100	Lying as NH-7 Road
				454/1	454/1	Government	Battai	50	Lying as Path
				454/2	454/2A	Private	Wet	81	1.Kunchi S/o Muniyan 2.Govindammal W/o Harigovindan
				455/1	455/1	Government /	Battai	450	Lying as path
				455/2A	455/2A1	Private	Wet	137	1.Kunchi S/o Muniyan 2.Govindammal W/o Harigovindan
				455/2B	455/2B1	Private	Wet	44	Govindammal W/o Harigovindan
				455/2C	455/2C1	Private	Wet	247	1.Govindammal W/o Harigovindan 2.Periyamadu D/o Harigovindan 3.Chinnamadu D/o Harigovindan 4.Nadumadu D/o Harigovindan 5.Selvi D/o Harigovindan
				456/1	456/1	Government	Battai	250	Government
				467/1B	467/1B1	Private	Wet	401	Krishnan S/o Allimuthu
				468	468/1	Government	Mossabari Bungalow	730	Government
				469/1	469/1	Government	Battai	1250	Government
				469/2A2A	469/3	Private	Dry	143	Vaideswaran S/o Vaiyapuri
				469/2A2B	469/4	Private	Dry	128	1.Palanisamy S/o Kandagounder 2.Mani S/o Mariappan 3.Alagammal W/o Palanisamy 4.Chellamuthu S/o Solaiyappan 5.Madhu S/o Vaiyapuri
				469/2A3A	469/5	Private	Dry	84	1.Sellamuthu S/o Solaiyappan 2.Palanisamy S/o Kandagounder 3.Mani S/o Mariyappan 4.Alagammal W/o Palanisamy
				469/2A3B	469/6	Private	Dry	21	Madhu S/o Vaiyapuri
				469/2A3C	469/7	Private	Dry	34	1.Vaitheeswaran S/o 2.Vaiyapurigounder
				469/2B4	469/2B4A	Private	Dry	138	Ashokan S/o Paramasivam
				469/2B5	469/2B5A	Private	Dry	110	1.Madivannan S/o Thangavel 2.Manikandan S/o Sampath 3.Swarnambikai W/o Venkatachalam
				469/2B6	469/2B6A	Private	Dry	155	Dhanasekaran S/o Thangavel
				486/1	486/1	Government	Battai	400	Government
				486/2A1	486/2A1A	Private	Dry	610	Murusamy S/o Ramannagounder
				486/2B	486/2B1	Private	Dry	477	Ramachandran S/o Ramanna gounder

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				506/1	506/1	Government	Battai	250
								Lying as path
				506/2A	506/2A	Private	Dry	50
				506/2B	506/2B1	Private	Dry	317
				506/2H	506/2H1	Private	Dry	248
				506/2J	506/2J1	Private	Dry	8
				506/2K1	506/2K1A	Private	Dry	87
								1. Jyannan S/o Raman 2. Goundappan S/o Raman
				506/2L	506/2L	Private	Dry	50
								1. Siddan S/o Raman 2. Ramalingam S/o Siddan 3. Ramachandran S/o Siddan
				506/2M	506/2M1	Private	Dry	21
				506/2X	506/2X1	Private	Dry	6
				507/1	507/1	Government	Battai	200
								Lying as path
				507/2B	507/2B1	Private	Dry	22
				507/2C	507/2C1	Private	Dry	22
				507/2D	507/2D1	Private	Dry	20
				508/1	508/3	Government	Battai	434
								Lying as path
				508/2B1	508/2B1	Private	Dry	200
								1. Madhu S/o Kaliappan 2. Arthanari S/o Kaliappan 3. Arumugam S/o Kaliappan 4. Chinnappayan S/o Kaliappan 5. Nataraj S/o Kaliappan
				508/2B2	508/2B2A	Private	Dry	10
				508/2B3	508/2B3A	Private	Dry	39
				508/2B4	508/2B4A	Private	Dry	50
				508/2B5	508/2B5A	Private	Dry	52
				508/2B6	508/2B6A	Private	Dry	58
				508/2B7A	508/4	Private	Dry	125
				508/2B7B	508/5	Private	Dry	115
				512/1	512/1	Government	Battai	400
								Lying as path
				512/3	512/3	Private	Dry	200
								1. Ramajeyam S/o Munusamy 2. Dharuman S/o Munusamy 3. Kulasekaran S/o Chidhampara Gounder
				512/4	512/4A	Private	Dry	86
				512/7A	512/7A1	Private	Dry	82
				512/7B	512/7B1	Private	Dry	64
								Gulasekaran S/o Chithambaragounder
				512/10	512/10A	Private	Dry	94
				512/11	512/11A	Private	Dry	64
				513/1	513/1	Government	Battai	100
								Lying as path
				513/3	513/3A	Private	Dry	38
								1. Arthanari S/o Kaliappan 2. Govindan S/o Munusamy 3. Alagammal S/o Kesavan
				515/1	515/1	Government	Battai	100
								Government
				516/1	516/1	Government	Battai	350
								Government
				516/2B1	516/2B1	Private	Dry	150
				516/2B2	516/2B2A	Private	Dry	38
				520/1	520/1	Government	Battai	300
								Government
				520/3	520/3	Private	Dry	150
								1. Chinnadholan S/o CinnaMuniyan 2. Settu S/o Naduppagounder 3. Chinnappappa W/o Kandasamy
				520/7	520/7	Private	Dry	50
				520/5	520/5A	Private	Dry	223
				520/8	520/8A	Private	Dry	391
								1. Govindan S/o Perumal 2. Govindan S/o Muniyagounder
				521/1	521/1	Government	Battai	100
								Government
				521/2B1	521/2B1	Private	Dry	50
								1. Kolandaiyammal, 2. Murugesan S/o Vadivelgounder 3. Mani S/o Vadivelgounder 4. Vajiravel S/o Vadivelgounder
				521/2B2A	521/3	Private	Dry	229
				521/2B2B	521/4	Private	Dry	229
				521/2B2C	521/5	Private	Dry	226
				566/1	566/1	Government	Battai	650
								Vajiravel S/o Vadivel gounder Government

[भाग II—खण्ड 3(ii)]

भारत का राजपत्र : असाधारण

भाग II—खण्ड 3(ii)													
	2	3	4	5	6	7	8	9					
				566/2A	566/2A1	Private	Dry	292	1.Ramachandran S/o Ramanna gounder, 2.Parvathi W/o Mani				
				567/1	567/1	Government	Bantai	650	Government				
				567/2D	567/2D1	Private	Dry	400	Munusamy S/o Kallapayan				
				567/2E	567/2E	Private	Dry	400	1.Nanjammal W/o Govindan 2.Chinnaraji S/o Konti 3.Munusamy S/o Konti 4.Chinnasamy S/o Konti 5.Selvam S/o Govindan				
				567/2F	567/2F1	Private	Dry	90	Siddammal W/o Muniraj				
				569/1	569/1A	Private	Dry	55	Siddammal W/o Muniraj				
				569/2	569/2A	Private	Dry	266	1.Chinnasamy S/o Kontri 2.Madammal W/o Palani				
				569/3	569/3	Private	Dry	350	1.Nanjammal W/o Govindan, 2.Munusamy S/o Kondri 3.Chinnasamy S/o Kondri 4.Selvam S/o Govindan				
				569/5	569/5A	Private	Dry	304	Madhu S/o Chetty @ Munusamy				
				572/1A	572/1A	Private	Dry	300	1.Madhu S/o Ponnu, 2.Palanayappan S/o Veerappa Chettiyar, 3.Manokar S/o Velayutham, 4.Sudakar S/o Appunni Nayar, 5.Dheivanai, 6.Ponnu				
				572/1B	572/1B1	Private	Dry	340	Madhu S/o Ponnu				
				572/1C1	572/1C1A	Private	Dry	148	1.Palanayappan S/o Veerappachettiyar 2.Sudhagar S/o Appunni Nayar 3.Krishnamoorthi S/o Ramasamylyer				
				572/1C2	572/1C2A	Private	Dry	165	Manoger S/o Vethutham				
				572/1C3	572/1C3A	Private	Dry	189	Sudhagar W/o Appunni Nayar				
				591/1A	591/1A1	Private	Dry	61	1.Singaram S/o Palanigounder 2.Noorjahan W/o Sirajudeen 3.Malleswaran S/o Gopal				
				591/1B	591/1B1	Private	Dry	145	Anbalagan S/o Karuppana gounder				
				591/2A	591/2A1	Private	Dry	767	Angappan S/o Ponnaiyagounder				
				592/2A1	592/2A1A	Private	Dry	101	Ganesan S/o Perumal gounder				
				592/2A2	592/2A2A	Private	Dry	573	Balakrishnan S/o Marappagounder				
				592/2C1B	592/7	Private	Dry	11	1.Annadurai S/o Munusamy 2.Sudandhira vanitha W/o Annadurai				
				592/2C2	592/2C2A	Private	Dry	65	Jadaiyan S/o Ramasamy				
				592/2C3	592/2C3A	Private	Dry	60	Siddan S/o Ramasamy				
				592/3	592/3A	Private	Dry	104	Pachiammal W/o Siddan				
				592/4	592/4A	Private	Dry	16	Ellammal W/o Rejendran				
				593/1	593/1	Government	Grazing Ground	2900	Government				
		(2) Adhiyaman-kottai		23/1A	23/1A2	Private	Dry	900	1.Muniammal W/o Sundaram 2. Sevathan S/o Mari				
				23/1B	23/1B2	Private	Dry	310	Raju S/o Andi				
				23/1G	23/1G2	Private	Dry	210	Mathiyalazhan S/o Chiona Nagappan				
				23/2A	23/2A	Private	Dry	50	Radha Ruckmani W/o Ganapathi				
				23/2B	23/2B2	Private	Dry	2280	Perumal S/o PeriyaNagappan				
				24/4	24/4B	Private	Dry	290	Govindasamy S/o Munian				
				24/5	24/5B	Private	Dry	2180	1.Krishnan S/o Munian 2.Kandasamy S/o Sivalingam				
				24/6	24/6B	Private	Dry	220	1.Mariappan S/o Munian 2.Thagaraj S/o Munian 3.Govindasamy S/o Munian 4.Krishnan S/o Munian 5.Chinnasamy S/o Munian 6.Munusamy S/o Munian 7.Pachagounder S/o Munian 8.Chinnammal W/o Jadayan 9.Veerappan S/o Munian				
				24/7	24/7B	Private	Dry	3055	Chinnammal W/o Jadayan				
				24/8	24/8B	Private	Dry	1500	Govindasamy S/o Munian				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				24/9	24/9B	Private	Dry	1220	1. Madaiyan S/o Harichandran 2. Santhi W/o Madhiyalagan 3. Gandhimathi W/o Ravi 4. Govindasamy S/o Kuppusamy 5. Senthilkumar S/o Munirathinam 6. Mamallan S/o Jaganathan 7. G. Sathi S/o Govindarajan 8. B. Selvam S/o Parasuraman 9. G. Saranya D/o Govindarajan 10. R. Sobhana W/o Venkatachalam 11. Muniyammal W/o Periyannan
				24/15	24/15B	Private	Dry	1400	1. Harichandran S/o Munian 2. Palaniammal W/o Vadivel 3. Prakasam S/o Mariappan 4. Sivaprakasam S/o Murugan 5. Muniraj S/o Ramasamychetti 6. Sekar S/o Chidambaram 7. Gomathi D/o Ramadass 8. Gopinath S/o Ramadass 9. Ranganathan S/o Mari 10. Salammal D/o Madhappan 11. Saravanan S/o Gopal
				25/5	25/5A	Private	Dry	20	1. Senkasi @ Mottaiyan S/o kaliappan 2. Govindammal W/o Krishnan 3. Kothavari W/o Chinnavan 4. Pachiammal w/o Govindan 5. Lakshmi W/o Periyasami 6. Periyasami S/o Muniagounder
				25/6	25/6A	Private	Dry	140	Kaliammal W/o Mathalakkar @ Govindan
				25/7	25/7A	Private	Dry	440	Mottaiyan @ Kondri S/o Kullan @ Kondri
				25/8	25/8A	Private	Dry	750	Radha Ruckmani W/o Ganapathi
				25/9	25/9	Private	Dry	450	Perumal S/o Periyannagappan
				25/10	25/10A	Private	Dry	1030	1. Narayanan S/o Periyannagappan 2. Lakshmi W/o Elangovan
				26/1	26/1B	Private	Dry	1500	Perumal S/o Periyannagappan
				26/2	26/2A	Private	Dry	1100	1. Narayanan S/o Periyannagappan 2. Lakshmi W/o Elangovan
				26/3	26/3A	Private	Dry	450	1. Kangaraj S/o (Late) Munusamy 2. Shanthi W/o Kanagaraj
				26/5	26/5B	Private	Dry	900	1. Vellakkaran S/o Munusamy Gounder 2. Kanagaraj S/o Munusamy 3. Shanthi W/o Kanagaraj 4. Kavitha D/o Kangaraj 5. Kayathri D/o Kangaraj 6. Kasthuri D/o Kangaraj
				26/6	26/6B	Private	Dry	2220	1. Kangaraj S/o (Late) Munusamy 2. Shanthi W/o Kanagaraj
				49/1D	49/1D2	Private	Dry	650	Munusami S/o Kullan @ Kondri Gounder
				49/2A	49/2A	Private	Dry	261	Mottaiyan S/o Chinnavan @ Kaliappan
				49/2B	49/2B	Private	Dry	1600	Mottaiyan S/o Chinnavan @ Kaliappan
				49/3A	49/3A1	Private	Dry	300	Mandhi @ Mari S/o Perumal
				49/3B	49/3B1	Private	Dry	500	Chinnasami S/o Munian
				50/1C	50/1C2	Private	Dry	120	1. Mariappan S/o Kooligounder 2. Munusamy s/o Kullan @ Kondri gounder
				50/2	50/2B	Private	Dry	1535	Chinnavan @ Kaliappan S/o Mottaiyan
				50/3A	50/3A1	Private	Dry	1670	Mariappan S/o Munian
				51/1	51/1A	Private	Dry	1000	1. Periyammal W/o Konap Udayar 2. Periyammal W/o Konapattiyan
				51/2	51/2A	Private	Dry	1940	1. Periyasamy S/o Muthugounder 2. Chinnasamy S/o Muthugounder
				51/3	51/3A	Private	Dry	405	1. Periyasamy S/o Muthugounder 2. Chinnasamy S/o Muthugounder
				52/1A	52/1A2	Private	Dry	400	1. Mariappan S/o Jadayan @ Anigounder 2. Sampath S/o Jadayan @ Anigounder

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				52/2	52/2B	Private	Dry	3400	1 Periyammal W/o Konappa gounder 2.Jadayan @ Andigounder 3.Parimaladevi W/o Mariappan
				52/4	52/4B	Private	Dry	700	Kolandai S/o Perumal
				52/5	52/5B	Private	Dry	480	Ponnusamy S/o Perumal
				52/7	52/7	Private	Dry	150	1.Kolandai S/o Perumal 2.Ponnusamy S/o Perumal 3.Raju S/o Perumal 4.Periyasamy S/o Muthugounder 5.Chinnasamy gounder S/o Muthugounder
				87/A1A	87/A1A2	Private	Dry	6	1.Jamberi S/o Devaraj 2.Muniammal W/o Mariappan
				89/1	89/1A	Private	Dry	1250	1.Chinnakaliappan S/o Perumal 2.Nagaraj S/o Perumal 3.Kaliappan S/o Kittan @ Mariappan 4.Kaveriammal W/o Perumal
				89/2	89/2A	Private	Dry	1240	1.Penyakaliappan S/o Perumal 2.Kuppan S/o Perumal 3.Nagaraj S/o Perumal 4.Kaveriammal W/o Perumal 5.Perumal S/o Chinnappu @ Lakshmanagounder
				90/4	90/1A	Private	Dry	367	1.Ganapathi S/o Periyannan 2.Vijaya W/o Manickam
				93	93/1	Private	Dry	1750	Shanmugam (Dharmakartha Temple land)
				113/1	113/1B	Private	Dry	3600	1.Venkatesan S/o Molayagounder 2.Kaliammal W/o Krishnan
				113/2B	113/2B1	Private	Dry	420	1.Krishnan S/o Kuttigounder 2.Kaliammal W/o Krishnan
				113/2C	113/2C2	Private	Dry	1170	1.Mariappan S/o Kuttigounder 2.Kaliammal W/o Krishnan
				113/2F2	113/2F2A	Private	Dry	4	1.Vaiyapuri S/o Kuttigounder 2.Krishnan S/o Kuttigounder 3.Mariappan S/o Kuttigounder 4.Kaliammal W/o Krishnan
				113/2F3	113/2F3A	Private	Dry	55	Vaiyapuri S/o Kuttigounder
				113/2F6	113/2F6B	Private	Dry	1025	1 Kuttigounder S/o Govindagounder 2.Mahalingam S/o Perumal 3 Kaliammal W/o Krishnan
				114/1	114/1B	Private	Dry	1570	1.Muniammal W/o Mariappan 2.Jamberi S/o Devaraj
				114/2	114/2	Private	Dry	210	1.Pappathi W/o Devaraj 2.Jambei S/o Devaraj 3.Muniammal W/o Mariappan
				115	115/2	Private	Dry	600	1.Jambei S/o Devaraj 2.Muniammal W/o Mariappan
				147/1	147/1B	Private	Dry	370	1.Muniammal W/o Govindasamy 2.Parasakthi S/o Govindasamy 3.Pushbavalli D/o Govindasamy 4.Vanitha D/o Govindasamy 5.Amsaveni D/o Govindasamy 6.Komathi D/o Govindasamy 7.Kaliammal W/o Narasagounder 8.Ambalavanan D/o Narasagounder 9.Pathrakali D/o Narasagounder 10.Devagi D/o Narasagounder 11.Palaniammal D/o Narasagounder 12.Saradha D/o Narasagounder 13.Tamilarasi D/o Narasagounder 14.Sulochana D/o Narasagounder 15.Kaliammal D/o Narasagounder 16.Devaraj S/o Narasagounder
				147/2	147/2B	Private	Dry	13	Krishnan S/o Pachagounder
				148/1	148/1B	Private	Dry	4520	Ranganathan S/o Venkatesa gounder
				148/2	148/2B	Private	Dry	2850	1.Krishnan S/o Kalhappagounder 2.Mani S/o Balasubramaniam
				148/3	148/3B	Private	Dry	505	Manickam S/o Govindagounder
				149/2B	149/2B1	Private	Dry	730	1.Krishnan S/o Venkatesagounder 2.Kaliammal W/o Krishnan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				188/1	188/1A	Private	Dry	1030	1. Annamalai S/o Subramanian 2. Vaikundan S/o Marigounder
				188/2	188/2A	Private	Dry	2340	1. Vaikundan S/o Marigounder 2. Kaliappan S/o Vaikundan 3. Durai S/o Vaikundan
				189/1	189/1A	Private	Dry	947	1. Krishnan S/o Kaliappagounder 2. Mani S/o Balasubramani
				189/2B	189/2B1	Private	Dry	1560	1. Krishnan S/o Kaliappagounder 2. Mani D/o Balasubramani
				189/2C	189/2C2	Private	Dry	4073	Chithra W/o Shanmugam
				190/1	190/1B	Private	Dry	1285	Vetrayan S/o Rangan
				191/1A	191/1A2	Private	Dry	43	1. Krishnan S/o Kaliappagounder 2. Mani S/o Balasubramani 3. Manoharan S/o Kaliappan
				191/1B	191/1B2	Private	Dry	1778	Manoharan S/o Kaliappan
				191/2C	191/2C2	Private	Dry	1300	Manoharan S/o Kaliappan
				344/19	344/19B	Private	Dry	1250	1. Mariappan S/o M.A. Munian 2. Manickam S/o Mariappan 3. Kaliappan S/o Gurunathan 4. Vajjiram S/o Chinnakongiri @ Mariappan
				344/20	344/20	Private	Dry	300	Munian S/o Mari Munian
				344/21	344/21	Private	Dry	350	1. Munian S/o Mayamunian 2. Mariappan S/o Mayamunian 3. Perumal S/o Mayamunian 4. Saman S/o Mayamunian 5. Kaliappan S/o Mayamunian 6. Raja S/o Mayamunian
				344/22	344/22B	Private	Dry	408	1. Mariappan S/o M.A. Munian 2. Manickam S/o Mariappan
				344/23	344/23B	Private	Dry	240	Raja S/o Kaliappan
				348/1	348/1B	Private	Dry	220	Dhanasekaran S/o Rajan
				348/2	348/2B	Private	Dry	260	Lakshmanan S/o Rangan
				348/3A	348/3A	Private	Dry	155	Lakshmanan S/o Rangan
				348/3B	348/3B	Private	Dry	56	Govindan S/o Rangan
				348/4	348/4A	Private	Dry	1100	1. Govindan S/o Vetrayan 2. Gopal S/o Kannu @ Vetrayan 3. Murugan S/o Kannu @ Vetrayan
				348/6A	348/6A	Private	Dry	75	Lakshmanan S/o Rangan
				348/6B	348/6B	Private	Dry	29	Govindan S/o Rangan
				348/6C	348/6C1	Private	Dry	440	Govindan S/o Rangan
				348/7	348/7	Private	Dry	350	1. Gopal S/o Kannu @ Vetrayan 2. Murugan S/o Kannu @ Vetrayan
				348/8A	348/8A2	Private	Dry	150	Krishnan S/o Vetrayan
				348/9	348/9B	Private	Dry	670	Krishnan S/o Govindan @ Vetrayan
				348/10	348/10	Private	Dry	300	Marimuthu S/o Kannu @ Vetrayan
				348/11	348/11A	Private	Dry	530	1. Muthuvaidiammal W/o Kannu @ Vetrayan 2. Marimuthu S/o Kannu @ Vetrayan
				348/12	348/12A	Private	Dry	500	1. Marimuthu S/o Kannu @ Vetrayan 2. Govindasami S/o Marimuthu
				349/1	349/1B	Private	Dry	95	1. Rangan S/o Vetrayan 2. Palaniammal W/o Raja
				349/2	349/2B	Private	Dry	200	Dhanasekaran S/o Rajan
				349/3	349/3	Private	Dry	600	Govindan S/o Rangan
				349/4	349/4A	Private	Dry	1638	Lakshmanan S/o Rangan
				349/5	349/5	Private	Dry	400	1. Lakshmanan (Minor Guardian Mother Muthuvaidi) 2. Rangan S/o Vetrayan 3. Govindan S/o Rangan
				349/6	349/6	Private	Dry	1200	1. Lakshmanan S/o Rangan 2. Govindan S/o Rangan
				349/8	349/8A	Private	Dry	150	1. Krishnan S/o Vetrayan 2. Murugan S/o Kannu @ Vetrayan 3. Gopal S/o Kannu @ Vetrayan
				349/10	349/10A	Private	Dry	400	Krishnan S/o Vetrayan
				349/11	349/11A	Private	Dry	400	Krishnan S/o Govindan @ Vetrayan
				349/12	349/12A	Private	Dry	600	1. Gopal S/o Kannu @ Vetrayan 2. Murugan S/o Kannu @ Vetrayan
				350/1	350/1A	Private	Dry	250	1. Vetrayan S/o Vetrayan 2. Mariammal W/o Munusami

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				350/2	350/2A	Private	Dry	428	Govindan S/o Vetrayan
				350/11	350/11A	Private	Dry	575	1.Vetrayan S/o Vetrayan 2.Mariammal W/o Munusami
				350/14	350/14A	Private	Dry	600	Govindan S/o Vetrayan
				350/15	350/15	Private	Dry	400	Govindan S/o Rangan
				350/16	350/16A	Private	Dry	40	1.Murugan S/o Kannu @ Mariappan 2. Gopal S/o Kannu @ Mariappan
				354/1	354/1B	Private	Dry	420	1.Buvanesvari W/o Venkatachalam 2.Paranjothi W/o Gopal
				402/3	402/3B	Private	Dry	124	Ariyakounder S/o Gopal
				402/4	402/4	Private	Dry	1800	Poonjolai S/o Pallapattiyar @ Periannan
				402/5	402/5A	Private	Dry	753	Sooramma W/o Sankar
				402/7	402/7B	Private	Dry	87	Kannan S/o Perumal
				403/4	403/4B	Private	Dry	100	Kolandaival S/o Gopal
				403/5	403/5B	Private	Dry	6	Krishnan S/o Gopal
				403/7	403/7	Private	Dry	300	Poonjolai S/o Pallapattiyar @ Periannan
				403/8	403/8A	Private	Dry	2020	Periannan S/o Nathapattiyar @ Pacchakounder
				403/9	403/9A	Private	Dry	68	Sooramma W/o Sankar
				404/6	404/6B	Private	Dry	125	Sooramma W/o Sankar
				404/7	404/7B	Private	Dry	1980	Periannan S/o Periyasami
				404/8	404/8A	Private	Dry	1550	Lenin S/o Kandan
				406/3	406/3	Private	Dry	590	Madhaiyan S/o Mari
				406/4	406/4	Private	Dry	700	Govindasami S/o Madhaiyan
				408/2	408/2	Private	Dry	700	Adhiyaman S/o Periannan
				409/1	409/1B	Private	Dry	1165	Madhaiyan S/o Koomari
				409/2	409/2B	Private	Dry	1150	Raja S/o Azhagan @ Periannan
				410/1	410/1B	Private	Dry	344	Rajamanickam S/o Periannan
				410/2	410/2	Private	Dry	1950	Raja S/o Azhagan @ Periannan
				410/3	410/3	Private	Dry	900	1.Madhaiyan S/o Karikutti 2.Madhaiyan S/o Mari
				410/4	410/4	Private	Dry	109	Rani W/o Madhaiyan
				411/2	411/2B	Private	Dry	970	Padma W/o Govindasami
				411/3	411/3A	Private	Dry	360	1.Puddalu @ Periannan S/o Dhindalan 2.Perumal S/o Periannan
				411/4	411/4A	Private	Dry	388	Dhanasekaran S/o Perumal
				412/1	412/1B	Private	Dry	2952	Neru @ Ramamoorthi S/o Beeman @ Podaran
				428/2	428/2B	Private	Dry	250	Kolandaivel S/o Mariappan
				518	518/1	Govern- ment	Path	1544	Government
				519/2	519/2A	Private	Dry	2650	1.Nadunanjani S/o Chinnananjan 2.Ramakal W/o Nadunanjani
				520	520/2	Private	Dry	3100	1..Mariappan S/o Munian 2.Krishnamoorthi S/o Muniappan
				521/1	521/1B	Private	Dry	2000	1.Mariappan S/o Munian 2.Manickam S/o Muniappan 3.Vajiram S/o Muniappan
				521/4	521/4B	Private	Dry	200	Kali S/o Chinnakkannan
				521/6	521/6	Private	Dry	1820	Neru @ Ramamoorthi S/o Beeman @ Podaran
				867/1E1Y	867/20	Private	Dry	7200	1.K.Athmanathan 2.Narjan 3.Rajgopal 4.Gopal 5.Guru @ Kaliappan 6.Thangavel 7.Kaliappan 8.Kaveriappan 9. Kundiammal W/o Vadiappan 10.Amaravathi 11.Rathinammal 12.Pushpa 13.Salammal 14.Madhammal W/o Kandiasami 15. Salammal W/o Chinnasami 16. Salammal W/o Mariappan 17.Santhamani W/o Ramasami 18.Saravanan s/o Perumal 19.K.Geethalakshmi w/o Gopalakrishnan 20.Jayaraj S/o Muthukumar

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								21. Vimalarani W/o Athmanathan 22. Palani S/o Chinnasami 23. Perianan S/o Madhu 24. Selvam S/o Gopal 25. Periakka W/o Munusami 26. Pandurangan W/o Venkatraman
				867/1E2	867/1E2B	Private	Dry	5391 K. Geethalakshmi w/o Gopalakrishnan
				867/2	867/2B	Private	Dry	10400 1. K. Athmanathan 2. Gomathi 3. Govindan 4. Kaligounder 5. Mecheri S/o Lakshmanan 6. Kaliappan 7. Narayanan S/o Abimannan 8. Parasuraman 9. Bathragali W/o Palani (Bathragali @ Pandakasi 10. Shanmugam S/o Muthukumaran 11. D.S. Varadhammal W/o D.N. Chennappa Iyer 12. Kaliappan S/o Ellappagounder 13. M. Jaganathan S/o Muthukumar 14. Mecheri S/o Goundappan @ Lakshmanagounder 15. Karnacki 16. Munusami 17. Manickam 18. Ponnusami 19. Shanmugam 20. Amaravathi 21. Lakshmi 22. S/vasanthi 23. Palani S/o Chinnasami 24. Vimalarani W/o Athmanathan
				867/7C	867/7C2	Private	Dry	1000 Chinnakkannu W/o Vayyaburi
				867/7D	867/7D2	Private	Dry	1100 1. Padavattal W/o Raji 2. Ganesan S/o Kolandaivel
				867/15A	867/15A2	Private	Dry	4000 Rajammal W/o Lakshmanagounder
				867/15E	867/15E2	Private	Dry	5710 1. Kuppammal W/o Kolandaivel 2. Lakshmisanth Sundarada S/o Sundaradas
				1064/1	1064/1B	Private	Dry	1900 1. Munusami S/o Chinnasami 2. Manickam S/o Chinnasami 3. Shanmugam S/o Chinnasami 4. Rajeswari 5. Devendiran S/o Kaligounder
				1065/3	1065/3B	Private	Dry	2000 1. A.K. Kamalesan 2. Govindan 3. Palaniammal W/o Kaligounder 4. Devendiran S/o Kaligounder (Minor Guardian Mother Palaniammal) 5. Chinnasami 6. Palaniammal W/o Shanmugam 7. Kannu @ Munusami S/o Chinnasami
		(3) Nallam- palli		14/1	14/1B	Private	Dry	15 1. Shanthi S/o Kanagaraj 2. Ganesan S/o Munusamy 3. Kanagaraj S/o Munusamy
				14/2	14/2B	Private	Dry	2798 1. Kanagaraj S/o Munusamy 2. Shanthi W/o Kanagaraj
				14/3	14/3B	Private	Dry	1700 1. Jayalakshmi W/o Krishnamoorthi 2. Kaviha D/o Krishnamoorthi 3. Kuppuraj S/o Krishnamoorthi
				19	19/2 19/3	Private	Dry	20 84 1. Dimmarayasamy 2. Vetrayasamy 3. N.M. Venugopal (Present Dharmakartha.)
				20	20/2	Private	Dry	8882 1. Dimmarayasamy 2. Vetrayasamy 3. N.M. Venugopal (Present Dharmakartha
				21/1	21/1A	Private	Dry	4200 1. Madesh S/o Kannu 2. Madhan S/o Kandasamy 3. Mohan S/o Kandasamy
				23/1A	23/1A1	Private	Dry	1010 Rudhubalan S/o Doddannan
				23/1B	23/1B1	Private	Dry	1316 1. Lackan S/o Nanjappan 2. Kejaraj S/o Lackan

भारत का राजपत्र : असाधारण

[भाग II—खण्ड 3(ii)]

भाग II—खण्ड 3(ii)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				27/1	27/1A	Private	Dry	810	1.Ponnan @Muniraj S/o Perumal 2.Durai @ Durairaj S/o Perumalchetti
				27/2	27/2A	Private	Dry	1500	1.Ponnan @Muniraj S/o Perumal 2.Durai @ Durairaj S/o Perumalchetti
				28	28/1	Private	Dry	74	1.Chinnaakkumari S/o Pothaiyan 2.Anbazhagan S/o Chinnaakkumari
				36/3A	36/3A2	Private	Dry	4	Senthil selvan S/o Perumal
				36/3C	36/3C1	Private	Dry	285	Perumal S/o Ramagounder
				37/2	37/6	Government	Path	2000	Government
				37/5B	37/5B2	Private	Dry	820	1.Saroja W/o Nataraj 2.Chinnasamy S/o Thathagounder 3.Rangasamy S/o Thathagounder 4.Palanigounder S/o Ramagounder 5.Alamelu W/o Mani 6.Parvathi W/o Govindasamy 7.Palanisamy S/o Pachaiappan 8.Kalmari S/o Goundappan 9.Anandhan S/o Krishnan
				44/1B2	44/1B2B	Private	Dry	800	1.S.M.Perumal S/o Nadumarigounder 2.Mariammal D/o S.M.Perumal 3.Mariappan S/o S.M.Perumal 4.Marimuthu S/o S.M.Perumal 5.Sakthivel S/o S.M.Perumal
				44/2	44/2	Private	Dry	300	1.S.M.Perumal S/o Nadumarigounder 2.Mariammal D/o S.M.Perumal 3.Mariappan S/o S.M.Perumal 4.Marimuthu S/o S.M.Perumal 5.Sakthivel S/o S.M.Perumal
				45/1A	45/1A2	Private	Dry	2400	Sagadevan S/o Sungaram@ Kaniappan
				45/2	45/2A	Private	Dry	322	Subramanian S/o Munian
				50/3	50/3B	Private	Dry	1900	1.Shiddan S/o Thangaraj 2.Raja S/o Thangaraj
				50/4	50/4A	Private	Dry	1650	Revarant S.Dinakaran S/o Salamon,, Secretary, Indian church Bangalore I.C.
				51/1B	51/1B2	Private	Dry	1664	Subramani S/o Muniagounder
				51/2C	51/2C2	Private	Dry	1595	Valliammal W/o Kolandai
				55/2	55/2A	Private	Dry	400	1.Kannu 2.Perumal S/o Nedumarigounder
				227/1	227/1B	Private	Dry	448	1.Jayalakshmi W/o krishnamoorthi 2.Kavitha D/o Krishnamoorthi 3.Kuppuraj S/o Krishnamoorthi
				227/2	227/2B	Private	Dry	1850	Subramani S/o Kasthuri
				228/3	228/3B	Private	Dry	780	Murugesan S/o Perumal
				228/4	228/4B	Private	Dry	350	Shanthi W/o Kanagaraj
				250/1	250/1B	Private	Dry	1660	1.Chinnakannu S/o Periyasamy 2.Vediammal W/o Kandasamy 3.Vasantha W/o Saminathan
				250/2	250/2A	Private	Dry	500	1.Janaki W/o Raja 2.Raman S/o Kathiripurathan @ Perumal 3.Murthi S/o Govindan 4.Chinnaraji W/o Ganesan 5.Nandan W/o Ayyandurai 6.Chinnaperumal S/o Chinnasamy
				250/3	250/3B	Private	Dry	1090	1.Chinnasamy W/o Nadumari 2.Sekar S/o Chinnasamy
				250/4	250/4 B	Private	Dry	300	Shanmugam S/o Mariappan
				250/5	250/5A	Private	Dry	1570	Chinnakannu W/o Munian
				250/6	250/6B	Private	Dry	3093	1.Peramagounder S/o Chinnamari 2.Ayyakannu S/o Chinnamari 3.Kamelesan S/o Chinnamari 4.Rajamani S/o Chinnamari 5.Janagi W/o Raji 6.Shanmugam S/o Mariappan 7.Rajamani S/o Chinnamari 8.Vediammal W/o Kandasamy 9.Kunthiammal W/o Chinnamari 10. Perumal S/o Chinnamari

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				251/1A1	251/1A1B	Private	Dry	34	Chinnakannu S/o Periyasamy
				251/1A3A	251/1A3A	Private	Dry	3380	1.Chinnasamy S/o Nadumari 2.Chinnaperumal S/o Chinnasamy 3.Sekar S/o Chinnasamy
				251/1A3B	251/6	Private	Dry	765	1.Pothuraj S/o Kannu @ Perumal 2.Shanmugam S/o Kannu @ Perumal
				251/2A	251/2A2	Private	Dry	1128	1.Chinnasamy S/o Nadumari 2.Chinnaperumal S/o Chinnasamy 3.Sekar S/o Chinnasamy
				252/1A	252/1A2	Private	Dry	16	1.Perumal S/o Nadumari 2.Mariappan S/o Perumal
				252/2	252/2 A	Private	Dry	150	1.Mariappan S/o Perumal 2.Kandasami 3.Nadumari 4.Perumal 5.Kullu @ Mari
				252/3A1	252/3A1A	Private	Dry	1650	Perumal S/o Nadumarigounder
				252/3A2	252/3A2B	Private	Dry	2632	Perumal S/o Nadumarigounder
				252/3A3	252/3A3B	Private	Dry	2175	1.Perumal S/o Nadumarigounder 2.Mariappan S/o Perumal
				252/3A4	252/3A4B	Private	Dry	1245	1.Chinnasamy S/o Nadumarigounder 2.Chinnaperumal S/o Chinnasamy 3.Sekar S/o Chinnasamy
				254/2B	254/2B 2	Private	Dry	355	1.Chinnakannu D/o Periyasamy 2.Vediammal 3.Kandasamy 4.Janaki W/o Raji 5.Perumal S/o Nadumari 6.Chinnasamy S/o Nadumari 7.Shanmugam S/o Mariappan 8.Kunthiammal W/o Chinnamari 9.Ayyakkannu S/o Chinnamari 10.Kannu 11.Chinnakannuammal 12.Chinnaperumal S/o Chinnasamy 13.Sekar S/o Chinnasamy
				255/1A	255/1A2	Private	Dry	1750	Pachiappan S/o Pachiappan
				255/1B	255/1B2	Private	Dry	1000	1.Pachiammal W/o Devarj 2.Sivakumar 3.Velayutham 4.Raja S/o Pachiappan
				255/1C	255/1C2	Private	Dry	1000	1.Raja S/o Pachiappan 2.Pachiammal W/o Devarj 3.Sivakumar 4.Velayutham
				255/1D	255/1D2	Private	Dry	1200	Pachiappan S/o Pachiappan
				256/2	256/3	Government	Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Road section)	172	Government
				257/2	257/2	Government	Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Road section)	150	Government
				258/2A	258/2A2	Private	Dry	1300	1.Allimuthu S/o Nallagounder 2.Govindammal W/o Allimuthu
				258/2B	258/2B	Government	Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Road section)	150	Government

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				259/1A2A	259/3	Private	Dry	665	1.Shiddan S/o Vetrayan 2.Arangan S/o Krishnadass 3.Mani W/o Muthukumaran 4.Chinnasamy S/o Chinnamuniappen 5.Kalmari S/o Muthukumaran 6.Malar W/o Deivan
				259/1A2B	259/1A2B	Private	Dry	450	Mani S/o Muthukumaran
				259/1B	259/1B	Government	Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Road section)	150	Government
				260/1D	260/1D2	Private	Dry	1060	1.Perumal S/o KarianPerumal @ Thathan 2.Krishnaraj S/o Jappanchetti 3.Lakshmi W/o Rajagopal 4.Vijayalakshmi W/o Sagadevan 5.Manickam S/o Perumal
				260/1E	260/1E2	Private	Dry	628	1.Thikkalan @ Mariappan S/o Kuriattukaran @ Mariappan 2.Sivalingam S/o Perumalgounder 3.Lakshmi W/o Eswaran 4.Raji W/o Perumal 5.Marimuthu S/o Perumal 6.Eswaran S/o Ariyagounder 7.Samundeswari W/o Vadivel
				260/1F	260/1F	Private	Dry	100	1.Perumal S/o Kariyanperumal @ Thathan 2.Thikkalan @ Mariappan S/o Kuriattukaran @ Mariappan
				260/2	260/2	Government	Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Road section)	150	Government
				261/3A1A	261/5	Private	Dry	850	1.Thikkalan @ Mariappan S/o Kuriattukaran @ Mariappan 2.Sivalingam S/o Perumalgounder 3.Lakshmi W/o Eswaran 4.Raji W/o Perumal 5.Marimuthu S/o Perumal 6.Eswaran S/o Ariyagounder 7.Samundeswari W/o Vadivel
				261/3A1B	261/6	Private	Dry	460	Marimuthu S/o Thikkalan @ Mariappan
				261/3A1C	261/7	Private	Dry	14	Thikkalan @ Mariappan S/o Kuriattukaran S/o Mariappan Sivalingam S/o Perumalgounder Lakshmi W/o Eswaran Raji W/o Perumal Marimuthu S/o Perumal Eswaran S/o Ariyagounder Samundeswari W/o Vadivel Selvam S/o Thikkalan @ Mariappan
				261/3A1D	261/3A1D	Private	Dry	100	Thikkalan @ Mariappan S/o Kuriattukaran S/o Mariappan Sivalingam S/o Perumalgounder Lakshmi W/o Eswaran Raji W/o Perumal Marimuthu S/o Perumal Eswaran S/o Ariyagounder Samundeswari W/o Vadivel
				261/3A2	261/3A2	Private	Dry	100	Murugesan S/o Shiddan
				262	262/2	Government	Oni	690	Government
				263/1H1	263/1H1B	Private	Dry	646	1.Nagaraji S/o Sidhagounder 2.Mani S/o Chinthamani

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				263/11	263/112	Private	Dry	253	1.Minor Subramani S/o Ramajayam Chettiyar (Guardian Mother Suseela) 2.Maheswari W/o Sivalingam 3.Thangadurai S/o Nagan
				263/11	263/112	Private	Dry	245	Chinnathambi S/o Sidhagounder
				263/2	263/2	Government	Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Road section)	100	Government
				264/1A	264/1A2	Private	Dry	523	1.Subramaniam S/on. Ramajayachettiyar 2.Ramasamy S/o Pachiappan 3.Chinnakutti@ Munusamy S/o Munusamy 4.Devarajan S/o Mani 5.Shanmugam S/o Kandasamy 6.Murali S/o Ramaasamy 7.Pradeepkumar S/o Chidambaram 8.Pachiammal D/o Ramasamy
				264/1B	264/1B2	Private	Dry	886	Radeeshkumar S/o Chidambaram
				264/1C	264/1C2	Private	Dry	790	1.Subramaniam S/o Ramajayachettiyar 2.Ramasamy S/o Pachiappan 3.Chinnakutti@ Munusamy S/o Munusamy 4.Devarajan S/o Mani 5.Shanmugam S/o Kandasamy 6.Murali S/o Ramasamy 7.Pradeepkumar S/o Chidambaram 8.Pachiammal D/o Ramasamy
				264/2	264/2	Government	Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Road section)	600	Government
				265/1A	265/1A2	Private	Dry	600	1.Minor Subramani S/o Ramajayam Chettiyar (Guardian Mother Suseela) 2.Maheswari W/o Sivalingam 3.Madaiyan
				265/1B	265/1B2	Private	Dry	1130	1.Madaiyan S/o Theerthagiri 2.Sivalingam S/o Theerthagiri
				265/2	265/2	Government	Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Road section)	500	Government
				266/1A	266/1A2	Private	Dry	924	1.Subramani S/o Ramajayamchett 2.Allimuthu S/o Nallagounder 3.Ganapathi 4.Subramani
				266/1C	266/1C2	Private	Dry	517	1.Natarajan S/o Goundappan 2.Vadivel
				266/1D	266/1D2	Private	Dry	490	Murugesan S/o Sidhan
				266/2	266/2	Government	Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Road section)	250	Government
				267	267/2	Government	Battai	18950	Government
				285/1A	285/1A	Government	Ministry of Shipping, Road	250	Government

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Transport and Highways (Road section)		
				287/1	287/1	Government	Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Road section)	200 Government
				288/1A	288/1A	Government	Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Road section)	200 Government
				288/1B1	288/1B1A	Private	Dry	4 1.Ellammal W/o Pachiappan 2.Subramani S/o Pachiappan
				288/1B2	288/1B2A	Private	Dry	35 Mariappan S/o Sevathagounder
				288/2B1	288/2B1A	Private	Dry	275 1.Kulandai @ Vairagounder S/o 2.Panchagounder 3.Madhammal W/o S.K.Palani
				294/1A	294/1A1	Private	Dry	205 Muthiyalammal W/o Kichinaidu
				294/1B1	294/1B1A	Private	Dry	53 Andi @ Chinnathambi S/o Chinnathambi
				294/1B2	294/1B2A	Private	Dry	158 1.Andi @ perumal S/o Komban @ Chinnathambi 2.Venugopal S/o Perumalagounder 3.Subramani S/o Andi 4.Kamaraj S/o Andi 5.Mani S/o Andi
				294/2A	294/2A1	Private	Dry	230 6.Venugopal S/o perumal
				294/2B1	294/2B1A	Private	Dry	250 Krishnan S/o Perumal
				295/1A	295/1A	Government	Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Road section)	300 Government
				295/1B1	295/1B1A	Private	Dry	215 Members Kalaimagalsaba
				295/1B2A	295/1B2A	Private	Dry	140 Kaliappan S/o S.C.Gopal
				295/1B2B	295/1B2B	Private	Dry	68 1.Gopal S/o Chinnasami Members Kalaimagalsaba 2.Kaliappan S/o S.C.Gopal
				295/2B1	295/2B1A	Private	Dry	247 1.Chinnammal W/o Arumugagounder 2.Rajamani D/o Arumugagounder 3.Indhirani D/o Arumugagounder 4.Rathinammal D/o Arumugagounder 5.Mailammal D/o Arumugagounder
				295/2B2	295/2B2A	Private	Dry	113 Members Kalaimagalsaba
				300/1	300/1	Government	Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Road section)	450 Government
				300/2A	300/2A1	Private	Dry	129 1.Chinnammal W/o Arumugagounder 2.Rajamani D/o Arumugagounder 3.Indhirani D/o Arumugagounder 4.Rathinammal D/o Arumugagounder 5.Mailammal D/o Arumugagounder 6.Members Kalaimagalsaba

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				300/2B	300/2B 1	Private	Dry	165	1.Paichiammal W/o Devraj 2.Sivakumar 3.Velayutham
				300/2C	300/2C1	Private	Dry	160	Raja S/o Pachiappan
				300/2D	300/2D 1	Private	Dry	150	Pachiappan S/o Pachiappan
				301/1	301/1	Government	Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Road section)	300	Government
				301/2A	301/2A1	Private	Dry	230	1.Velu S/o Perumal 2.Parasuraman S/o Perumal 3.Asokan S/o Perumal Members Kalaimagalsaba 4.Velu 5.Vimalarani D/o N.T.Ramajayam 6.Mangayarkarasi D/o N.T.Ramajayam 7.Manjuladevi D/o N.T.Ramajayam 8.Subiramani S/o N.T.Ramajayam
				301/2B	301/2B1	Private	Dry	112	Vettaigounder S/o Vedigounder
				303/1A	303/1A	Government	Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Road section)	300	Government
				303/1B	303/1B1	Private	Dry	150	1.J.P.Pirabagaran S/o J.K.Pattabiramachettiyar 2.J.P.Sivakumar S/o J.P.Pirabagaran 3.J.P.Rajlaji J.P.Pirabaharan
				303/2B1	303/2B1A	Private	Dry	19	Krishnan S/o Perumal
				304/1	304/1	Government	Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Road section)	300	Government
				304/2	304/2A	Government	Kuttai	300	Government
				305/1	305/1	Government	Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Road section)	150	Government
				305/2	305/2A	Private	Dry	86	1.Vimalarani D/o N.T.Ramajayam 2.Mangayarkarasi D/o N.T.Ramajayam 3.Manjuladevi D/o N.T.Ramajayam 4.Subiramani S/o N.T.Ramajayam 5.Koonmar S/o Gundu Palani 6.Chinnaraj S/o Chandirapillai 7.M.Subbiramaniam 8.M.Mariappan 9.Pachiappan 10.Govindammal W/oPeriannan 11.Panjali W/o Idumban
			(4) Dokku bothana halli	265/1	265/9	Government	Un Assessed Waste Dry (Karadu)	285	Government
				265/2	265/10	Government	Karadu	235	Government
				267/1	267/1	Government	Battai	700	Government

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				267/2A1	267/2A1B	Private	Dry	1176	1.Dharmalingam S/o Munusami 2.Raman S/o Munusami 3.Madhayan S/o Munusami 4.Kaveriammal W/o Madhaiyan
				267/2A2A	267/4	Private	Dry	1003	1.Kasi S/o Munusami 2.Maithili W/o Chandiravehu
				267/2A2B	267/5	Private	Dry	10	1.Sekar S/o Ravutha Gounder 2.Kavitha W/o Sekar
				267/2A3	267/2A3B	Private	Dry	861	1.Sekar S/o Ravutha Gounder 2.Kavitha W/o Sekar
				267/2B1A	267/6	Private	Dry	300	Ganesan S/o Perumal Gounder
				267/2B1B	267/7	Private	Dry	353	1.Kayalvizhi W/o Devaraji 2.Velliangiri S/o Arumugam
				267/2B2A	267/8	Private	Dry	333	P.A.Selvam S/o Angappan
				267/2B2B	267/9	Private	Dry	306	P.A.Selvam S/o Angappan
				267/2B3	267/2B3B	Private	Dry	952	1.Ganesan S/o Arumugam 2.Ramasami S/o Madhappan
				267/2B4	267/2B4B	Private	Dry	354	A.Parthasarathi S/o Arumugam
				267/2B6	267/2B6B	Private	Dry	329	1.Velliangiri S/o Arumugam 2.Devagi W/o Pirakash
				267/3	267/3B	Private	Dry	59	Ganesan S/o Perumal Gounder
				268/A2	268/A2	Government	Road	450	Government
				268/A1B1	268/D	Private	Dry	652	Mathiyash S/o Movees
				268/A1B2	268/C	Private	Dry	94	Jayanthi W/o Madhaiyan
				268/A1C	268/A1CB	Private	Dry	880	Mathiyash S/o Movees
				268/B1B	268/B1B2	Private	Dry	1406	1.Munusami S/o Perumal 2.Dharmalingam S/o Munusami 3.Raman S/o Munusami 4.Madhayan S/o Munusami 5.Kaveriammal W/o Madhaiyan
				269/1	269/1	Government	Road	850	Government
				269/2B	269/2B	Government	Road	100	Government
				269/2A1A	269/2A1A	Private	Dry	250	Munusami S/o Ramanna gounder
				269/2A1C	269/9	Private	Dry	278	Angappan S/o Ponnaiyan
				269/2A1D	269/10	Private	Dry	450	Thangaraj S/o Marappan
				269/2A2A1	269/8 269/11	Private	Dry	2700 494	1.Amirthalingam S/o Sivalingam 2.Muniammal W/o Kandan 3.Lakshmi W/o Ganapathi
				269/2A2A2	269/12	Private	Dry	243	Krishnan S/o Chinna Gounder
				269/3	269/3A	Private	Dry	20	Angappan S/o Ponnaiyan
				269/4	269/4	Private	Dry	200	Angappan S/o Ponnaiyan
				269/5	269/5	Private	Dry	150	1.P.A.Selvam S/o Ponnaiyan 2.P.A.Selvam S/o Angappan
				269/6	269/6B	Private	Dry	348	Palani S/o Perumal
				271/1	271/1	Government	Road	1300	Government
				271/2A2	271/2A2B	Private	Dry	1080	Krishnan S/o Venkatta Udayar
				271/2A3	271/2A3	Private	Dry	400	Madhu S/o Marimuthu
				271/2A4	271/2A4B	Private	Dry	1540	Chinnappa W/o Madhu
				271/2A5A	271/2A5A	Private	Dry	7450	1.Ramachandiran S/o Ramanna Gopunder 2.Thangaraj 3.Samiappan
				271/2A5B	271/2A5B	Private	Dry	2650	Munusami S/o Ramanna Gounder
				271/2B	271/2B	Government	Road	1000	Government
				271/3	271/3B	Private	Dry	290	Angappan S/o Ponnaiyan
				271/5	271/5B	Private	Dry	620	Angappan S/o Ponnaiyan
				271/7	271/7	Private	Dry	900	Angappan S/o Ponnaiyan
				271/8	271/8	Private	Dry	1050	1.P.A.Selvam S/o Ponnaiyan 2.P.A.Selvam S/o Angappan
				277/1	277/1	Government	Road	1050	Government
				277/2A1A	277/6	Private	Dry	492	Palani S/o Chinna Muthian
				277/2A1B	277/7	Private	Dry	361	Madhammal W/o Palani
				277/2A1C	277/8	Private	Dry	191	Jayakodi W/o Palani
				277/2B1A	277/9	Private	Dry	722	Madhammal W/o Palani
				277/2B1B	277/10	Private	Dry	822	Munusami S/o Annamalai

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				277/2B1C	277/11	Private	Dry	785	Munusami S/o Annamalai
				277/2A2	277/2A2B	Private	Dry	1174	1.Valliammal D/o Chinnamunian 2.Rajammal W/o Krishnan
				277/2B2	277/2B2	Government	Road	2150	Government
				277/2C1A	277/12	Private	Dry	676	Krishnan S/o Chinnamunian
				277/2C1B	277/13	Private	Dry	300	1.Mariappan S/o Munian 2.Chinnasami S/o Munian 3.Muniammal D/o Munian 4.Subiramani S/o Mallaiyan
				277/2D1A	277/14	Private	Dry	715	Vediappan S/o Munusami
				277/2D1B	277/15	Private	Dry	869	1.Daivagunam S/o Venkatachalem 2.Ranganathan S/o Ramachandiran 3.Madhuraj S/o Ramachandiran
				277/2D1C	277/16	Private	Dry	868	Ranganathan S/o Munusami
				277/3	277/3B	Private	Dry	767	Jayakodi W/o Palani
				277/4	277/4B	Private	Dry	188	Kamachi W/o Periannan
				277/5	277/5B	Private	Dry	193	Mariappan S/o Munian
				278	278	Government	Road	10700	Government
				279	279	Government	Road	11100	Government
				280	280	Government	Road	8400	Government
				281	281	Government	Road	19150	Government
				282	282	Government	Road	1800	Government
				285	285/2	Government	Grazing Ground	325	Government

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5) Paghahalli	46/1	46/1	Government	Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Road section)	450	Government
			46/2A	46/2A1	Private	Dry	315	Ezhumalai S/o Govindachetti PMP Textiles Spinning Mills Limited
			47/1A	47/1A	Government	Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Road section)	882	Government
			47/1B1	47/1B1A	Private	Dry	94	Rajeswari W/o Muthusamy
			48	48/1	Government	Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Road section)	3528	Government
			49	49	Government	Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Road section)	850	Government
			50/1	50/1A	Private	Dry	150	Jaya
			50/2	50/2A	Private	Dry	100	Muniammal W/o Lingappachetti
			50/3	50/3A	Private	Dry	10	1.Subbbamma! W/o Narashimhachetti 2.Gopal chetti S/o Narashimhachetti 3.Arumugam S/o Gopal chetti
			51/1	51/1A	Private	Dry	582	Nagarajan S/o Narayanasamy
			51/2	51/2A	Private	Dry	488	1.Ramalingam S/o Kariappachetti 2.Sivagnanam S/o Kariappachetti 3.Murugesan S/o Venkatesan 4.Jayanthi W/o Murugesan
			53	53/1	Government	Battai	710	Government

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				55/1A	55/1A	Government	150	Government
				55/1B1	55/1B1A	Private	665	Ethiraj S/o Muniappagounder
				55/2B1	55/2B1A	Private	612	1. Mahalingam 2. Murugan 3. Mahendran 4. Muniraj 5. Ramu 6. Murugesan S/o Venkatesan
				56/1	56/1A	Private	414	1. Subramani S/o Venkatesachetti 2. Krishnamurthi S/o Venkatesachetti
				56/2	56/2A	Private	473	1. Ramachandran S/o Munichetti 2. Dhandapani S/o Mariappan 3. Ethiraj S/o Muniappagounder
				59/1	59/1A	Private	290	1. Kappalchetti S/o Mathichetti 2. Raji S/o Chennakesavan
				59/2A	59/2A1	Private	310	1. Kappalchetti S/o Mathichetti 2. Raji S/o Chennakesavan
				59/2B	59/2B1	Private	298	Chennammal W/o Chennakesavachetti
				60	60/1	Private	1006	Members Kalaimahalshaba Komarapalayam
				63/1	63/1	Government	100	Government
				63/2	63/2A	Private	938	Members Kalaimahalshaba Komarapalayam
				64/1A	64/1A	Government	250	Government
				64/21	64/21	Government	127	Government
				64/52	64/52	Government	76	Government
				68/1	68/1	Government	250	Government
				68/21	68/21	Government	120	Government
				69/1A	69/1A	Government	100	Government
				69/1B	69/1B	Private	466	1. Kuppan S/o Nagappachetti 2. Govindan S/o Nagappachetti 3. Nagappachetti S/o Venkatramachetti
				69/2B	69/2B1	Private	368	1. Siddaiyan S/o Kariappachetti 2. Sevathan S/o Mari
				70/1A	70/1A1	Private	415	Special Officer, Pagalahalli Co Operative Society
				70/2A	70/2A1	Private	342	Special Officer, Pagalahalli Co Operative Society
				70/3A	70/3A1	Private	55	Special Officer, Pagalahalli Co Operative Society
				70/3B	70/3B1	Private	348	Venkatesachetti S/o Govindappachetti
				71/1	71/1A	Private	2102	1. Kuttipachetti S/o Venkataramachetti 2. Pethappachetti @ Venkatesan S/o 3. Kuttipachetti

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				74/1	74/1A	Private	Dry	37	1.Kuttiappachetti S/o Venkatesamachetti 2.Pethappachetti @ Venkatesan S/o 3.Kuttiappachetti
				74/2	74/2	Government	Battai	650	Government
				75/1	75/1A	Private	Dry	172	1.Kathirvel S/o Mariappagounder 2.Jayaraman S/o Kuppagounder 3.Janarthanan S/o (Late)Gurunathamudhaliyar 4.Parthiban S/o (Late) Dhanabalmudhaliyar 5.Vaiyapuri S/o Sivanadhamudhaliyar 6.Kamala W/o (Late)Paramasivam 7.Arjunan S/o Chinnasamy 8.Madhu S/o Kandasamy 9.Kaveri S/o Perumalgounder 10.Siddhan S/o Peramagounder 11.S.Vajram 12.S.Jayaraman 13.S.Nagarajan 14.Chandra W/o Anbalaghan 15.Revathi W/o Murugesan 16.Kahammal W/o Settu 17.Arunachalam S/o Annamalai 18.Kaveri
				76/1A1A	76/1A1A	Private	Dry	174	1.Kaverichetti S/o Mobirichetti
					76/3	Private	Dry	280	2.Babu S/o Durai 3.S.Karthikeyan (Minor Guardian Sugumar) 4.Banuprakash S/o Durai 5.Periyasamy S/o Kaliappan 6.Deepa Sangamaeshwaran
				76/1A1B	76/1A1B	Private	Dry	160	Varadaraj S/o Ramasamyachetti
				76/1A2	76/1A2A	Private	Dry	129	1.Sankarammal W/o Balakrishnan 2.Pushbarani W/o Madhaiyan
				76/1B	76/1B1	Private	Dry	112	Indhirani W/o Periyasamy
				77/2A	77/2A1	Private	Dry	883	Dhanapal S/o Chettiappan @ Mecherigounder
				78	78	Government	Battai	38850	Lying as NH Road
				79/2	79/2	Government	Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Road section)	300	Government
				80/1A1	80/1A1B	Private	Dry	926	Tamilnadu Small Industries Development Corporation
				80/1B	80/1B	Government	Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Road section)	950	Government
				80/2A2	80/2A2B	Private	Dry	1043	Tamilnadu Small Industries Development Corporation
				80/3A1	80/3A1B	Private	Dry	660	Tamilnadu Small Industries Development Corporation
				80/3A2B	80/3A2B	Private	Dry	180	Yasotha W/o Ramalingam
				81/1	81/1B	Private	Dry	400	P.M.Subramanian S/o P.K.Muthusamy
				81/2	81/2	Government	Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Road section)	300	Government
				82/1	82/1B	Private	Dry	67	P.M.Subramanian S/o P.K.Muthusamy
				82/2	82/2	Government	Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Road section)	300	Government
				83/2	83/2	Government	Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Road section)	200	Government
				84/2	84/2	Government	Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Road section)	200	Government

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				120/1G	120/1G2	Private	Dry	22	Lakshmi W/o Kariappan
				121	121/2	Government	Koill	87	Government
				122/1	122/1B	Private	Dry	47	1.Raman S/o Ganesan 2.Govindan S/o Ganesan 3.Selvam S/o Ganesan 4.Veerappan S/o Chimaiyagounder
				122/2	122/2B	Private	Dry	63	1.Munusamy S/o Sundiragounder 2.Rajendran S/o Thangavel 3.Settu S/o Periyasamy 4.Anbazhagan S/o Nagappan
				122/3	122/3B	Private	Dry	281	1.Perumal S/o Govindagounder 2.Mariappan S/o Kannappan 3.Aranayanagi W/o Durairaj 4.Perumal
				130/2A1	130/2A1B	Private	Dry	388	1.Mayili W/o Madhu 2.Saroja W/o Venkagounder 3.Singaram S/o Palanigounder 4.Duraisamy S/o Marimuthugounder 5.Tamilarasi W/o Singaram 6.Makbul S/o Dhathasgeer 7.Madhu S/o Kolandai @ Marimuthu 8.Saradha W/o Murugan 9.Tamilarasi W/o Singaram 10.Kavidha W/o Murugan 11.Arul
				130/2A2	130/2A2B	Private	Dry	71	Prabhakaran S/o Kalmari
				130/2B	130/2B2	Private	Dry	91	Ganesan S/o Vengagounder
				130/2C	130/2C2	Private	Dry	124	Shanmugam S/o Chinnachetti
				130/3B	130/3B2	Private	Dry	215	1.Mayili W/o Madhu 2.Saroja W/o Venkagounder 3.Singaram S/o Palanigounder 4.Duraisamy S/o Marimuthugounder 5.Tamilarasi W/o Singaram 6.Makbul S/o Dhathasgeer 7.Madhu S/o Kolandai @ Marimuthu 8.Saradha W/o Murugan 9.Tamilarasi W/o Singaram 10.Shanmugam S/o Chinnachetti
				130/7B1	130/7B1B	Private	Dry	125	Tamilarasi W/o Singaram
				130/7B2	130/7B2B	Private	Dry	124	Shanmugam S/o Chinnachetti
				130/7B3	130/7B3B	Private	Dry	133	Tamilarasi W/o Singaram
				130/8	130/8B	Private	Dry	381	Tamilarasi W/o Singaram
				131/2	131/2B	Private	Dry	197	1.Manickam S/o Kupppachigounder 2.Ravi @ Dhandapani S/o Kanaappan 3.Mani S/o Shiddagounder 4.Shanmugam S/o Chinnachetti
				131/3	131/3B	Private	Dry	223	Kandan S/o Kupppachigounder
				131/4	131/4B	Private	Dry	283	1.Peramagounder S/o Kolandaigounder 2.Rani W/o Periyasamy 3.Hanumanthan 4.Selvaraj 5.Inban
				131/5	131/5B	Private	Dry	282	Periyannan S/o Kolandaigounder
				260/1	260/1A	Private	Dry	97	Koonmarigounder S/o Palanigounder
				260/2	260/2A	Private	Dry	283	Pachiappan S/o Pachiappan
				261/1	261/1A	Private	Dry	80	Natesan S/o Karian @ Perumal
				261/2	261/2A	Private	Dry	140	Matthikarapomnappan S/o Kuttaiyagounder
				261/3	261/3A	Private	Dry	169	Mani S/o Venkatramanaidu
				261/6	261/6A	Private	Dry	69	1.Mani S/o Venkatramanaidu 2.Muthu S/o Muthagounder 3.Vignesh (Minor) 4.Kaliappan
				264/1	264/1	Government	Adi-Dravidar Kudiyruppu Road Margin	314	Government
				264/16	264/16	Government	Adi-Dravidar Kudiyruppu Street	19	Government
				264/37	264/37	Government	Adi-Dravidar Kudiyruppu Temple place	8	Government
				265/1	265/1	Government	Road Margin	600	Government

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				265/2C	265/2C1	Private	Dry	13	1.Narayanasamy S/o Kuttaiyagounder 2.Narahsingaraj S/o Rangasamynaidu
				270/1	270/1A	Private	Dry	232	Kamalingam S/o Ariyagounder
				270/2	270/2A	Private	Dry	109	Perumal S/o Kuttaiyagounder
				270/3	270/3A	Private	Dry	123	Vettaigounder S/o Vettaigounder
				271/1	271/1A	Private	Dry	255	Narayanasamy S/o Ariyagounder
				271/3	271/3A	Private	Dry	221	Narayanasamy S/o Ariyagounder
				274/1	274/1A	Private	Dry	285	1.Perumal S/o Vettaigounder 2.Perumal S/o Narayanasamy 3.Ramajayamchettiar S/o Degachalamchettiar 4.Arul (Minor Guardian Mother Salammal) 5.Dhanabackiam 6.Krishnan S/o Perumalgounder
				274/2	274/2A	Private	Dry	335	Kamalam W/o Rajagopal
				275	275/1	Private	Dry	683	Sri Narshimhasamy koi
				277/1A	277/1A	Private	Dry	46	Perumal S/o Govindan
				277/1D	277/1D1	Private	Dry (Path)	25	Lying as path
				277/1E	277/1E	Private	Dry	55	Lying as well
				277/1F	277/1F1	Private	Dry	3	1.P.Perumal 2.P.Krishnan 3.Pasupathi
				277/1I	277/1I2	Private	Dry (Path)	248	Lying as path
				277/1J	277/1J1	Private	Dry	1	K.Govindasamy
				277/2	277/2A	Private	Dry	170	Periyaraj
				277/3	277/3A	Private	Dry	165	Gopal
				277/4	277/4A	Private	Dry	146	Chinnaraj
				278/1	278/1A	Private	Dry	236	Kamalesan S/o Perumal
				278/2	278/2A	Private	Dry	403	Siddan
				278/3	278/3A	Private	Dry	275	Vettaigounder S/o Vettaigounder
				279/1	279/1A	Private	Dry	528	1.Kannammal W/o Manickam 2.Peruma S/o Manickam 3.Perumal S/o Manickam 4.Mani S/o Manickam 5.Manickam S/o Manickam 6.Manga D/o Manickam 7.Durai @ Senathipathi S/o Manickam
				280/1A	280/1A	Private	Dry	8	P.Manickam
				280/1B	280/1B	Private	Dry	8	P.@M.Chellakutti
				280/1C	280/1C	Private	Dry	8	Ariyagounder
				280/1D	280/1D	Private	Dry	8	1.M.Ariyagounder 2.M.Chellakutti 3.Manickam
				280/1E1	280/1E1A	Private	Dry	124	1.Manickam S/o Perumal 2.S.Ariyagounder S/o Perumal
				280/1E2	280/1E2	Private	Dry	50	Perumal S/o Chellakutti
				280/1E3	280/1E3	Private	Dry	50	Ariyagounder S/o Chellakutti
				280/1E4	280/1E4	Private	Dry	50	Manickam s/o chellakutti
				280/1E5	280/1E5	Private	Dry	50	Madhavan s/o chellakutti
				280/1E6	280/1E6	Private	Dry	50	Perumal S/o Chellakutti
				280/1E7	280/1E7A	Private	Dry	46	1.Manickam S/o Perumal 2.Perumal S/o Chellakutti 3.Ariyagounder S/o Perumal
				280/1E8	280/1E8A	Private	Dry	59	Perumal S/o Chellakutti
				281	281/1	Government	Battai	366	Government
				285/2	285/2A	Private	Dry	752	Saraswathi W/o Mani
				286/1H	286/1H	Government	Adi-Dravidar Kudiyiruppu Street	74	Government.
				286/1O	286/1O	Government	Adi-Dravidar Kudiyiruppu Well	162	Government
				286/1P	286/1P	Government	Adi-Dravidar Kudiyiruppu Natham Vacant Site	202	Government
				292/1A	292/1A1	Private	Dry	51	1.Sevathan @ Chinnathambi S/o Marigounder 2.Januna
				292/1C	292/1C1	Private	Dry	596	Chinnasamy S/o Mecherigounder
				292/1D	292/1D1	Private	Dry	253	Thangavel S/o Mecherigounder
				292/1E	292/1E1	Private	Dry	2036	Dhanapal S/o Chettiappan @ Mecherigounder
				293	293	Government	Battai	18550	Lying as NH Road

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				294/1A	294/1A	Private	Dry	300	Thalaikondan S/o Ponnusamy
				294/1B	294/1B	Private	Dry	200	Dhanasekaran S/o Venugopal
				294/1C	294/1C2	Private	Dry	193	Manoharan S/o Ponnusamy
				294/1D	294/1D2	Private	Dry	227	Vettaigounder S/o Vettaigounder
				294/2	294/2B	Private	Dry	600	1.Periyaraj S/o Rangan 2.Chinnaraj S/o Rangan 3.Gopal S/o Rangan
				295/1	295/1B	Private	Dry	370	Perumal S/o Kuttaiyagounder
				295/2	295/2B	Private	Dry	766	1.Narayanasamy S/o Kuttaiyagounder 2.Govindasamy S/o Kuttaiyagounder
				296	296/2	Private	Dry	1018	1.Kalmari S/o Periyaraj @ Perumal 2.Murugan S/o Palani 3.Ramajayamchettiyar S/o Dejachalam 4.Gopal 5.Chinnaraji S/o Muthukumaran 6.Mani S/o Muthukumaran 7.Kalmari S/o Muthukumaran 8.Chinnasamy S/o Kuttaiyagounder 9.Muthukumaran S/o Kuttaiyagounder 10.Mariappan S/o Palani 11.Muthu S/o Vadivel 12.Siddhan S/o Kaliappan
				297/1	297/1B	Private	Dry	550	1.Santha W/o Chinnasamy 2.Rajamani S/o Govindan 3.Vediappan S/o Govindan 4.Gandhi S/o Govindan 5.Jadayan S/o Vellaiyagounder 6.Chinnasamy S/o Vellaiyagounder
				297/2A	297/2A2	Private	Dry	273	1.Muthu S/o Kandasamy 2.Anbu S/o Kandasamy
				297/2B	297/2B2	Private	Dry	198	Kasi S/o Kandasamy
				298	298	Govern ment	Sri Narshimha Swamy Koil	550	Sri Narshimha Swamy Koil
				305	305/2	Private	Dry	872	Rajaji S/o Krishnan
				316/1	316/1	Private	Dry	108	R.Kiliammal
				316/2	316/2	Private	Dry	42	R.Govindasami
				316/3	316/3	Private	Dry	41	P.Sidhammal
				316/4A	316/4A2	Private	Dry	478	1.Govindasamy S/o Ramasamygounder 2.Kolandai S/o Korankatti 3.Jayaraman S/o Perumalgounder 4.Palaniammal W/o Perumal 5.Kaveri S/o Perumal
				316/4D	316/4D	Private	Dry	50	Palaniammal W/o Perumal
				316/4E1	316/4E1	Private	Dry	50	1.Govindasamy S/o Ramasamygounder 2.Kolandai S/o Korankatti 3.Jayaraman S/o Perumalgounder 4.Palaniammal W/o Perumal 5.Kaveri S/o Perumal
				316/4E2	316/4E2	Private	Dry	100	Perumal S/o Chellakutti
				316/4E3	316/4E3B	Private	Dry	785	1.Govindasamy S/o Ramasamygounder 2.Kolandai S/o Korankatti 3.Jayaraman S/o Perumalgounder 4.Palaniammal W/o Perumal 5.Kaveri S/o Perumal
				317	317/2	Private	Dry	1076	1.Kalmari S/o Periyaraj @ Perumal 2.Murugan S/o Palani 3.Ramajayamchettiyar S/o Dejachalam 4.Gopal 5.Chinnaraji S/o Muthukumaran 6.Mani S/o Muthukumaran 7.Kalmari S/o Muthukumaran 8.Chinnasamy S/o Kuttaiyagounder 9.Muthukumaran S/o Kuttaiyagounder 10.Mariappan S/o Palani 11.Muthu S/o Vadivel 12.Siddhan S/o Kaliappan
				318/1A	318/1A2	Private	Dry	218	1.Dharisil @ Munusamy S/o Chinnaperumal 2.Ramagounder S/o Chinnaperumal 3.Chinnakaveri S/o Chinnaperumal 4.Poovagounder S/o Chinnaperumal 5.Chinnapillai W/o Munusamy 6.Govindammal W/o Periyannan 7.Natesan S/o Kakkayaian @ Mecherigounder

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				318/1B	318/1B2	Government	Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Road section)	1050 Government
				329	329/2	Government	Battai	638 Government
				330/1	330/1B	Government	Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Road section)	83 Government
				330/2A1	330/2A1B	Private	Dry	12f Chinnathambi S/o Buddu @ Ariyagounder
				330/2A2	330/2A2B	Private	Dry	340 Chinnasamy S/o Kolandaiappan
				330/2A3	330/2A3B	Private	Dry	550 Kamalesan S/o Kolandaiappan
				330/2A4	330/2A4B	Private	Dry	1085 Kanna S/o Kolandaiappan
				330/2B	330/2B2	Government	Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Road section)	2717 Nadupattayan @ Kandasamy gounder S/o Kaverigoundan
				502	502	Government	Battai	20300 Lying as NH Road
				503/1	503/1B	Private	Dry	2169 1 Narayanasamy S/o Chinnasamyndu
				503/2	503/2B	Private	Dry	705 2. Jadayan @ Peramagounder S/o Venkatarama gounder
				504	504/2	Private	Dry	1604 Narayanasamy S/o Chinnasamyndu
				505/1	505/1B	Private	Dry	1050 1. Kannagi W/o Ranganathan
								2. Kamalakandan W/o Sakkaravelchetti
								3. Murugesan S/o Sakkaravelchetti
								4. Perumal S/o Manickam
								5. S.P. Subramani
								6. Ramalingam
								7. Kannammal W/o Raja
								8. Vadivel
								9. Amudha W/o Murugan
								10. Muraliraja S/o Panjanathan
								11. Periyasamy S/o Chinnasami
				505/2	505/2B	Private	Dry	234 Periyasamy S/o Chinnasamy
				505/3	505/3B	Private	Dry	55 1. Amudha W/o Murugan
				505/4	505/4B	Private	Dry	262 2. Periyasamy S/o Chinnasamy
				505/5	505/5B	Private	Dry	1436 Amudha W/o Murugan
								1. Kannagi W/o Ranganathan
								2. Kamalakandan W/o Sakkaravelchetti
								3. Murugesan S/o Sakkaravelchetti
								4. Perumal S/o Manickam
								5. S.P. Subramani
								6. Ramalingam
								7. Kannammal W/o Raja
								8. Vadivel
								9. Amudha W/o Murugan
								10. Muraliraja S/o Panjanathan
								11. Periyasamy S/o Chinnasami
				507/1	507/1B	Private	Dry	1195 Rajendran S/o Rathinasabapathi chetti
				507/2	507/2	Government	Valluvar Kudiyruppu	294 Government
				508/2	508/2B	Private	Dry	536 1. Rajamani S/o Madaiyan
				508/3	508/3B	Private	Dry	556 2. Sampath S/o Muthukumar
				508/7	508/7B	Private	Dry	1250 Madhaiyan S/o Madhaiyan
				509/3	509/3B	Private	Dry	662 Karikalan S/o Kandasami
				509/4	509/4B	Private	Dry	152 Madhaiyan S/o Sidhagounder
				509/5	509/5B	Private	Dry	440 Madhaiyan S/o Sidhagounder
				509/7B	509/7B2	Private	Dry	390 Ariyagounder S/o Kurumbapatti
				509/8	509/8B	Private	Dry	373 Perumalgounder
				509/11	509/11B	Private	Dry	440 Chinnasidhan S/o Sellakutti
								373 Periyasidhan S/o Sellakutti
								440 Manickam S/o Sellakutti

(F. No. NHA/Tech/LA/KT/Dharmapuri 3(A) 11/2006]

PRABHAKAR, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2007

का.आ. 344(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ.1711 (अ), तारीख 05 अक्टूबर, 2006 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तमिलनाडु राज्य के धर्मापुरी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के 113.275 कि.मी. से 163.000 कि.मी. (कृष्णागिरि-थोपुरघाट सेक्शन) तक के भूखंड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 05 नवंबर, 2006 को “दि हिन्दू” और “दिनाथॉथी” दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और, आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी वित्तीयगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के 113.275 कि. मी. से 163.000 कि. मी. तक (जम्पागिरी से थोपुरघाट सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली सरवना सहित अधिकांश स्थानों पर रहित भूमि का साक्ष्य विवरण :-

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्ग मी में)	भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
				उप मंडल से पूर्व	उप मंडल के बाद				
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1	धर्मापुरी	1. पालाकोडे	(1) कंरीकोडीहल्ली	2/3	2/3बी	निजी	शुष्क	110	कालाई सेलवान ईलान्गोवन पुत्र मानिया गाउंडर
				2/7	2/7ए	निजी	शुष्क	490	पचाईमल पत्नी मेरीयाप्पन रंगासामी नारायणसामी पुत्र मेरीयाप्पन
				2/8	2/8ए	निजी	शुष्क	823	पचाईमल पत्नी मेरीयाप्पन रंगासामी नारायणसामी पुत्र मेरीयाप्पन
				3/2बी1	3/2बी1ए	निजी	शुष्क	369	पचाईमल पत्नी मेरीयाप्पन रंगासामी नारायणसामी पुत्र मेरीयाप्पन
				3/2बी2	3/2बी2ए	निजी	शुष्क	700	रंगासामी नारायणसामी पुत्र मेरीयाप्पन
				3/2बी3	3/2बी3ए	निजी	शुष्क	186	गोविन्दासामी पुत्र कान्दासामी गाउंडर सेलवी पुत्री गोविन्दसामी कालाई सेलवी पुत्र सेलवारसज
				3/2बी4	3/2बी4ए	निजी	शुष्क	54	रंगासामी, नारायणसामी पुत्र मेरीयाप्पन कालीयप्पन पुत्र वेदी गाउंडर सुबरामनि पुत्र गोविन्दान मेरीयाप्पन पुत्र मुनियाप्पागाउंडर सेलवी पत्नी रामासामी गोविन्दासामी पुत्र कानदा गाउंडर मेरामुथु पुत्र सोलाई गाउंडर कालाईसेलवी पुत्री सेलवारसज
				3/2बी5	3/2बी5ए	निजी	शुष्क	358	मेरामुथु पुत्र सोलाई गाउंडर पेरीयामल पत्नी पेरुमल
				3/2बी6	3/2बी6ए	निजी	शुष्क	158	के एम मेरीयाप्पन पुत्र मुनीई गाउंडर नटाराजन पुत्र गोविन्दन वी रामालिंगम पुत्र बी ए वैक्ताथा मुनी चेति
				17/2ए	17/2ए1	निजी	शुष्क	443	सरस्वतीयामल पत्नी पावियप्पन गोविन्दन पुत्र थानप्पा गाउंडर
				17/2बी	17/2बी1	निजी	शुष्क	182	के एम मेरीयाप्पन पुत्र मुनीयप्पा गाउंडर वी रामालिंगम पुत्र बी ए वैक्ताथा मुनी चेति जी नटाराजन पुत्र गोविन्दन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				18/2	18/2ए	निजी	शुष्क	1733 सरस्वतीयामल पत्नी पाचियप्पन गोविन्दन पुत्र थानप्पा गाउँडर
				19/1	19/1ए	निजी	शुष्क	2698 सरस्वतीयामल पत्नी पाचियप्पन गोविन्दन पुत्र थानप्पा गाउँडर
				19/2	19/2ए	निजी	शुष्क	1196 सरस्वतीयामल पत्नी पाचियप्पन गोविन्दन पुत्र थानप्पा गाउँडर
				42/1	42/1ए	निजी	शुष्क	1872 सरस्वतीयामल पत्नी पाचियप्पन गोविन्दन पुत्र थानप्पा गाउँडर चिन्नाप्पन पुत्र सामबलान
				43/1	43/6	सरकारी	गाँव स्थल	992 सरकारी
				43/3	43/7	सरकारी	गाँव स्थल	23 सरकारी
				43/5	43/8	सरकारी	रास्ता	403 सरकारी
				44/1	44/1	निजी	शुष्क	300 चिन्नासामी चिन्नागाउँडर पुत्र केशीयन कान्नामल पत्नी मरीयाप्पन रजनी के एम पलानि कामराज पुत्र मरीयाप्पन मधु मुरुगेसन पेरीयासामी पुत्र चिन्नासामी
				44/2	44/2	निजी	शुष्क	250 कान्नामल पत्नी मरीयाप्पन के एम पलानि पुत्र मरीयाप्पन
				44/3	44/3ए	निजी	शुष्क	73 मेरी पत्नी चिन्नासामी मधु मुरुगेसन पेरीयासामी पुत्र मरीयाप्पन
				44/4	44/4ए	निजी	शुष्क	73 चिन्नागाउँडर पुत्र केशीयन के एम पलानि रजनी कामराज पुत्र मरीयाप्पन
				44/5	44/5	निजी	शुष्क	150 चिन्नासामी चिन्नागाउँडर पुत्र केशीयन के एम पलानि पुत्र मरीयाप्पन मधु मुरुगेसन पेरीयासामी पुत्र चिन्नासामी
				44/6ए	44/6ए1	निजी	शुष्क	375 मेरी पत्नी चिन्नासामी मधु मुरुगेसन पेरीयासामी पुत्र चिन्नासामी

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				44/7	44/7ए	निजी	शुष्क	96	के. एन. पलानि रजनी कामराज पुत्र मरीयापा गाउंडर
				44/8	44/8ए	निजी	शुष्क	1793	प्रकाश पुत्र एम. राजेन्द्रन
				138/1	138/1ए	निजी	शुष्क	482	गोविन्दासामी मदाईयन पुत्र कृष्णा गाउंडर सेलवम पुत्र पेरीयासामी गाउंडर.
				138/2	138/2	निजी	शुष्क	250	गोविन्दासामी मदाईयन पुत्र कृष्णा गाउंडर चिन्नपप्पा पत्नी मुनुसामी
				139/1	139/1	सरकारी	एम. एस. टी. सड़क	700	सरकारी
				139/2ए	139/2ए1	निजी	शुष्क	2352	गोविन्दासामी पुत्र वेक्टरामनि कालीमुथु पुत्र कालीयप्पा गाउंडर थंगामनी पत्नी थंगवेल आर. पेरुमल पुत्र रामासामी गाउंडर वेन्नाप्पन पुत्र पलानी गाउंडर के. जी. मनिक्कम के. जी. गांधी के. जी. नागराज के. जी. वडिवेल पुत्र गोविंदसामी नागामल पत्नी गोविंदराज नदुपप्पा @ वसंथा पत्नी सख्खीवल राजामल पत्नी गोविंदसामी
				140/1	140/1	सरकारी	एम. एस. टी. सड़क	400	सरकारी
				140/2ए	140/2ए1	निजी	शुष्क	343	गोविंदसामी पुत्र वेक्टरामनी कालीमुथु पुत्र कालीयप्पा गाउंडर थंगामनी पत्नी थंगवेल आर. पेरुमल पुत्र रामासामी गाउंडर वेन्नाप्पन पुत्र पलानी गाउंडर
				140/2बी	140/2बी1	निजी	शुष्क	380	श्रीनिवासन पुत्र वेक्टरामनी
				141/1	141/1	सरकारी	एम. एस. टी. सड़क	1300	सरकारी
				141/2ए2	141/ए2ए	निजी	शुष्क	519	श्रीनिवासन पुत्र वेक्टरामनी
				141/2बी	141/3	सरकारी	थुवेलाहल्ली जल नहर	513	सरकारी
				141/2सी2	141/2सी2ए	निजी	शुष्क	672	श्रीनिवासन पुत्र वेक्टरामनी
				142/1	142/1	सरकारी	एम. एस. टी. सड़क	600	सरकारी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				142/2बी1	142/2बी1ए	निजी	शुष्क	388
								चिन्ताश्री पत्नी के. एच. सुब्रामनी
								विजयकुमार
								कमलेश पुत्र मोहन
								बन्धुपत्नी पत्नी मोहन
								प्रभा पत्नी शानमुगम
								सिवाकुमार पुत्र शानमुगम
								विजयलक्ष्मण पुत्र शानमुगम
				142/2बी2	142/2बी2ए	निजी	शुष्क	388
								मुरुगेसन पुत्र गोविंदन
				142/2बी3	142/2बी3ए	निजी	शुष्क	376
								गोविंदन पुत्र अनुमा गाउंडर
								के. एम. प्रदीपसेल्वम पुत्र मुरुगेसन
				142/2बी4ए	142/3	निजी	शुष्क	384
								पत्नीमल पत्नी देवराचलम
				143/1	143/1ए	निजी	शुष्क	2832
								कंदसासी पुत्र रामासासी गाउंडर
				144/1ए1	144/1ए1ए	निजी	शुष्क	385
								कंदसासी पुत्र रामासासी गाउंडर
				144/1ए2	144/1ए2ए	निजी	शुष्क	876
								आर. सखीयानन पुत्र रामासासी
				144/1ए1	144/1बी1	निजी	शुष्क	1206
								अथीआना गाउंडर
								अयावु @ कुमारसासी पुत्र रामासासी गाउंडर
				144/1सी	144/1सी1	निजी	शुष्क	1074
								अयावु @ कुमारसासी पुत्र रामासासी गाउंडर
				144/1डी1	144/1डी1	निजी	शुष्क	92
								अथीआना गाउंडर
								अयावु @ कुमारसासी पुत्र रामासासी गाउंडर
								कंदसासी पुत्र रामासासी गाउंडर
				144/2	144/2	सरकारी	बटई	1800
								सरकारी
				145/2ए	145/2ए1	निजी	शुष्क	163
								मरियामल पत्नी श्रीमाराया गाउंडर
				145/2बी	145/2बी1	निजी	शुष्क	220
								अंगामुधु पुत्र कोलांदई गाउंडर
				145/2सी1	145/2सी1ए	निजी	शुष्क	413
								पेरुमल पुत्र पुदाकायन @ कालीयप्पन
				145/2सी2	145/2सी2	निजी	शुष्क	100
								सुब्रामनि पुत्र पुदाकायन @ कालीयप्पन
				145/2सी3	145/2सी3ए	निजी	शुष्क	363
								सुब्रामनि पुत्र पुदाकायन @ कालीयप्पन
				146/2ए2	146/2ए2ए	निजी	शुष्क	17
								कृष्णन पुत्र पुदाकायन @ कालीयप्पन
				146/2सी2	146/2सी2ए	निजी	शुष्क	586
								गोविंदन पुत्र पुदाकायन @ कालीयप्पन
								गोविंदराजीलु पुत्र रामासासी उदावर
								रामासासी पुत्र मरुप्पा गाउंडर
								शनमुमन पुत्र कावेरी
								रुकमनीमल पत्नी कालीयप्पन
				146/2डी	146/2डी1	निजी	शुष्क	843
								माधेसन पुत्र पुदाकायन @ कालीयप्पन
								गोविंदन
								अलराज पुत्र कालीयप्पन
								गोविंदराजीलु पुत्र रामासासी उदावर

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				146/25	146/25ई1	निजी	शुष्क	1075	अलसज पुत्र पुदाकायन @ कालीयप्पन
				173/1	173/1	सरकारी	राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क मार्गिन	400	सरकारी
				173/2	173/2ए	निजी	शुष्क	1028	थीरुपथि पुत्र नाटन @ पेरुमल
				175/1	175/1ए	निजी	शुष्क	608	थीरुपथि पुत्र नाटन @ पेरुमल
				175/2	175/2ए	निजी	शुष्क	300	पेरियासामी पुत्र पेरुमल
				176/3	176/4	सरकारी	बटई	526	सरकारी
				179/1	179/1ए	निजी	नम	223	माधेसन पुत्र पुदाकायन @ कालीयप्पन
				179/2	179/2ए	निजी	नम	456	माधेसन पुत्र पुदाकायन @ कालीयप्पन
				180/3	180/3ए	निजी	नम	408	कृष्णन पुत्र पुदाकायन @ कालीयप्पन सुब्रामनि
				180/5	180/5ए	निजी	नम	345	पेरुमल पुत्र पुदाकायन @ कालीयप्पन गोविंदन पुत्र पुदाकायन @ कालीयप्पन
				181	181	सरकारी	ओडाई	2650	सरकारी
				182	182	सरकारी	बटई	5450	सरकारी
				183	183	सरकारी	बटई	13550	सरकारी
				184	184	सरकारी	बटई	9700	सरकारी
				185	185	सरकारी	एम एस टी सड़क	7050	सरकारी
				186	186	सरकारी	एम एस टी सड़क	13050	सरकारी
				188/1ए	188/1ए2	निजी	शुष्क	95	वाली पत्नी मुनुसामी
				188/1सी	188/1सी2	निजी	शुष्क	189	कालीमुथु पुत्र वेदी गाउंडर
				188/2ए1	188/2ए1बी	निजी	शुष्क	37	गोविंदराज मनि सेकर कासीलिगम कुमारवेल पुत्र मुनुसामी जोतिलक्ष्मी पुत्री मुनुसामी
				188/2ए2	188/2ए2बी	निजी	शुष्क	423	गोविंदराज मनि सेकर कासीलिगम कुमारवेल पुत्र मुनुसामी जोतिलक्ष्मी पुत्री मुनुसामी
				188/2बी1	188/2बी1बी	निजी	शुष्क	69	के. जी. नारायनसामी कै. जी. कंदसामी के. जी. मुर्थि पुत्र गोविंदा गाउंडर
				188/2बी2	188/2बी2बी	निजी	शुष्क	61	के. जी. मुर्थि पुत्र गोविंदासामी गाउंडर
				188/2बी3	188/2बी3बी	निजी	शुष्क	69	के. जी. कंदसामी पुत्र गोविंदा गाउंडर
				188/2बी4	188/2बी4बी	निजी	शुष्क	113	के. जी. नारायनसामी पुत्र गोविंदा गाउंडर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				188/2सी	188/2सी2	निजी	शुष्क	610 गोविंदसामी पुत्र सुकुदी @ कदासामी
				193/2सी	193/2सी2	निजी	शुष्क	796 सरस्वतीयामल पत्नी पाचियप्पन
								गोविंदन पुत्र थनाप्पा गाउंडर
				193/2डी	193/2डी2	निजी	शुष्क	296 अंगामुथु पुत्र कोलांदाई गाउंडर
				194	194/2	सरकारी	पचई अम्मन कोईल	1807 सरकारी
				197/4	197/4	निजी	शुष्क	150 के. एस. कंदासामी पुत्र चेनप्पा गाउंडर
				197/5	197/5बी	निजी	शुष्क	249 माइनर सुब्रामनि गार्डियन मदर चिन्नामल
								चिन्नामल पत्नी पाचीप्पन
				197/13	197/13	निजी	शुष्क	150 गोविंदन पुत्र थनाप्पा गाउंडर
								के. एस. कंदासामी पुत्र चेनप्पा गाउंडर
								सुब्रामनि पुत्र पाचियप्पन
				198/1	198/1बी	निजी	शुष्क	20 राजी गाउंडर पुत्र कालीप्पा गाउंडर
				198/2बी	198/2बी2	निजी	शुष्क	113 राजा गोपाल पुत्र राजी गाउंडर
				276/1ए	276/1ए2	निजी	शुष्क	257 राजी गाउंडर पुत्र काली गाउंडर
				276/1बी	276/1बी2	निजी	शुष्क	223 राजी गाउंडर पुत्र काली गाउंडर
				276/1सी	276/1सी2	निजी	शुष्क	238 पेरुमल पुत्र थनाप्पा गाउंडर
				276/1डी1	276/1डी1बी	निजी	शुष्क	203 उषाशनी पत्नी गोरान
				276/1डी2	276/1डी2बी	निजी	शुष्क	212 सम्बथ पुत्र कोना गाउंडर
				276/1डी3	276/1डी3बी	निजी	शुष्क	319 शनमुगम पुत्र कोना गाउंडर
				277/1ए1	277/1ए1बी	निजी	शुष्क	519 सरस्वतीयामल पत्नी पाचियप्पन
								गोविंदन पुत्र थनाप्पा गाउंडर
				277/1ए2	277/1ए2बी	निजी	शुष्क	280 सदासिवम
								मध्यन
								चिन्नराज
								मुल्लोसन पुत्र मुनुसामी
								मुनियामल पत्नी मुनुसामी
				277/1ए3	277/1ए3बी	निजी	शुष्क	322 मध्यन
								चिन्नराज पुत्र मुनुसामी
				277/2	277/2	सरकारी	एम एस टी सड़क	500 सरकारी
				280/1ए1	280/1ए1बी	निजी	शुष्क	74 गोविंदन पुत्र थनाप्पा गाउंडर
								के. पी. अनबीलगन पुत्र पाचीप्पन
				280/1ए2	280/1ए2बी	निजी	शुष्क	223 मनि पुत्र गोविंदचेत्तई
				280/1बी	280/3	सरकारी	पी डब्ल्यू डी थुमबालाहल्ली बॉई तरफ नहर	300 सरकारी
				281/1डी	281/1डी2	निजी	शुष्क	109 सम्पथ पुत्र कोना गाउंडर
								चंद्रसेखरन पुत्र राजी गाउंडर
				282/1सी	282/1सी2	निजी	शुष्क	221 सम्पथ पुत्र कोना गाउंडर
								चंद्रसेखरन पुत्र राजी गाउंडर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				284/1बी	284/1बी2	निजी	शुष्क	85	सम्पथ पुत्र कोना गाउंडर
									चंद्रसखरन पुत्र राजी गाउंडर
				284/1सी1	284/1सी1बी	निजी	शुष्क	256	के. टी. मनिकम पुत्र चिन्ना थनप्पा गाउंडर
				284/1सी2	284/1सी2बी	निजी	शुष्क	76	शनमुगम पुत्र कोना गाउंडर
				284/1जी	284/1जी2	निजी	शुष्क	264	शनमुगम पुत्र कोना गाउंडर
				285/2ए	285/2ए2	निजी	शुष्क	441	धर्मायासामी
				289/1	289/1बी	निजी	शुष्क	308	धर्मायासामी
				290/1ए	290/1ए2	निजी	शुष्क	521	गोविंदन पुत्र थनाप्पा गाउंडर
									के. पी. अनबीलगन पुत्र पाचीप्पन
				301/1ए	301/1ए2	निजी	शुष्क	251	कावेरी गाउंडर पुत्र मेरी
				301/1बी1	301/1बी1बी	निजी	शुष्क	412	कंदासामी गाउंडर पुत्र चैनगोदा गाउंडर
									अरुमुगम पुत्र कंदासामी गाउंडर
									वसंथी पत्नी पेरियासामी
									माइनर दानिश कुमार गार्डियन मदर वसंथी
				301/1बी2	301/1बी2बी	निजी	शुष्क	179	अब्बू गाउंडर
									मलप्पान पुत्र षोवा गाउंडर
				302/1	302/1बी	निजी	शुष्क	509	रमिया पत्नी रामासामी गाउंडर
									माइनर साथी @ मुकाबीकाई गार्डियन मदर रमिया
				303/1	303/1बी	निजी	शुष्क	1005	एल. कुपुसामी पुत्र लक्ष्मना गाउंडर
				314/1बी	314/1बी2	निजी	शुष्क	345	एल. कुपुसामी पुत्र लक्ष्मना गाउंडर
									कावेरीमल पत्नी पेरिया पेरुमल @ पेरुमल
				315/1ए	315/1ए2	निजी	शुष्क	338	सरोजा पत्नी अलराज
				315/1बी	315/1बी2	निजी	शुष्क	150	मुथाकल पत्नी पेरुमल
									जया पत्नी मुरुगन
									सरोजा पत्नी अलराज
									कावेरीमल पत्नी पेरिया पेरुमल @ पेरुमल
				315/1सी	315/1सी2	निजी	शुष्क	204	जया पत्नी मुरुगन
				315/1डी	315/1डी2	निजी	शुष्क	197	कावेरीमल पत्नी पेरिया पेरुमल
				319/1	319/1बी	निजी	शुष्क	420	रामालिगम
									मुरुगसन
									नटराजन पुत्र मरिप्पन
									कावेरीमल पुत्री श्रीमाराया गाउंडर
									नागुराज
									सुंदराम पुत्र श्रीमाराया गाउंडर
									मारियामल पत्नी श्रीमाराया गाउंडर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				320/1	320/1बी	निजी	नम	820
								रामालिंगम
								मुरुगेसन
								नटराजन पुत्र गरिष्मन
								कावेरीमल पुत्री थीमाराया गाउंडर
								नागराज
								सुंदराम पुत्र थीमाराया गाउंडर
								मारियामल पत्नी थीमाराया गाउंडर
								मुरुगमल पत्नी सीगामनि
				333/2ए	333/2ए2	निजी	नम	805
								मारियामल
								कृष्णावेनी पत्नी थीमाराया गाउंडर
								सीगामनि पुत्र थीमाराया गाउंडर
								नागरानी
								कावेरीमल पुत्री थीमाराया गाउंडर
								मुरुगमल पत्नी सीगामनि
				334/10	334/10बी	निजी	शुष्क	113
								कालीप्पन पुत्र समियार @ पेरुमल
								कावेरी पुत्र समियार @ पेरिया पेरुमल
				335/7ए	335/7ए2	निजी	शुष्क	73
								मादेसन पुत्र इरुसम @ गोविंदन
				335/7बी	335/7बी2	निजी	शुष्क	44
								गोविंदन पुत्र मेरी गाउंडर
								मुरुगेसन पुत्र गोविंदन
				335/8एफ	335/8एफ2	निजी	शुष्क	98
								पेरुमकल पत्नी सुब्रामनि
				335/9	335/9बी	निजी	शुष्क	99
								अलराज
								गोविंदन
								मादेसन
								पेरुमल
								मुरुगेसन
								सुब्रामनि कृष्ण पुत्र कालीप्पन
				335/19	335/19बी	निजी	शुष्क	76
								ब्लाक डेवलपमेंट आफ़ीसर, पालाकोड
								कावेरीमल पत्नी पेरिया पेरुमल
				335/23	335/23बी	निजी	शुष्क	259
								मादेसन पुत्र पुदुकायन @ कालीप्पन
				335/24	335/24बी	निजी	शुष्क	27
								कालीप्पन पुत्र अलराज
								कावेरीमल पत्नी पेरुमल
								मादेसन पुत्र पुदुकायन @ कालीप्पन
				400/1ए	400/1ए2	निजी	शुष्क	152
								पचाईप्पन पुत्र थीरुयथि गाउंडर
								कृष्णासामी पुत्र मुनुसामीगाउंडर
								गुंजन बेगम पत्नी अब्दुल मजिथ
								अब्दुल मजिथ पुत्र मोहम्मद कासिम
								सेल्वम पुत्र नासयनन
				400/1बी	400/1बी2	निजी	शुष्क	290
								चिन्नासामी पुत्र थीरुयथि गाउंडर
								जयालक्ष्मी पत्नी कानन
								अशोखन पुत्र पुंगाणनम अचारी
								कृष्णासामी पुत्र मुनुसामीगाउंडर
								जयालक्ष्मी पत्नी चिन्नासामी

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				400/1सी1	400/1सी1बी	निजी	शुष्क	26	दुरईसामी पुत्र सेनगोदा गाउंडर
				400/3ए4	400/3ए4ए	निजी	शुष्क	8	सुबसमनि पुत्र पलानी गाउंडर
				400/3ए5	400/3ए5ए	निजी	शुष्क	12	लक्ष्मी पत्नी नागराजन
				400/3ए7ए	400/5	निजी	शुष्क	44	मनिमेकलाई पत्नी माध्यन
				400/3ए7बी	400/6	निजी	शुष्क	188	अकबर पुत्र बुदान साहिब गालिगा पत्नी थंगावेल कुमार पुत्र चिन्नाप्पा गाउंडर कलाईवानी पत्नी मुरुगेसन
				401/2बी1	401/2बी1ए	निजी	शुष्क	468	अकबर पुत्र बुदान साहिब पलानीसामी पुत्र वियापुरी सीराज पुत्र मखबुल बाई गोविंदराजन रामासामीउदायर सांथा पत्नी चिन्नासामी मधु पत्नी ओमायन @ चिन्नासामी प्रवीण पत्नी यासीन एस. करीमा पत्नी सुबान बाई
				401/2सी	401/2सी1	निजी	शुष्क	750	वेक्ताचलापथी पुत्र गोपाल माइनर जगमनाथन गार्डियन मदर सांथी
				403/2ए	403/2ए1	निजी	शुष्क	398	वेक्ताचलापथी पुत्र गोपाल माइनर जगमनाथन गार्डियन मदर शांति
				403/2बी1	403/2बी1ए	निजी	शुष्क	631	गोविंदसामी पुत्र चिन्नाप्पन
				403/2सी2	403/2सी2ए	निजी	शुष्क	614	पेरुमल पुत्र चिन्नाप्पन गाउंडर
				406/3ए	406/3ए	निजी	शुष्क	100	पेरुमल पुत्र चिन्नाप्पन गाउंडर
				406/3बी	406/3बी1	निजी	शुष्क	384	अकुमारी पुत्र चिन्नाप्पन शानमुगम पलानी मथायन पुत्र अकुमारी
				406/3डी	406/3डी1	निजी	शुष्क	343	1.चिन्नासामी पुत्र रामागाउंडर 2. बालाकृष्णन पुत्र मरिप्पन
				407/2ए1	407/2ए1ए	निजी	शुष्क	229	गोविंदसामी पुत्र चिन्नाप्पन गाउंडर
				407/2ए2	407/2ए2ए	निजी	शुष्क	218	पेरुमल पुत्र चिन्नाप्पन गाउंडर
				407/2बी	407/2बी1	निजी	शुष्क	391	रजामल पत्नी मरिप्पन
				407/2ई1	407/2ई1ए	निजी	शुष्क	94	मथायन पुत्र सुब्रामनियन
				407/2ई2	407/2ई2ए	निजी	शुष्क	79	सुब्रामनि पुत्र अंगाप्पन
					407/2ई2बी	निजी	शुष्क	358	सुब्रामनि पुत्र अंगाप्पन
				410/1ए	410/1ए1	निजी	शुष्क	112	पेरुमल पुत्र चिन्नाप्पन गाउंडर
				411/2ए	411/2ए1	निजी	शुष्क	684	गोविंदसामी पुत्र चिन्नाप्पन गाउंडर
				411/2बी	411/2बी1	निजी	शुष्क	571	गोविंदसामी पुत्र चिन्नाप्पन गाउंडर
				411/2सी	411/2सी1	निजी	शुष्क	110	पेरुमल पुत्र चिन्नाप्पन गाउंडर
				505/2ए	505/2ए1	निजी	शुष्क	19	रथीनामल पत्नी पलानीवेल
				510/1सी1	510/1सी1ए	निजी	शुष्क	8	गोविंदसामी पेरुमल पुत्र चिन्नाप्पन गाउंडर
				510/1सी2	510/1सी2ए	निजी	शुष्क	3	गोविंदसामी पुत्र चिन्नाप्पन गाउंडर
				511/2ए1	511/2ए1ए	निजी	शुष्क	396	गोविंदसामी पुत्र चिन्नाप्पन गाउंडर
				511/2ए2	511/2ए2ए	निजी	शुष्क	148	अंगाप्पन पुत्र रामासामी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				511/2बी	511/2बी1	निजी	शुष्क	610 अंगाप्पन पुत्र रामासामी
				516/1सी	516/1सी2	निजी	नम	7 वादीवेल
								शनमुगम पुत्र मन्नीसामी
				517/1	517/1बी	निजी	शुष्क	28 अंगाप्पन पुत्र रामासामी
				518/1सी1	518/1सी1ए	निजी	शुष्क	278 गोविंदसामी पुत्र चिन्नाप्पन
				518/1सी2	518/1सी2ए	निजी	शुष्क	134 सुब्रामनि पुत्र चिन्नाप्पन
				518/1सी3	518/1सी3ए	निजी	शुष्क	130 अकुमारी पुत्र चिन्नाप्पन
								शनमुगम
								पलानी
								मथायन पुत्र अकुमारी
				518/1सी4	518/1सी4ए	निजी	शुष्क	126 आंदी पुत्र चिन्नाप्पन
				518/1सी5	518/1सी5	निजी	शुष्क	250 आंदी पुत्र चिन्नाप्पन
				518/1सी6	518/1सी6ए	निजी	शुष्क	245 सुब्रामनि पुत्र चिन्नाप्पन
				518/2बी1	518/2बी1	निजी	शुष्क	200 चिन्नाप्पा पत्नी रमन
								मंगामल पत्नी चिन्नासामी
								विजया पत्नी मुरुगन
								राजा @ पर्यौबन पुत्र पलानी गार्डर
				518/2बी2	518/2बी2ए	निजी	शुष्क	285 अंडी पुत्र चिन्नाप्पन
				518/2बी3	518/2बी3ए	निजी	शुष्क	100 सुब्रामनि पुत्र चिन्नाप्पन
				518/2बी8	518/2बी8ए	निजी	शुष्क	98 थोटी @ मरिप्पन पुत्र पाचीप्पन
				519	519/1	सरकारी	इरी जल फैलाव	5845 सरकारी
				537/ए	537/ए1	निजी	शुष्क	28 एस. राजामनिकम पुत्र सदाप्पा गार्डर
				538/ए3	538/ए3ए	निजी	शुष्क	1898 एस. राजामनिकम पुत्र सदाप्पा गार्डर
				538/बी3	538/सी	सरकारी	बंजर शुष्क मूल्यांकित	4305 सरकारी
			(2) पेरियानहल्ली	311	311/1	सरकारी	बंजर शुष्क मूल्यांकित	2103 सरकारी
				314	314/1	निजी	शुष्क	3750 सख्तीवेल पुत्र पाचामुथु
								सरथासेकर पत्नी एम. जी. सेकर
								नंजामल पत्नी कोलांदाई गार्डर
								मुथुसामी पुत्र मुथन
				316	316/1	निजी	नम	361 पाचीयामल पत्नी गोविंदा गार्डर
				317	317	सरकारी	बटई	5950 सरकारी
				318/4	318/4बी	निजी	शुष्क	261 श्रीनिवासन पुत्र रामासामी
								सनी पत्नी श्रीनिवासन
				318/5	318/5बी	निजी	शुष्क	354 जयावल पुत्र रामासामी
				319/1	319/1बी	निजी	शुष्क	101 जयावल पुत्र रामासामी इंडियन जेली
								वर्क्स पीलो शोप
				319/2	319/4	सरकारी	सुगर मिल सड़क	1700 सरकारी
				319/3डी	319/3डी2	निजी	शुष्क	474 पुमलाई पुत्र रामासामी
				320/2	320/2बी	निजी	शुष्क	2190 कमिश्नर पंचायत युनियन पालाकोड

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				320/3	320/3बी	निजी	शुष्क	146	दासाप्पन पुत्र चेनीचेटी
				498	498/2	सरकारी	पाथ एवम् ओडाई	3604	सरकारी
				499/बी	499/बी	निजी	शुष्क	1300	कमिशनर पंचायत युनियन पालाकोड
				500/1ए	500/1ए2	निजी	शुष्क	17	विजयन पुत्र कानु गाउंडर
				503/1	503/1बी	निजी	शुष्क	148	विजयन पुत्र कानु गाउंडर
				503/2	503/2बी	निजी	शुष्क	19	विजयन पुत्र कानु गाउंडर
				504	504/2	निजी	शुष्क	352	नागामल पत्नी मुथुसामी
				545/1	545/3	सरकारी	वईक्कल	302	सरकारी
				545/2ए1	545/2ए1बी	निजी	शुष्क	70	गोपाल पुत्र कावैरी
				545/2ए2ए	545/2ए2ए	निजी	शुष्क	400	चेनाचेटी पुत्र चेनुचेटी
				545/2बी	545/2बी2	निजी	शुष्क	2000	चेना केसवन पुत्र चेनीचेटी
				546/1बी1	546/1बी1बी	निजी	शुष्क	3950	अलीगामल पत्नी रवि
									चेनाचेटी पुत्र चेनुचेटी
									राजेंद्रन पुत्र राधाकृष्णन
									रामासामी पुत्र नागप्पा
				546/1बी2	546/1बी2बी	निजी	शुष्क	450	मुथुसामी पुत्र कावैरी गाउंडर
				546/1बी4	546/1बी4बी	निजी	शुष्क	10	गोपाल पुत्र कावैरी
				546/1बी5ए	546/4	निजी	शुष्क	1050	चेनाचेटी पुत्र चेनुचेटी
				546/1बी5बी	546/5	निजी	शुष्क	1200	जयारमन पुत्र गोरप्पा चेटी
				546/2	546/2	सरकारी	मनडईवेली	550	सरकारी
				548/2ए	548/2ए2	निजी	नम	148	मुनुसामी पुत्र कावैरी गाउंडर
				551/2	551/2बी	निजी	नम	120	थंगासाज पुत्र मुथुसामी नादर
				558/1	558/1ए	निजी	शुष्क	3505	सरधा सेकर पत्नी एस. जी. सेकर
				558/2	558/2ए	निजी	शुष्क	24	सप्तागिरी पी. जी. प्रुट फ्रशिंग प्रा. लि.
									ईतिया गाउंडर पुत्र पोरप्पा गाउंडर
				560/1	560/1ए	निजी	नम	301	थिरुमति सारधा सेकर पुत्री मनिकम
									अध्यक्ष लोर्ड वेक्टेेशवर ट्रस्ट
				561	561	सरकारी	बटई	12350	सरकारी
				562/2	562/2	सरकारी	कॉईल	2800	सरकारी
				563/1	563/1बी	निजी	नम	477	इनबावली पत्नी शुक्कासाज
				563/2	563/2	सरकारी	मनडईवेली	900	सरकारी
				566/2	566/3	सरकारी	वईक्कल	198	सरकारी
				567/2ए	567/2ए2	निजी	शुष्क	177	अकुमारी पुत्र अकुमारी
				567/2बी	567/2बी2	निजी	शुष्क	1050	गोविंदसामी पुत्र मुनुसामी
				567/2सी	567/2सी2	निजी	शुष्क	150	गणेशन पुत्र वेक्टरमन
				568/1	568/1बी	निजी	शुष्क	4650	गोविन्दसामी पुत्र मुनुसामी
				568/2	568/2ए	निजी	शुष्क	650	गणेशन पुत्र वेक्टरमन
				568/3	568/3ए	निजी	शुष्क	1620	गोविन्दामल पत्नी अक्कुमार
									मुनुसामी पुत्र कावैरी गाउंडर
				568/4	568/4ए	निजी	शुष्क	450	मुनुसामी पुत्र कावैरी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				568/9	568/9	निजी	शुष्क	200 गोविन्दासामी पुत्र मुनुसामी धन्नाबाककीम पुत्री कावेरी मुनुसामी पुत्र कावेरी
				568/10	568/10ए	निजी	शुष्क	20 मुनुसामी पुत्र कावेरी कावेरी पुत्र कावेरी
				574/1ए	574/1ए2	निजी	शुष्क	100 चिन्ना मागु पुत्र सिरन मुरुगन साक्कारी पुत्र चिन्नामोकु
				574/1बी	574/1बी1	निजी	शुष्क	200 चिन्ना मागु पुत्र सिरन पप्पाथीमल पत्नी सेनगोदान कुरुप्पान पुत्र रामासामी मुरुगन साक्कारी पुत्र चिन्नामोकु रामाकृष्ण पुत्र मनीकम कृष्णादेनी पत्नी रामाकृष्ण
				574/1डी	574/1डी2	निजी	शुष्क	3650 चिन्ना मागु पुत्र सिरन मुरुगन साक्कारी पुत्र चिन्नामोकु
				574/1ई	574/1ई2	निजी	शुष्क	363 पप्पाथीमल पत्नी सेनगोदान रामाकृष्ण पुत्र मनीकम कृष्णादेनी पत्नी रामाकृष्ण
				575/1सी	575/1सी1	निजी	शुष्क	1301 पप्पाथीमल पत्नी सेनगोदान रामाकृष्ण पुत्र मनीकम कृष्णादेनी पत्नी रामाकृष्ण
				575/1डी	575/1डी2	निजी	शुष्क	111 करुप्पान नाईकन पुत्र रामासामी रामाकृष्ण पुत्र मनीकम कृष्णादेनी पत्नी रामाकृष्ण
				576/1ए4	576/1ए4बी	निजी	शुष्क	706 चिन्ना मागु पुत्र सिरन मुरुगन साक्कारी के पुत्र चिन्नामोकु
				576/1ए5	576/1ए5	निजी	शुष्क	1800 पप्पाथीमल पत्नी सेनगोदान रामाकृष्ण पुत्र मनीकम कृष्णादेनी पत्नी रामाकृष्ण
				576/1ए6	576/1ए6ए	निजी	शुष्क	850 करुप्पान नाईकन पुत्र रामासामी रामाकृष्ण पुत्र मनीकम कृष्णादेनी पत्नी रामाकृष्ण
				576/1ए7	576/1ए7ए	निजी	शुष्क	745 मनी पुत्र रामासामी
				576/2ए	576/2ए	निजी	शुष्क	100 चिन्ना गोविन्दासामी पुत्र पेरियन्ना गार्डर
				576/2बी	576/2बी1	निजी	शुष्क	89 मनी पुत्र रामासामी माईनर राजी गार्डियन मनी कालीम्मल पत्नी राजी

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				594/2	594/2ए	निजी	शुष्क	767	रामाचन्द्रन पुत्र मुनीयागाउंडर आर सेल्वम गोविन्दासामी सीवाकुमार पुत्र रामाचन्द्रन
				595/3	595/3बी	निजी	शुष्क	320	मन्नीयमल पुत्री अंधी गाउंडर
				595/4	595/4बी	निजी	शुष्क	3000	थंगामल ईसोधा सरोजा की पुत्रीया गोविन्दागाउंडर गोविन्दासामी पुत्र गोविन्दागाउंडर
				595/5	595/5	निजी	शुष्क	150	रामाचन्द्रन पुत्र मुनीयागाउंडर चिन्थायागाउंडर @ अंधीगाउंडर सेल्वम गोविन्दासामी सीवाकुमार, पुत्र रामाचंद्रन
				595/8	595/8ए	निजी	शुष्क	380	रामाचन्द्रन पुत्र मुनीयागाउंडर चथया गाउंडर @ एंडी गाउंडर सीवाकुमार पुत्र रामाचंद्रन
				595/9	595/9ए	निजी	शुष्क	500	मनियामल पुत्री अंडी गाउंडर
				596/1	596/1ए	निजी	नम	752	रामाचन्द्रन पुत्र मुनीयागाउंडर संथया गाउंडर @ एंडी गाउंडर आर. सेल्वम गोविंदसामी सीवाकुमार, पुत्र रामाचंद्रन
				596/2	596/2ए	निजी	नम	87	रामाचन्द्रन पुत्र मुनीयागाउंडर आर. सेल्वम गोविंदसामी सीवाकुमार, पुत्र रामाचंद्रन
				597/2ए	597/2ए1	निजी	शुष्क	106	चिन्नागोविंदसामी पुत्र पेरियाना गाउंडर
				598/2	598/2ए	निजी	शुष्क	352	चिन्नागोविंदसामी पुत्र पेरियाना गाउंडर
				599	599/2	निजी	शुष्क	500	चिन्नागोविंदसामी पुत्र पेरियाना गाउंडर
				600/2ए	600/2ए2	निजी	नम	450	थंगामल ईसोधा सरोजा पुत्री गोविंदा गाउंडर गोविन्दासामी पुत्र गोविन्दागाउंडर
				600/2बी	600/2बी	निजी	नम	1250	रामाचन्द्रन पुत्र मुनीयागाउंडर आर. सेल्वम गोविंदसामी सीवाकुमार, पुत्र रामाचंद्रन
				613/1ई	613/1ई2	निजी	शुष्क	452	रामाचन्द्रन पुत्र मुनीयागाउंडर आर. सेल्वम गोविंदसामी सीवाकुमार, पुत्र रामाचंद्रन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				613/1एफ	613/1एफ	निजी	शुष्क	1600 थंगामल इसोधा सरोजा पुत्री गोविंदा गाउंडर गोविंदसामी पुत्र गोविंदा गाउंडर
				613/1जी	613/1जी	निजी	शुष्क	100 रामाचंद्रन पुत्र मुनियन कावेरीमल पत्नी गोविंदा गाउंडर अंदीयाप्पन सेलायम गोविंदसामी सीदाकुमार पुत्र रामाचंद्रन इसोधा थंगामल सरोजा पुत्री गोविंदा गाउंडर गोविंदसामी पुत्र गोविंदा गाउंडर
				614/5	614/5बी	निजी	शुष्क	1091 सीवालंगम पुत्र उमायन @ थोराली विजया पत्नी मरिप्पन
				618	618/2	निजी	शुष्क	7182 नागराजन पुत्र थोरालीगाउंडर नागामल पत्नी मुनुसामी सीदान पुत्र कावेरीगाउंडर शनमुगम गोकरनन कमलानाथन पुत्र मुनुसामी कानीकेसवरी पुत्री मुनुसामी
				619/1	619/1बी	निजी	शुष्क	200 नटराज पुत्र कंदासामी चेन्नामल पत्नी नटराज
				619/2ए	619/2ए2	निजी	शुष्क	3092 नटराज पुत्र कंदासामी चेन्नामल पत्नी नटराज
				619/2बी	619/2बी1	निजी	शुष्क	1140 कालीचेती पुत्र देगटाचेती मरिप्पन पुत्र चन्नाकेसवन
				620/2	620/2बी	निजी	शुष्क	143 विजयाकुमार पुत्र रामाकृष्णाअययर रमेश पुत्र दुर्इसामी नायडू जलामास्थी पुत्री बालाकृष्णनन नांसी पत्नी जोन्स निर्मलनाथ केथरीन स्मिथा पुत्री देलुथम सुब्बाया पुत्र अलागरसामी मोसस गनासेकरन पुत्र रामासामी पोनमुदी पुत्र मनिक्कम बालामथी पुत्र कालीचेती क्रीस्टोफर जापासीनी पुत्री राजारथिनम जबामनि पुत्र जोन गननासुंदरी पत्नी जे. जोन ससीरेका पत्नी राजामनि

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				624/3	624/3ए	निजी	शुष्क	1000	गनेसन पुत्र सखनन
				640	640/1	निजी	शुष्क	84	कानामल पत्नी गोपाल ① गोविंदन सखनन जी. संधी संधीकुमार सनमुगासुंदर पुत्र गोपाल ① गोविंदन
				641/1	641/1	सरकारी	सड़क मार्गिन	500	राह के लिए
				641/2	641/2ए	निजी	शुष्क	4845	सख्वासेकर पुत्री मनिक्कम मनेजर लार्ड वेक्टेस्वर शैक्षिक ट्रस्ट
				642	642	सरकारी	सड़क मार्गिन	7450	राह के लिए
				643/1	643/1	सरकारी	सड़क मार्गिन	500	राह के लिए
				643/2ए	643/2ए1	निजी	शुष्क	2335	सख्वासेकर पुत्री मनिक्कम मनेजर लार्ड वेक्टेस्वर शैक्षिक ट्रस्ट
				643/2बी	643/2बी1	निजी	शुष्क	21	सख्वासेकर पुत्री मनिक्कम मनेजर लार्ड वेक्टेस्वर शैक्षिक ट्रस्ट
				649/1	649/1	सरकारी	सड़क	550	राह के लिए
				649/2ए	649/2ए1	निजी	शुष्क	885	सख्वासेकर पुत्री मनिक्कम मनेजर लार्ड वेक्टेस्वर शैक्षिक ट्रस्ट
				649/2बी	649/2बी1	निजी	शुष्क	893	सख्वासेकर पुत्री मनिक्कम मनेजर लार्ड वेक्टेस्वर शैक्षिक ट्रस्ट
				649/2सी	649/2सी1	निजी	शुष्क	770	सख्वासेकर पुत्री मनिक्कम मनेजर लार्ड वेक्टेस्वर शैक्षिक ट्रस्ट
				649/2एफ	649/2एफ1	निजी	शुष्क	95	धस्यागीर साहिब पुत्र मोहम्मदसाहिब जोनबासा काधर बासा मागाबुज्जोन नवोबासा, धस्यागीरसाहिब
				650/1	650/1	सरकारी	सड़क	750	राह के लिए
				650/2ए	650/2ए1	निजी	शुष्क	3381	जोनबासा काधर बासा मागाबुज्जोन नवोबासा, धस्यागीरसाहिब
				650/2बी	650/2बी1	निजी	शुष्क	111	मन्नामनियन पुत्र कडसापी
				658/1	658/1	सरकारी	गईकल	200	सरकारी
				658/2ए1	658/2ए1ए	निजी	शुष्क	508	गोवरमल पत्नी कानन
				658/2ए2	658/2ए2ए	निजी	शुष्क	499	अंगामल पत्नी गोविंदासामी
				658/2ई2	658/2ई2ए	निजी	शुष्क	1720	सुरेश बोन्सले पुत्र जे. एस. बोन्सले
				659/3बी2	659/3बी2ए	निजी	शुष्क	329	सुब्रामनि पुत्र कालप्पा गाउंडर
				662	662/2	सरकारी	गोंव खल	543	सरकारी
				667/1ए	667/1ए2	निजी	शुष्क	238	कुप्पना गाउंडर पुत्र पलानीप्पा गाउंडर पलानीप्पा गाउंडर पुत्र कुप्पनागाउंडर
				667/1बी1	667/1बी1बी	निजी	शुष्क	257	कुप्पना गाउंडर पुत्र पलानीप्पा गाउंडर पलानीप्पा गाउंडर पुत्र कुप्पनागाउंडर
				667/1बी2	667/1बी2बी	निजी	शुष्क	436	नागामल पत्नी कृष्णन

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				667/2ए	667/2ए	निजी	शुष्क	300	कुप्पना गाउंडर पुत्र पलानीप्पा गाउंडर पलानीप्पा गाउंडर पुत्र कुप्पनागाउंडर
				667/2बी1	667/2बी1	निजी	शुष्क	500	कुप्पना गाउंडर पुत्र पलानीप्पा गाउंडर पलानीप्पा गाउंडर पुत्र कुप्पनागाउंडर
				667/2बी2	667/2बी2	निजी	शुष्क	950	नागमल पत्नी कृष्णन
				668/2ए	668/2ए2	निजी	शुष्क	1415	मुरुगेसन पुत्र कावेरीप्पा मुधालियार
				668/2बी	668/2बी2	निजी	शुष्क	1038	पोनुसामी पुत्र चेलाकुमारसामी
				668/2सी	668/2सी2	निजी	शुष्क	120	कुप्पना गाउंडर पुत्र पलानीप्पा गाउंडर पलानीगाउंडर पुत्र कुप्पनागाउंडर
				681/1ए	681/1ए2	निजी	शुष्क	23	वेक्टाचलम पुत्र रंगासामी
				681/1बी1	681/1बी1बी	निजी	शुष्क	74	वेक्टाचलम पुत्र रंगासामी पी. चिन्नासामी पुत्र सभियार ७७ पेरुमल अरुमुगम पुत्र पेरुमल
				681/1एफ	681/1एफ2	निजी	शुष्क	25	रमया पत्नी मुथुसामी राजी वेक्टाचलम पुत्र रंगासामी मुनासेकरन गोपालाकृष्णन, पुत्र मुथुसामी
				681/1जी	681/1जी2	निजी	शुष्क	215	मरियमन मंदिर
				682/1ए	682/1ए2	निजी	शुष्क	99	सरधासेकर लार्ड वेक्टेस्वरा शैक्षिक ट्रस्ट के अध्यक्ष
				682/1बी	682/1बी2	निजी	शुष्क	94	सरधासेकर पुत्री मनिक्कम
				683/1बी	683/1बी2	निजी	शुष्क	92	सरधासेकर लार्ड वेक्टेस्वरा शैक्षिक ट्रस्ट के अध्यक्ष
				683/1सी	683/1सी2	निजी	शुष्क	50	सरधासेकर लार्ड वेक्टेस्वरा शैक्षिक ट्रस्ट के अध्यक्ष
				684/1बी1	684/1बी1बी	निजी	शुष्क	66	सरधासेकर लार्ड वेक्टेस्वरा शैक्षिक ट्रस्ट के अध्यक्ष
				743/1ए	743/1ए2	निजी	शुष्क	500	पोनुसामी पुत्र रामुचेटि
				743/1बी1	743/1बी1बी	निजी	शुष्क	208	गोविदासामी पुत्र पेरुमल
				744/1ए	744/1ए2	निजी	नम	1657	पोनुसामी पुत्र रामुचेटियार
				745/1	745/4	सरकारी	वर्ग	450	सरकारी
				745/2	745/2बी	निजी	नम	945	करुप्पान पुत्र कुमारसामी
				746/1	746/1बी	निजी	नम	235	धनलक्ष्मी पत्नी करुप्पन
				746/2	746/2बी	निजी	नम	1013	करुप्पान पुत्र कुमारसामी
				749	749/2	निजी	नम	712	धनलक्ष्मी पत्नी करुप्पन
				750/2	750/2बी	निजी	नम	1138	गलायागाउंडर पुत्र कुमारसामी सीतारमाचेटी पुत्र चिन्नामधाचेटी नटराजन पुत्र सीतारामाचेटी
		(3) बैसूहल्ली		8/1	8/1	सरकारी	वर्गकल	500	सरकारी
				8/2ए2	8/2ए2बी	निजी	शुष्क	501	श्रीवामनि सपीनिंग मिल्स
				10/1	10/1	सरकारी	वर्गकल	550	सरकारी
				10/2ए	10/2ए2	निजी	शुष्क	1459	अरुलमीगु सेनाकेशवरा रवामी कोविल

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				11/1ए	11/1ए2	निजी	शुष्क	260
								थनप्पा गाउंडर
								मथाप्पन गोविंदन पुत्र कावेरी गाउंडर
								मुनियामल पुत्र कावेरी गाउंडर
								नागामल पत्नी कावेरी गाउंडर
								मथामल पत्नी मथाप्पन
								मधायन
								महालिंगम
								रामचंद्रन पुत्र मथाप्पन
				11/1बी	11/3	सरकारी	वईक्कल	91
								सरकारी
				11/1सी3	11/1सी3	निजी	शुष्क	150
								सीवामनि सपीनिंग मिल्स
				11/2बी	11/2बी2	निजी	शुष्क	40
								थीमारयन पुत्र पेरुमल गाउंडर
				11/2डी	11/2डी2	निजी	शुष्क	192
								सरमीला पुत्री जे. बालासुबामनियम
				11/2ई	11/2ई	निजी	शुष्क	450
								सीवामनि सपीनिंग मिल्स
								थीमारयन पुत्र पेरुमल गाउंडर
								सरमीला पुत्री जे. बालासुबामनियम
				20	20/2	निजी	शुष्क	475
								थनप्पा गाउंडर
								मथाप्पन
								गोविंदन पुत्र कावेरी गाउंडर
								मुनियामल पुत्री कावेरी गाउंडर
								नागामल पत्नी कावेरी गाउंडर
								मथामल पत्नी मथाप्पन
								मधायन
								महालिंगम
								रामचंद्रन पुत्र मथाप्पन
				21/1	21/3	सरकारी	पोरमबोके	600
								सरकारी
				21/2	21/2बी	निजी	शुष्क	913
								थनप्पा गाउंडर
								मथाप्पन
								गोविंदन पुत्र कावेरी गाउंडर
								मुनियामल पुत्री कावेरी गाउंडर
								नागामल पत्नी कावेरी गाउंडर
								मथामल पत्नी मथाप्पन
								मधायन
								महालिंगम
								रामचंद्रन पुत्र मथाप्पन
				22/2	22/2बी	निजी	शुष्क	4
								पेरियानन पुत्र पुनन @ लक्ष्मन
								चिन्नासामी
								मरिप्पन
								मथाप्पन पुत्र रमन्ना गाउंडर
								गोविंदासामी
								नटेशन
								गनपथि पुत्र चिन्नासामी
								कानुपिल्लै पत्नी मरिप्पन
								पेरुमाकल पत्नी मथाप्पन

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				42/1	42/1बी	निजी	शुष्क	244	पोनी पत्नी रंगासामी कै. रानी पत्नी कंदोसामी
				42/2	42/2बी	निजी	शुष्क	264	पी. पेरुमल पुत्र पोनुसामी
				42/3	42/3बी	निजी	शुष्क	299	पोनी पत्नी रंगासामी
				42/4	42/4बी	निजी	शुष्क	650	आर. राजा पुत्र रंगासामी मेनगा पत्नी राजा
				42/5	42/5बी	निजी	शुष्क	562	रुक्कामल पत्नी एंडी @ समियार वेलुमनि पत्नी लोगानाथन
				43/1	43/3	सरकारी	बटई	1750	सरकारी
				44/1	44/3	सरकारी	वईक्कल	737	सरकारी
				44/2बी	44/2बी2	निजी	शुष्क	120	पेरुमल पुत्र मुरुगन वेलुमनि पत्नी लोगानाथन
				44/2सी	44/2सी2	निजी	शुष्क	690	पी. पेरुमल पुत्र पोनुसामी
				44/2डी	44/2डी2	निजी	शुष्क	320	वी. एंडी @ समियार वेलुमनि पत्नी लोगानाथन
				44/2ई	44/2ई2	निजी	शुष्क	130	मनिक्कम पुत्र पचिप्पा गाउंडर मदायन जयारमन पुत्र कावैरी पंचालाई पत्नी कासी मलाथी पत्नी जयारमन
				50/2	50/2	सरकारी	बटई	1300	सरकारी
				51	51	सरकारी	बटई	31300	राह के लिए
				52/1	52/1	सरकारी	सडक	940	सरकारी
				52/2	52/5	सरकारी	बटई	70	सरकारी
				52/3ए	52/3ए1	निजी	शुष्क	96	स्पेशल आफिसर बाईसुहाली प्राईमरी कृषि को.- ओप. बैंक
				53/1	53/1	सरकारी	वईक्कल	600	सरकारी
				53/2ए	53/2ए1	निजी	शुष्क	61	स्पेशल आफिसर बाईसुहाली प्राईमरी कृषि को.- ओप. बैंक
				53/2बी	53/2बी1	निजी	शुष्क	370	अनबु पुत्र दुरईसामी गाउंडर
				54/1	54/1	सरकारी	वईक्कल	200	सरकारी
				54/2	54/2	सरकारी	वईक्कल	650	सरकारी
				54/3ए	54/3ए1	निजी	शुष्क	95	अनबु पुत्र दुरईसामी गाउंडर
				54/3सी	54/3सी1	निजी	शुष्क	732	राजा पुत्र दुरईसामी गाउंडर मथामल पत्नी राजा श्रीनीवासन पुत्र राजा आनंदालक्ष्मी निथिया पुत्री राजा
				55/1	55/1	सरकारी	वईक्कल	400	सरकारी
				55/2	55/2ए	निजी	शुष्क	1182	ईलानगोवन पुत्र दुरईसामी गाउंडर
				56/1	56/1	सरकारी	वईक्कल	400	सरकारी
				56/2	56/2ए	निजी	शुष्क	1141	सेलवराज अंधीरेया पुत्र कोयलराज
				57/1	57/1	सरकारी	वईक्कल	550	सरकारी
				57/2	57/2ए	निजी	शुष्क	1677	सेलवराज अंधीरेया पुत्र कोयलराज

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				58/1	58/1	सरकारी	वईक्कल	800 सरकारी
				58/2ए	58/2ए1	निजी	शुष्क	1285 मुनियामल पत्नी एम. मुनुसामी गाउंडर जी. रमानी पत्नी सुब्रामनि जेमीराजा पत्नी सेल्वाराजा अंथीरेया कविथा पत्नी माथु
				58/2सी	58/2सी1	निजी	शुष्क	526 पी. के. मुरुगन के. मदायन पुत्र पेरिकालीयप्पन सेल्वी पत्नी रामासामी एस. रथा पुत्री सेनाप्पन पेरियानन पुत्र करियन @ चिन्नाथम्बी मुथामल पत्नी करियन @ चिन्नाथम्बी माकन पुत्र दुरईसामी
				59/1	59/1	सरकारी	वईक्कल	600 सरकारी
				59/2ए1	59/2ए1ए	निजी	शुष्क	78 पोनी पत्नी रंगासामी
				59/2ए2	59/2ए2	निजी	शुष्क	100 नटेशन पुत्र चिन्नासामी
				59/2ए3	59/2ए3ए	निजी	शुष्क	7 गनपथि पुत्र चिन्नासामी
				59/2ए5	59/2ए5ए	निजी	शुष्क	114 उलाकन @ मरिप्पन पुत्र रमन्ना गाउंडर कन्नुपिल्लै पत्नी उलाकन @ मरिप्पन
				59/2ए6	59/2ए6ए	निजी	शुष्क	117 माथाप्पन पुत्र रमन्ना गाउंडर पेरुमक्कल पत्नी माथाप्पन
				59/2ए7	59/2ए7ए	निजी	शुष्क	430 के. मदायन पुत्र पेरिकालीयप्पन
				59/2ए8	59/2ए8ए	निजी	शुष्क	148 पोनी पत्नी रंगासामी गोविंदासामी गनपथि नटेशन पुत्र चिन्नासामी पी. के. मुरुगन मथायन पुत्र पेरियाकालीयप्पन चिन्नाकालीयप्पन पुत्र अन्नामलाई गाउंडर गोविंदामल पत्नी चिन्नाकालीयप्पन कृष्णानाजलम पुत्र चिन्नाकालीयप्पन
				60/1	60/1	सरकारी	वईक्कल	300 सरकारी
				60/2ए1	60/2ए1	निजी	शुष्क	150 पोनी पत्नी रंगासामी चिन्नाकालीयप्पन दुरईसामी पुत्र पोनन @ मथाप्पन दुरईसामी पुत्र पोनन @ मथाप्पन
				60/2ए2	60/2ए2ए	निजी	शुष्क	42 पोनी पत्नी रंगासामी गोविंदासामी गनपथि नटेशन पुत्र चिन्नासामी पी. के. मुरुगन मथायन पुत्र पेरियाकालीयप्पन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								चिन्नाकालीप्पन पुत्र अन्नामलाई गार्डर
								गोविंदामल पत्नी चिन्नाकालीप्पन
								कृष्णानाजलम पुत्र चिन्नाकालीप्पन
				60/2ए3	60/2ए3ए	निजी	शुष्क	430 पोनी पत्नी रंगासामी
				60/2ए4	60/2ए4ए	निजी	शुष्क	329 चिन्नाकालीप्पन पुत्र पोनन @ मथाप्पन
				60/2ए5	60/2ए5ए	निजी	शुष्क	90 दुरईसामी पुत्र पोनन @ मथाप्पन
				61/1ए1	61/1ए1	निजी	शुष्क	150 दुरईसामी पुत्र पोनन @ मथाप्पन
								पेरियाकालीप्पन
								दुरईसामी पुत्र मरियाप्पन
								चिन्नापोनु पत्नी पेरियाकालीप्पन
								मनि
								मथायन पुत्र पेरियाकालीप्पन
								कालीमल पत्नी दुरईसामी गनेसन
								मुरुगेसन पुत्र दुरईसामी
				61/1ए2	61/1ए2ए	निजी	शुष्क	232 दुरईसामी पुत्र पोनन @ मथाप्पन
				61/1ए3	61/1ए3ए	निजी	शुष्क	307 पेरियाकालीप्पन पुत्र मरियाप्पन
								चिन्नापोनु पत्नी पेरियाकालीप्पन
								मनि
								मथायन पुत्र पेरियाकालीप्पन
				61/1ए4	61/1ए4ए	निजी	शुष्क	289 दुरईसामी पुत्र मरियाप्पन
								चिन्नापोनु पत्नी पेरियाकालीप्पन
								मनि
								मथायन पुत्र पेरियाकालीप्पन
				61/1ए5	61/1ए5ए	निजी	शुष्क	102 पेरियाकालीप्पन
								चिन्नाकालीप्पन दुरईसामी पुत्र पोनन @ मथाप्पन
								पेरियाकालीप्पन
								दुरईसामी पुत्र मरियाप्पन
								चिन्नापोनु पत्नी पेरियाकालीप्पन
								मनि
								मथायन पुत्र पेरियाकालीप्पन
				61/1ए6	61/1ए6	निजी	शुष्क	600 पेरियाकालीप्पन पुत्र मरियाप्पन
								मुनुसामी पुत्र कावैरी चेट्टी
								नागाप्पन पुत्र चिन्नाप्पन
								चिन्नापोनु पत्नी पेरियाकालीप्पन
								मनि
								मथायन पुत्र पेरियाकालीप्पन
				61/1ए7	61/1ए7ए	निजी	शुष्क	596 मुनुसामी पुत्र कावैरी चेट्टी
				61/1ए8	61/1ए8ए	निजी	शुष्क	110 मुनुसामी पुत्र कावैरी
								नागाप्पन पुत्र चिन्नाप्पन
				61/1ए10	61/3	निजी	शुष्क	82 पेरियाकालीप्पन पुत्र मरियाप्पन
								चिन्नापोनु पत्नी पेरियाकालीप्पन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								सेतुम पुत्र कुष्मण्ड @ कावेरी
				206/1	206/1बी	निजी	शुष्क	7300 राजामल पत्नी चेनिया चेटी
								चोकालिगम
								अन्नादुरई
								चिन्नाराज
								मधायन पुत्र चेनिया चेटी वेली
								मदामल पुत्री चेनिया चेटी
				206/2	206/2ए	निजी	शुष्क	137 कावेरी पुत्र गोविंदन
								सुंदरी पत्नी कावेरी
								गोविंदाराज
								राजा
								मुरुगन कृष्णन @ राजा पुत्र कावेरी
				207/7	207/7बी	निजी	शुष्क	1468 एस. बख्तावचलम पुत्र सारंगापानी
				207/8	207/8बी	निजी	शुष्क	344 एस. बख्तावचलम पुत्र सारंगापानी
				207/9	207/9	निजी	शुष्क	400 राजामल पत्नी चेनिया चेटी
								चोकालिगम
								अन्नादुरई
								चिन्नाराज
								मधायन पुत्र चेनिया चेटी वेली
								मदामल पुत्री चेनिया चेटी
				207/10	207/10बी	निजी	शुष्क	15 अन्नादुरई पुत्र चेनिया चेटी
				219/1जी	219/1जी 2	निजी	शुष्क	1800 डी. श्रीनिवासन पुत्र आर. थंगावल
								एस. बख्तावचलम पुत्र सारंगापानी
				219/2	219/2	निजी	शुष्क	150 वेन्नाकृष्णा चेटी पुत्र गोविंदा चेटियार
								एस. बख्तावचलम पुत्र सारंगापानी
				220/1	220/1	निजी	नम	1350 एस. बख्तावचलम पुत्र सारंगापानी
				220/2	220/2	निजी	नम	250 गनेसन पुत्र गोविंदा चेटियार
								एस. बख्तावचलम पुत्र सारंगापानी
				220/3	220/3ए	निजी	नम	2545 टी. जी. गनेसन पुत्र गोविंदा चेटियार
				220/4	220/4ए	निजी	नम	1350 वेन्नी चेटी पुत्र वेक्तासला चेटी
								टी. जी. गनेसन पुत्र गोविंदा चेटियार
				225/1	225/1ए	निजी	नम	650 वेक्तासला चेटी पुत्र गोविंदा चेटी
								अलामेलु पत्नी वेक्तासला चेटी
								मनोकरन
								वेन्नाकृष्णन पुत्र वेक्तासला चेटी
								रानी पुत्री वेक्तासला चेटी
				227/1	227/1ए	निजी	नम	10 वेक्तासला चेटी पुत्र गोविंदा चेटी
								अलामेलु पत्नी वेक्तासला चेटी
								मनोकरन
								वेन्नाकृष्णन पुत्र वेक्तासला चेटी
								रानी पुत्री वेक्तासला चेटी
					227/1बी	निजी	नम	1000 वेक्तासला चेटी पुत्र गोविंदा चेटी
								अलामेलु पत्नी वेक्तासला चेटी
								मनोकरन
								वेन्नाकृष्णन पुत्र वेक्तासला चेटी
								रानी पुत्री वेक्तासला चेटी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				228/1	228/1ए	निजी	शुष्क	783	थंगामल पत्नी कांदन
									शनमुगम पुत्र कांदन
				228/2	228/2ए	निजी	शुष्क	160	थंगावेल पुत्र स्थीनावेल गाउंडर
				228/3	228/3ए	निजी	शुष्क	224	मधायन पुत्र गोविंदा गाउंडर
				229/1	229/1	निजी	शुष्क	1550	थंगावेल पुत्र स्थीनावेल गाउंडर
									मधायन पुत्र गोविंदा गाउंडर
				229/2	229/2	निजी	शुष्क	150	वेदीवेलु पुत्र नंजया गाउंडर
									थंगामल पत्नी कांदन
									शनमुगम पुत्र कांदन
									मुरुगन
									गोरप्पन पुत्र वेदीवेलु
				229/3ए	229/3ए2	निजी	शुष्क	637	थंगावेल पुत्र गोविंदा गाउंडर
				229/4	229/4बी	निजी	शुष्क	399	एस. थंगावेल
									एस. बरखावचलम पुत्र सारंगापानी
				230/2बी	230/2बी2	निजी	शुष्क	113	मुरुगन पुत्र वेदीवेल
					230/2बी3	निजी	शुष्क	277	मुरुगन पुत्र वेदीवेल
				230/2सी	230/2सी2	निजी	शुष्क	678	गोरप्पन पुत्र वेदीवेलु
				230/3	230/3बी	निजी	शुष्क	230	थंगामल पत्नी कांदन
									शनमुगम पुत्र कांदन
				230/4	230/4बी	निजी	शुष्क	155	वेदीवेलु पुत्र नंजया गाउंडर
									थंगामल पत्नी कांदन
									शनमुगम पुत्र कांदन
									मुरुगन
									गोरप्पन पुत्र वेदीवेलु
				230/5एफ	230/5एफ2	निजी	शुष्क	15	थंगावेल पुत्र गोविंदा गाउंडर
				243/1ए	243/1ए2	निजी	शुष्क	45	काल्तीयमल पत्नी कुलीकन @
									मुनुसामी चेट्टी
				243/1बी	243/1बी2	निजी	शुष्क	1050	मुनुसामी पुत्र मंथीरी गाउंडर @
									चिन्नानन
				244/1	244/1बी	निजी	शुष्क	2800	मुनुसामी पुत्र मंथीरी गाउंडर @
									चिन्नानन
				244/3	244/3	निजी	शुष्क	200	मुनुसामी
									गोपाल
									के. वेक्टरमा चेट्टी
				244/4	244/4बी	निजी	शुष्क	900	रंगानाथन पुत्र लक्ष्मनन
									लक्ष्मी पत्नी रंगानाथन
				244/5	244/5बी	निजी	शुष्क	2110	गोपाल पुत्र कालीयप्पन
									मथामल पत्नी गोपाल
									मुरुगन कुमार पुत्र गोपाल
				244/6	244/6बी	निजी	शुष्क	248	मुनुसामी पुत्र चिन्नाना गाउंडर
									वेक्टरमा चेट्टी पुत्र कावैरी चेट्टी
									गोपाल पुत्र कालीयप्पन
									मथामल पत्नी गोपाल मुरुगन
									कुमार पुत्र गोपाल
				245	245/1	सरकारी	पोरमबोके	4650	सरकारी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				246/1	246/1बी	निजी	शुष्क	7250
								वैक्टरमा चेटी पुत्र पी. कावेरी चेटी
								कालियामल पत्नी मुनुसामी चेटी
								अनवर
								अलामेलु
								कांथा चेटी पुत्र चेनु चेटी
								वैक्टरम पुत्र रंगप्पा चेटी
								नारायणन पुत्र नारायणन
								चिन्नासामी पुत्र पेरुमल
								सरोजा पुत्री गोविंदन
								चित्रा पत्नी कुमार मुरुगन
								मधायन
								पनीर
								नटराजन
								मुरुगम पुत्र थलाकांदन
								नंजन पुत्र चिन्नासामी @ नंजन
								वेदियप्पन पुत्र पांडियन
								संकर पुत्र मुनियप्पन
								पेरियासामी पुत्र कानन @ पेरुमल
								अनवर बाशा पुत्र रंजन बेग
								पस्था पत्नी अनवर बाशा
								कनगा रानी पत्नी बेन्नी चेटी
				246/2	246/2ए	निजी	शुष्क	580
								मुनुसामी पुत्र मंथीरी गाउंडर @ चिन्नामन
				247/1	247/1बी	निजी	शुष्क	2700
								डी. जी. चेनाकृष्णा चेटी पुत्र डी. गोविंदा चेटी
				247/2	247/2बी	निजी	शुष्क	4650
								एम. सी. कृष्णन पुत्र चेन्निया चेटी
				248/1	248/1बी	निजी	शुष्क	240
								सीदान पुत्र रामासामी
				248/2	248/2	निजी	शुष्क	450
								बीरन
								सीदान पुत्र रामासामी
								कुप्पु पत्नी कारी बीरन
								कावेरी
								मुरुगन
								सख्तीवेल पुत्र कारी बीरन
								विजया पत्नी बीरन
				248/3	248/3बी	निजी	शुष्क	557
								बीरन पुत्र रामासामी
								बीराजी पत्नी बीरन
				248/4	248/4बी	निजी	शुष्क	1330
								करियन पुत्र थोसाली
								थंगामनि पत्नी अरुमुगम
								पलानीयमल पत्नी कमलानाथन
								अमशावेनी पत्नी मुरुगन
								पुवाई पत्नी सुब्रामनि
								कुप्पु पत्नी कारी बीरन मुरुगन
								सख्तीवेल, थंगावेल पुत्र कारी बीरन

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				282/1	282/1ए	निजी	शुष्क	485	कमला पत्नी पासीयप्पन ईडु वीरामनी पुत्र पासीयप्पन
				282/2	282/2ए	निजी	शुष्क	780	थोराती पुत्र बंगायन
				285/1ए	285/1ए1	निजी	शुष्क	516	के. कुमार के. सखीवेल के. वेक्टरमन के. गोपाल पुत्र एस. वी. काली चेट्टी के. कुमार मैनेजिंग डायरेक्टर सेंट्रल फूड प्रोडक्ट्स जे. उबा पत्नी के. जयारमन
				285/1बी	285/1बी1	निजी	शुष्क	400	एम. सी. कृष्णनन पुत्र चैनिया चेट्टी
				285/2	285/2	सरकारी	बटई	650	सरकारी
				287/1	287/1ए	निजी	शुष्क	800	जगादीसन पुत्र के. ए. सीवाप्रकाशम
				287/2	287/2ए	निजी	शुष्क	1194	के. कुमार के. सखीवेल के. वेक्टरमन के. गोपाल पुत्र एस. वी. काली चेट्टी के. कुमार मैनेजिंग डायरेक्टर सेंट्रल फूड प्रोडक्ट्स जे. उबा पत्नी के. जयारमन
				288/2ए	288/2ए1	निजी	शुष्क	540	कालियमगल सभा गांधी पुत्र बीमाशया चेटी
				288/2बी	288/2बी1	निजी	शुष्क	500	वेक्टरसालम पुत्र सीवाप्रकाशम
				379/2	379/2	सरकारी	जल प्रवाह स्थल	3050	सरकारी
				380	380/1	सरकारी	ईरी	2450	सरकारी
				381	381/1	सरकारी	बटई	1250	सरकारी
				382	382/2	सरकारी	बटई	6000	सरकारी
		2. धर्मापुरी	(1)नल्लानाहल्ली	8/3बी6	8/3बी6बी	निजी	शुष्क	189	के. ईश्वरगुर्धि पुत्र अप्पाउ ७ कालियन्न
				8/5	8/6	सरकारी	ओरई पिल्लईयर कोईल	450	सरकारी
				20/1	20/1बी	निजी	नम	957	कालिमल पत्नी थम्बी गारुंडर
				20/2बी	20/2बी2	निजी	शुष्क	1450	सीरंगन पत्नी रामासामी नायाकर
				20/2सी1	20/2सी1बी	निजी	शुष्क	480	1. डी. एन. मनिवन्न पुत्र डी. एन चिन्नासामी 2. डी. सी. ईलागोवन पुत्र डी. एन चिन्नासामी

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				20/2सी3ए	20/5	निजी	शुष्क	755	1. डी. एन. मनिवनन पुत्र डी. एन चिन्नासामी 2. डी. सी. ईलागोवन पुत्र डी. एन चिन्नासामी
				20/2सी4	20/2सी4बी	निजी	शुष्क	35	1. सुब्रामनि पुत्र कंदप्पा गाउंडर 2. सरवनन पुत्र कुप्पुसामी
				20/2डी	20/2डी2	निजी	शुष्क	8	1. करुप्पासामी नायकर पुत्र रामासामी नायकर 2. कुजीमनि @ मुनियन पुत्र करुप्पासामी नायकर 3. रामासामी पुत्र करुप्पासामी नायकर 4. कनुपायन पुत्र करुप्पासामी नायकर 5. सांथी पत्नी वेक्टासन 6. प्रेमकुमार पुत्र वेक्टासन(माइनर)
				21	21/2	निजी	नम	1448	चेन्नयापन पुत्र अपावु @ कालीनन
				22	22	सरकारी	सड़क	8600	सरकारी
				23/1	23/1ए	निजी	शुष्क	1808	महेद्रन पुत्र पोनुसामी
				23/3	23/ 6	सरकारी	ओडाई	153	सरकारी
				24/1	24/1ए	निजी	शुष्क	2572	1. बालामुरुगन पुत्र रामासामी 2. रामासामी पुत्र मुथु गाउंडर
				24/2ए	24/2ए1	निजी	नम	1860	नागाराजन पुत्र पोनुसामी गाउंडर @ नलया गाउंडर
				24/4ए1	24/4ए1ए	निजी	नम	1650	दुरईसामी पुत्र गोविंदा गाउंडर
				25	25	सरकारी	सड़क	6500	सरकारी
				26/1ए	26/1ए	निजी	शुष्क	1250	पाचीमल पत्नी दुरईसामी
				26/1बी	26/1बी1	निजी	शुष्क	403	पाचीमल पत्नी जी. जी. दुरईसामी
				36/1बी	36/1बी1	निजी	नम	4400	ईश्वरमुखी पुत्र अप्पड @ कालियन्न
				36/2बी	36/2बी	निजी	नम	100	1. चिन्नासामी पुत्र राजाप्पन @ गोविंदासामी 2. मनिक्कम पुत्र माला गाउंडर
				36/3बी	36/3बी1	निजी	शुष्क	810	1. चिन्नासामी पुत्र राजाप्पन @ गोविंदासामी 2. मनिक्कम पुत्र माला गाउंडर
				37/3ए	37/3ए1	निजी	शुष्क	1462	1. भराकल 2. रामी 3. सुब्रामनि 4. कुंजीयामल 5. सेकर 6. सम्पथ 7. कुमार 8. सेकर 9. रमेश 10. अरुनाचलम पुत्र कुप्पु गाउंडर 11. नागराज पुत्र पेरुमल

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								12. बाबू पुत्र संधामुर्छि 13 कुयिला 14. कृष्णामुर्छि पुत्र गोविंदाराज (गार्डियन कुयिला) 15. रामाचंद्रन पुत्र रंगानाथन 16. सीवालिंगम पुत्र चिन्नासामी 17. कमलेशन पुत्र विद्यम्बी 18. दसस्थन पुत्र रंगानाथन 19. मुरुगेसन पुत्र रंगासामी 20. सुमित्रा पत्नी राजेश
				37/3बी	37/3बी1	निजी	शुष्क	840 1. मनि पुत्र सुंदरराज 2. सेकर पुत्र सुंदरराजन 3. सम्पथ पुत्र सुंदरराजन 4. मेनावधी पत्नी कृष्णप्पा
				37/4	37/ 6	सरकारी	वांटीपथई	350 सरकारी
				37/5	37/5 ए	निजी	शुष्क	470 1. मराकल 2. रामी 3. सुब्रामुनि 4. कुजीयामल 5. सेकर 6. सम्पथ 7. कुमार 8. संकर 9. रमेश 10. अरुनाचलम पुत्र कुप्पु गार्डर 11. नागराज पुत्र पेरुमल 12. बाबू पुत्र संधामुर्छि 13 कुयिला 14. कृष्णामुर्छि पुत्र गोविंदाराज (गार्डियन कुयिला) 15. रामाचंद्रन पुत्र रंगानाथन 16. सीवालिंगम पुत्र चिन्नासामी 17. कमलेशन पुत्र विद्यम्बी 18. दसस्थन पुत्र रंगानाथन 19. मुरुगेसन पुत्र रंगासामी 20. सुमित्रा पत्नी राजेश
				38/1बी	38/1बी1	निजी	शुष्क	1029 एम. कानामल पत्नी मुनुसामी
				38/3	38/3बी	निजी	शुष्क	1205 चिन्नाप्पन पुत्र बुधालन
				38/4बी	38/4बी1	निजी	शुष्क	1687 मुथुसामी पुत्र कंधापा गार्डर
				39/1	39/1ए	निजी	शुष्क	13 सदस्य कलाईमगल सभा कोमारापलयम
				39/2बी	39/2बी1	निजी	शुष्क	2300 सदस्य कलाईमगल सभा कोमारापलयम
				43/1ए	43/1ए2	निजी	नम	1500 कुप्पयामल पत्नी अपाबु गार्डर
				43/1बी	43/1बी2	निजी	नम	1365 राजी पुत्र बुधाला गार्डर
				43/2ए	43/ 8	सरकारी	पचईयाम्न कोइल पंचायत	630 सरकारी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
						प्राथमिक विद्यालय			
				43/3डी1	43/3डी1बी	निजी	शुष्क	20	1. जीवा पुत्र मनिक्कम 2. कृष्णन पुत्र अप्पु गार्डर
				43/3डी2	43/3डी2	निजी	शुष्क	50	कुप्पन पुत्र मुनिप्पन
				43/3डी3	43/3डी3	निजी	शुष्क	50	मधायन पुत्र बुधलन
				43/3ई	43/3ई2	निजी	शुष्क	310	1. नागन पुत्र मुनिप्पा गार्डर 2. अटुकरन @ पेरामन 3. बालामुरुगन पुत्र नागप्पन 4. गननसेकरन पुत्र पेरुमल
				43/3एफ1ए	43/5	निजी	शुष्क	113	1. राजी पुत्र बुधलम 2. नागन 3. वेक्टाचलम पुत्र मुथु गार्डर 4. वलारमथि पत्नी गोपाल 5. पी. गननसेकरन पुत्र पेरुमल
				43/3एफ1बी	43/6	निजी	शुष्क	152	1. वेदियप्पन पुत्र कालीपन 2. अरुमुगम पुत्र कालीपन 3. सख्थीवेल पुत्र कालीपन
				43/3एफ1सी	43/7	निजी	शुष्क	1100	1. नागन 2. राजी पुत्र बुधलम 3. वेक्टाचलम पुत्र मुथु गार्डर 4. वलारमथि पत्नी गोपाल 5. गननसेकरन पुत्र पेरुमल
				64/4ए	64/4ए2	निजी	शुष्क	1200	मुथुसामी पुत्र कंधापा गार्डर
				64/5ए	64/5ए2	निजी	शुष्क	450	1. चिन्नामल पत्नी कालीनन 2. चेन्नीप्पन पुत्र कालीनन 3. ईश्वरमुर्थि पुत्र कालीनन
				64/5बी	64/5बी2	निजी	शुष्क	600	चेन्नीप्पन पुत्र कालीनन
				64/5सी	64/5सी2	निजी	शुष्क	400	1. चिन्नामल पत्नी कालीनन 2. चेन्नीप्पन पुत्र कालीनन 3. ईश्वरमुर्थि पुत्र कालीनन
				65/1	65/1बी	निजी	शुष्क	583	नटराजन पुत्र नलियागार्डर
				65/2	65/2	निजी	शुष्क	600	नटराजन पुत्र नलियागार्डर
				66/1	66/1बी	निजी	शुष्क	986	सुब्रह्मनियन पुत्र पलानीप्पा गार्डर
				67/1बी	67/1बी2	निजी	शुष्क	345	सुब्रह्मनियन पुत्र पलानीप्पा गार्डर
				67/2ए	67/2ए2 67/2ए3	निजी निजी	शुष्क शुष्क	368 197	1. गोविंदासामी पुत्र रामासामी 2. बालाकृष्णन पुत्र अर्थानारी चेटी
				67/2बी	67/2बी2	निजी	शुष्क	122	1. शनवासा बेगम 2. सैयद अब्दुल कलाम 3. सैयद यास 4. ए. रीगन पुत्र डा. अब्दुल सुबान 5. गुस्थाराजन पत्नी शम्मी उल्ला 6. ए. लयास पत्नी डा. अब्दुल सुबान

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				67/3	67/3बी	निजी	शुष्क	891 नदेशन पुत्र पेरीयागाउंडर
				67/4	67/4बी	निजी	शुष्क	602 नदेशन पुत्र पेरीयागाउंडर
				71/1 ए	71/1ए	निजी	शुष्क	500 सदस्य कलाईमगल सभा कोमारापलयम
				71/1बी	71/1बी1	निजी	शुष्क	2100 सदस्य कलाईमगल सभा कोमारापलयम
				71/2ए	71/2ए	निजी	शुष्क	300 सदस्य कलाईमगल सभा कोमारापलयम
				71/2बी	71/2बी1	निजी	शुष्क	750 सदस्य कलाईमगल सभा कोमारापलयम
				71/3ए	71/3ए	निजी	शुष्क	250 सदस्य कलाईमगल सभा कोमारापलयम
				71/3बी	71/3बी1	निजी	शुष्क	255 1. धंगवेल पुत्र कुप्पुचारी 2. अथीयप्पा अचारी पुत्र नलीयन अचारी
				71/3सी	71/3सी1	निजी	शुष्क	264 सदस्य कलाईमगल सभा कोमारापलयम
				72/1बी1	72/1बी1ए	निजी	शुष्क	2183 कानुसुत पुत्र सानीकन
				72/1बी2	72/1बी2ए	निजी	शुष्क	526 कानुसुत पुत्र सानीकन
				74	74 /1	सरकारी	सड़क	700 सत्तकरी
				75/1ए1	75/1ए1ए	निजी	शुष्क	909 स्वामिन पुत्र पेरुमल
				75/1ए2	75/1ए2ए	निजी	शुष्क	2750 पी. के. पोनराज पुत्र कुप्पुसामी देवर
				75/1सी	75/1सी1	निजी	शुष्क	522 पी. के. पोनराज पुत्र कुप्पुसामी देवर
				123	123/1	सरकारी	वानदी	193 सरकारी
				127/1बी	127/1बी1	निजी	शुष्क	350 1. मेनेजिंग डायरेक्टर श्रीनिवासन एण्ड कम्पनी धर्मापुरी 2. तमिल नाडू कृषि युनिवर्सिटी कोयम्बदूर
				127/2बी	127/2बी1	निजी	शुष्क	101 लेखा अंकेषक, तमिल नाडू कृषि युनिवर्सिटी कोयम्बदूर
				127/3बी	127/3बी1	निजी	शुष्क	102 लेखा अंकेषक, तमिल नाडू कृषि युनिवर्सिटी कोयम्बदूर
				127/4बी1ए	127/4बी1ए	निजी	शुष्क	250 1. लेखा अंकेषक, तमिल नाडू कृषि युनिवर्सिटी कोयम्बदूर 2. गनेसमनुरि पुत्र कृष्णन 3. केसवन पुत्र कृष्णन 4. वेलु पुत्र कृष्णन 5. विवेकानंदन पुत्र चिन्नायम्मा गार्डर 6. सुब्रामणि पुत्र चिन्नायम्मा गार्डर 7. मुथिय पुत्र चिन्नायम्मा गार्डर 8. नागेश्वरी पत्नी चिन्नासामी
				127/4बी1बी	127/4बी1बी	निजी	शुष्क	24 मधु पुत्र मनिकम चेटियार
				127/4बी1सी	127/4बी1सी	निजी	शुष्क	37 मधु पुत्र मनिकम चेटियार
				127/4बी2	127/4बी2ए	निजी	शुष्क	31 बालन पुत्र मनापधि
				128/1	128/1ए	निजी	शुष्क	2050 गोपाल पुत्र नंजायन
				128/2ए	128/2ए1	निजी	शुष्क	605 पाचियायल पत्नी सीकाराज
				128/2बी1	128/2बी1	निजी	शुष्क	100 1. धंगमल पत्नी चिन्नाराज 2. पोमुसामी पुत्र चिन्नाराज

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				128/2बी2	128/2बी2ए	निजी	शुष्क	60	1. कृष्णनन पुत्र लक्ष्मनन 2. थंगावेल पुत्र लक्ष्मनन
				128/2बी3	128/2बी3 ए	निजी	शुष्क	1200	रामा गाउंडर पुत्र पुसारी गाउंडर
				131/1	131/1	निजी	शुष्क	550	बी. मुथुकुमार पुत्र के. सी बुपाल
				131/2ए1ए	131/2ए1ए	निजी	शुष्क	3550	1. बी. मुथुकुमार पुत्र के. सी बुपाल 2. पेरुमल पुत्र चिन्नासामीगाउंडर 3. गोविंदन पुत्र चिन्नासामीगाउंडर 4. अन्नामलाई पुत्र चिन्नासामीगाउंडर 5. कल्याणासुंदम पुत्र पलानी
				131/2ए1सी	131/2ए1सी	निजी	शुष्क	455	1. बी. मुथुकुमार पुत्र के. सी बुपाल 2. पेरुमल पुत्र चिन्नासामीगाउंडर 3. गोविंदन पुत्र चिन्नासामीगाउंडर 4. अन्नामलाई पुत्र चिन्नासामीगाउंडर 5. कल्याणासुंदम पुत्र पलानी 6. पाडियन पुत्र पलानी 7. सेल्वम पुत्र पलानी 8. सांथी पत्नी बालासुब्रामनियन
				131/2ए2	131/2ए2ए	निजी	शुष्क	310	सीनी पुत्र कावेरी गाउंडर
				140/1ए	140/1ए	निजी	शुष्क	500	सईद हमीद बाशा पुत्र सईद गाउंडर
				140/1बी1ए	140/1बी1ए	निजी	शुष्क	1076	1. जी नागराजन 2. नटराजन 3. मधु 4. मुनुसामी 5. पेरुमल 6. अन्नामलाई पुत्र मुनुसामी गाउंडर 7. मंजुला पत्नी आर. मनोहरन 8. मधु पुत्र बुधाल 9. मुरुगन पुत्र बुधाल 10. जमुनारानी पत्नी इलानाववन
				140/1बी1बी	140/1बी1बी	निजी	शुष्क	249	मुरुगन पुत्र बुधाल
				144/1बी1	144/1बी1	निजी	शुष्क	150	विवेकानंदन पुत्र लक्ष्मीकांदन
				144/1बी2ए	144/1बी2ए	निजी	शुष्क	60	1. थेनारासु 2. मोहन 3. विमलन
				144/1बी2बी	144/1बी2बी	निजी	शुष्क	1337	विवेकानंदन पुत्र लक्ष्मीकांदन
				144/2बी1	144/2बी1	निजी	शुष्क	100	1. थेनारासु 2. मोहन 3. विमलन
				144/2बी2ए	144/2बी2ए	निजी	शुष्क	48	लक्ष्मीकांदन पुत्र नंजुनदसामी
				144/2बी2बी	144/2बी2बी	निजी	शुष्क	625	1. थेनारासु 2. मोहन 3. विमलन

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				144/3बी1	144/3बी1	निजी	शुष्क	150	1. धेनारासु 2. मोहन 3. विमलन
				144/3बी2	144/3बी2ए	निजी	शुष्क	662	1. धेनारासु 2. मोहन 3. विमलन माइनर पुत्र नटराजन
				144/4ए	144/4ए	निजी	शुष्क	50	1. कुप्पन पुत्र कोना गाउंडर 2. पच्चावल पत्नी (स्व.) कुप्पन
				144/4बी	144/4बी1	निजी	शुष्क	647	1. कुप्पन पुत्र कोना गाउंडर 2. पच्चावल पत्नी (स्व.) कुप्पन
				144/5ए	144/5ए	निजी	शुष्क	50	1. सुंदम पत्नी अनबालागन 2. सीवाकुमार पुत्र गोविंदन
				144/5बी	144/5बी1	निजी	शुष्क	271	सीवाकुमार पुत्र गोविंदन
				144/6ए	144/6ए	निजी	शुष्क	50	कुट्टी पुत्र मोतियान
				144/ 6बी	144/6बी1	निजी	शुष्क	271	कुट्टी पुत्र मोतियान
				144/7ए	144/7ए	निजी	शुष्क	350	कुट्टी पुत्र मोतियान
				144/7बी	144/7बी1	निजी	शुष्क	720	कुट्टी पुत्र मोतियान
				148/1	148/1ए	निजी	शुष्क	1000	पोनराज पुत्र कुप्पुसामी देवर
				148/6बी	148/6बी1ए	निजी	शुष्क	765	पोनराज पुत्र कुप्पुसामी देवर
				150/2बी	150/2बी2	निजी	शुष्क	1100	दुरई पुत्र मुनुसामी
				150/3बी	150/3बी2	निजी	शुष्क	426	कुमार पुत्र मुनुसामी
				151/3डी1	151/3डी1बी	निजी	शुष्क	210	कुमार पुत्र मुनुसामी
				151/3डी2	151/3डी2बी	निजी	शुष्क	1	रंगानाथन पुत्र कंदासामी गाउंडर
				160/7	160/7बी	निजी	शुष्क	200	1. के मेरी पत्नी स्व. राजी 2. कोलीयान @ राजी पुत्र सेविदन
				161/ 6ए1	161/6ए1बी	निजी	शुष्क	1000	राजी पुत्र कृष्णन
				161/ 6ए2	161/6ए2बी	निजी	शुष्क	1140	अरुल मोजी पत्नी दक्षिणामुर्धि
				161/ 6ए3एफ	161/ 11	निजी	शुष्क	1550	आर. जगनाथन सचिव, आल मोटर आनर्स एसोसियशन धर्मापुरी
					161/12	निजी	शुष्क	237	1. बलागुरुसामी पुत्र वराधारजुलू नायडू 2. मुरुगेसन पुत्र मनिकम 3. कृष्णन पुत्र मुनुसामी अचारी 4. रमन पुत्र वेदिवेल अचारी
				161/ 6ए4	161/ 6ए4	निजी	शुष्क	1800	1. बलागुरुसामी पुत्र वराधारजुलू नायडू 2. मुरुगेसन पुत्र मनिकम 3. कृष्णन पुत्र मुनुसामी अचारी 4. रमन पुत्र वेदिवेल अचारी
				161/7	161/7बी	निजी	शुष्क	30	चित्रा पत्नी नवामनि
				161/10	161/10 बी	निजी	शुष्क	187	नवामनि पुत्र राजी
				167/1ए1ए	167/5	निजी	शुष्क	290	रंगानाथन पुत्र सेवेथन
				167/1ए2बी	167/6	निजी	शुष्क	600	अप्पुनुगाउंडर पुत्र कावेरीगाउंडर
				167/1ए4	167/1ए4बी	निजी	शुष्क	512	मधायकृष्णन पुत्र नाडुपीयागाउंडर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				168/4	168/14	सरकारी	वांटीपथई	2 सरकारी
				168/5ए2बी	168/9	निजी	शुष्क	197 बाल्ला नागामल पत्नी मधया कृष्णन
				168/5ए2सी	168/10	निजी	शुष्क	179 इडियन आयल कार्पोरेशन, कोम्बुदुर
				168/6ए2	168/6ए2बी	निजी	शुष्क	280 इडियन आयल कार्पोरेशन, कोम्बुदुर
				168/7ए2	168/7ए2बी	निजी	शुष्क	396 1. अरंगानाथन पुत्र सेवाथन 2. वेटीवेल पुत्र अरंगानाथन
				168/8ए1	168/8ए1बी	निजी	शुष्क	16 1. अरंगानाथन पुत्र सेवाथन 2. वेटीवेल पुत्र अरंगानाथन
				168/8ए2ए	168/11	निजी	शुष्क	230 अमरावथी @ सुलोचना पत्नी कृष्णामुरती
				168/8ए2बी	168/12	निजी	शुष्क	100 1. सेल्वम पत्नी राजा 2. वेनीला पत्नी सेल्वम 3. दिनेश कुमार पुत्र सेल्वम 4. नीवेथा पुत्री सेल्वम 5. राजा कुट्टी पुत्र रामा गाउंडर
				168/8ए2सी	168/13	निजी	शुष्क	110 अमरावथी @ सुलोचना पत्नी कृष्णामुरती
				169/1	169/5	सरकारी	वांटीपथई	373 सरकारी
				169/2ए2	169/2ए2बी	निजी	शुष्क	2250 वेददीवेलन, अध्यक्ष लक्ष्मी अमाल शैक्षिक ट्रस्ट
				169/3ए	169/3ए2	निजी	शुष्क	560 राजेश्वरी पत्नी मनोगरन
				169/4ए	169/4ए	सरकारी	अन्नथीनाम	550 सरकारी
				189/1	189/1बी	निजी	शुष्क	750 1. राजाकानु पुत्र वेक्टा कृष्णन 2. डी. एन. वी इलांगोवन
				189/2	189/2	निजी	शुष्क	200 1. राजाकानु पुत्र वेक्टा कृष्णन 2. लाला @ सुबारायन पुत्र मोटाया गाउंडर
				189/4	189/4बी	निजी	शुष्क	750 चिन्नापायन पुत्र नंजा गाउंडर
				189/7ए	189/7ए2	निजी	शुष्क	251 मुरुगन पुत्र कुलान @ चिन्ना मुनियन
				189/8	189/8	निजी	शुष्क	200 1. चिन्नासामी पुत्र नंजा गाउंडर 2. चिन्ना पायन पुत्र नंजा गाउंडर 3. मरिमुथु पुत्र नंजा गाउंडर 4. कानन पुत्र करीकीलावन 5. वेक्टरमन पुत्र काली 6. लक्ष्मी पत्नी कनुपायन 7. रुकमनियामल पत्नी नटराजन 8. विमलन पुत्र नटराजन 9. मोगन पुत्र नटराजन (माइनर गार्डियन मदर रुकमनियामल) 10. थेनारासु पुत्र नटराजन 11. सांथी पुत्री नटराजन 12. विजयालक्ष्मी पुत्री नटराजन (माइनर गार्डियन मदर रुकमनियामल)
				189/9	189/9बी	निजी	शुष्क	770 सैथिल राजन पुत्र पनीरसेल्वम
				189/9सी	189/9सी	निजी	शुष्क	1 सैथिल राजन पुत्र पनीरसेल्वम

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				189/10	189/10बी	निजी	शुष्क	243 मनार पुत्र काली
				189/11	189/11बी	निजी	शुष्क	2026 1. धीरुनावुकारासु 2. राजागनापथि पुत्र धीरुनावुकारासु
				189/12ए	189/12ए	निजी	शुष्क	550 1. ससीकुमार 2. वदामलाई 3. कुमार उदायर 4. वेलीची 5. धीरुनावुकारासु
				189/12बी	189/12बी	निजी	शुष्क	150 कामाराज पुत्र नरसिम्हन
				189/12सी	189/12सी	निजी	शुष्क	700 1. ससीकुमार 2. वदामलाई 3. कुमार उदायर 4. वेलीची 5. धीरुनावुकारासु
				190	190/2	सरकारी	सड़क	1600 सरकारी
				191/2	191/ 7	सरकारी	कस्बिस्तान	3126 सरकारी
				191/3ए	191/3ए2	निजी	शुष्क	2275 कृष्णन पुत्र इलाया पेरुमल
				191/3सी	191/3सी2	निजी	शुष्क	3370 1. चिन्नापिल्लै पत्नी जयारमन 2. मधायन पुत्र जयारमन 3. जयारमन पुत्र इलाया पेरुमल
				191/4	191/4ए	निजी	शुष्क	3749 राजा पुत्र दुर्ईसामी उदायर
				191/5ए2ए	191/5ए2ए	निजी	नम	400 कुमार उदायर पुत्र पोनुसामी उदायर
				198/2	198/2बी	निजी	शुष्क	6600 सीवालिंगम पुत्र सेंदराया गाउंडर
				198/3	198/3बी	निजी	शुष्क	560 1. गोविंदन @ राजू 2. सुब्रामनियम 3. मुरुगन 4. कांथन 5. साविथि
				198/4	198/4	निजी	शुष्क	700 राजा पुत्र दुर्ईसामी उदायर
				199	199/2	सरकारी	वाईकल	1450 सरकारी
				207/3ए6	207/3ए6ए	निजी	शुष्क	85 1. पेरियासामी पुत्र पेरिया वेदी गाउंडर 2. तमिलसेल्वन पुत्र चोकाळिंगम
				207/3बी3बी	207/3बी3बी	निजी	शुष्क	58 तमिलसेल्वन पुत्र चोकाळिंगम
				208	208/ 1	सरकारी	सड़क	6431 सरकारी
				209/2	209/2ए	निजी	शुष्क	258 वेदीयप्पन पुत्र मथा गाउंडर
				209/5	209/5ए	निजी	शुष्क	388 1. पेरियासामी पुत्र कृष्णा गाउंडर 2. ईन्दरानि पत्नी थमीदुर्ई 3. नवीन (मीनोर) पुत्र थमीदुर्ई 4. गोविन्दाम्मल पत्नी पेरियासामी 5. सरस्वती पत्नी अलागेशन
				209/8	209/8ए	निजी	शुष्क	192 1. वेदीयप्पन पुत्र पेरिया गाउंडर 2. पेरियासामी पुत्र पेरिया गाउंडर 3. चिन्नावेदी गाउंडर पुत्र अल्लीमुथु गाउंडर 4. मुथुकुमारन पुत्र मुथु गाउंडर 5. राजा पुत्र मुथु गाउंडर 6. पेरियासामी पुत्र कृष्णा गाउंडर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				209/9	209/9ए	निजी	शुष्क	84	चिन्नावेदी गाउंडर पुत्र अल्लीमुथु गाउंडर
				209/15	209/15	सरकारी	गांव स्थल	164	सरकारी
				211/4बी	211/4बी2	निजी	शुष्क	2711	1. पचियप्पन पुत्र कुलाधि 2. बासकर पुत्र पचियप्पन 3. अन्नामलाई पुत्र पचियप्पन
				211/5	211/5बी	निजी	शुष्क	1537	1. गनापति चेतियार पुत्र लिगाप्पा चेतियार 2. गुनासेलान पुत्र रामानाथन
				213/1जी	213/1जी2	निजी	शुष्क	149	1. परासिखन पुत्र मेचिरी 2. लक्ष्मणन पुत्र मेचिरी 3. माधीयन पुत्र नागाप्पन 4. अक्काप्पन पुत्र नागाप्पन 5. कुप्पन्ना गाउंडर पुत्र कानदा गाउंडर 6. मुनुसामी पुत्र मुनुसामी 7. कमीशनर पंचायत युनियन धर्मापुरी
				213/1एल1बी	213/1एल1बी	निजी	शुष्क	50	राजेन्द्रन पुत्र मरीयप्पा गाउंडर
				213/1एल2	213/1एल2बी	निजी	शुष्क	75	रनजीत पत्नी पलानि
				213/1एल5	213/1एल5	निजी	शुष्क	50	मुरुगन पुत्र अनगाप्पन
				213/1एल6	213/1एल6बी	निजी	शुष्क	98	संगनेयन पुत्र गोविन्ददासामी
				213/1वी 1	213/1वी 1बी	निजी	शुष्क	140	माधम्मल पत्नी चिन्नापईयन
				213/1वी 2	213/1वी 2 बी	निजी	शुष्क	1148	1. मधीयन पुत्र कुट्टीयप्पन @ मरीयप्पन 2. मधु 3. मुथुसामी पुत्र बोधाल 4. कालीयनासुन्दरम
				213/1एस	213/1एस2	निजी	शुष्क	25	1. चिन्नामारुवेदियन @ मरीयप्पागाउंडर पुत्र कुनजीगाउंडर 2. अरीवलगन पुत्र पेरीयासामी
				214/1ए2	214/1ए2बी	निजी	नम	1450	1. नेदनचिजीयन पुत्र पेरीयासामी 2. माथिवनान पुत्र पेरीयासामी 3. चिन्नामारुवेदियन @ मरीयप्पागाउंडर पुत्र कुनजीगाउंडर
				214/1ए3	214/1ए3बी	निजी	नम	520	1. शेखर पुत्र बोधाल 2. बोधाल पुत्र कुल्लान @ बोधालागाउंडर
				214/1सी	214/1सी	सरकारी	राष्ट्रीय राजमार्ग सडक मार्जिन	500	सरकारी
				214/1सी	214/1सी	सरकारी	राष्ट्रीय राजमार्ग सडक मार्जिन	800	सरकारी
				214/2ए1	214/2ए1बी	निजी	नम	850	1. ओमीयन @ धोन्नीयन पुत्र दिल्लान @ पेरुमल गाउंडर 2. शिवालिंगम पुत्र धोन्नीयन
				214/2ए2	214/2ए2बी	निजी	नम	670	अनबु पुत्र ओमीयन @ धोन्नीयन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				214/2बी	214/2बी	सरकारी	राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क मार्जिन	700 सरकारी
				214/3बी	214/3बी2	निजी	शुष्क	1740 1. चिईना मरयवेदिन @ मरीप्पा गाउंडर पुत्र कुन्जी गाउंडर 2. अरीयलागन पुत्र पेरीयासामी 3. नेदनचिचीयन पुत्र मरीयप्पन 4. माथिवन्नाम पुत्र मरीयप्पन 5. मनी पुत्र पेरीयासामी
				215	215	सरकारी	सड़क	4400 सरकारी
				216	216	सरकारी	सड़क	6400 सरकारी
				217/1	217/1ए	निजी	नम	470 1. मुधुकुमार पुत्र बोबाल 2. विसुकी पत्नी मुधु कुमार
				217/2ए1	217/2ए1ए	निजी	शुष्क	83 1. थंगावेल 2. वेलु पुत्र पेरीयन्नन 3. मुरुगन पुत्र पचीयप्पन
				217/2ए3	217/2ए3ए	निजी	शुष्क	30 वेलु पुत्र पेरीयन्नन
				217/2बी1ए	217/2बी1ए	निजी	शुष्क	650 1. अरुलमाजी पत्नी सखणन 2. थंगावेल पुत्र अट्टुकारन @अधाय गाउंडर 3. मधु पुत्र चिधामबाराम 4. बोधाल पुत्र कासी 5. सरवनन पुत्र शानमुगा गाउंडर 6. नबामनी पुत्र राजी 7. ईदुमवन 8. मनी 9. सदाशिवम् पुत्र शानमुगम 10. पेरुमल पुत्र बुधगागाउंडर 11. जे अरुमुगम 12. आर धर्मासिगम
				217/2बी2	217/2बी2ए	निजी	शुष्क	33 वेलु पुत्र पेरीयन्नन
			(2) रेड्डीहल्ली	29	29 /1	निजी	शुष्क	3750 मुनुयाम्मल पत्नी सुबीरामनी
				30/1	30/1बी	निजी	शुष्क	2850 रथिनम्मल पत्नी धनासामीचेतिइ
				30/2	30/2बी	निजी	शुष्क	5000 माधाम्मल पत्नी सिरानगाचेतिइ
				31	31 /2	निजी	शुष्क	143 मुनुसामी पुत्र मुनीयन
				32/1	32/1 ए	निजी	शुष्क	183 मुनुयाम्मल पत्नी मुनीयप्पाचेतिइ
				32/2ए	32/2ए	निजी	शुष्क	150 रथिनम्मल पत्नी धनासामीचेतिइ
				32/2बी	32/2बी1	निजी	शुष्क	14 माधाम्मल पत्नी सिरानगाचेतिइ
				32/4	32/4 ए	निजी	शुष्क	390 नानजाप्पन पुत्र नानजाप्पन
				34/1	34/1 बी	निजी	शुष्क	4840 1. गोविन्ददासामी पुत्र ओमीयन @ रामासामी गाउंडर 2. राजाकृष्णन पुत्र ओमीयन @ रामासामी गाउंडर 3. कालीयप्पन पुत्र ओमीयन @ रामासामी गाउंडर 4. रामासामी पुत्र ओमीयन @ रामासामी गाउंडर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				34/2	34/2 बी	निजी	शुष्क	4250
								1. मुनियाम्मल
								2. धासिचेतिई पुत्र रंगाचेतिई
								3. नागारथनम पत्नी अधिमोताम
								4. देवा
								5. नटराजन
								6. देशीचेतिई
								7. रंगाचेतिई पुत्र देशीचेतिई
								8. शान्ति
				35/1ए	35/1ए 1	निजी	शुष्क	8
								1. गोवेन्ददासामी पुत्र ओमीयन @ रामासामी गाउँडर
								2. राजाकृष्णन पुत्र ओमीयन @ रामासामी गाउँडर
								3. कालीयप्पन पुत्र ओमीयन @ रामासामी गाउँडर
								4. रामासामी पुत्र ओमीयन @ रामासामी गाउँडर
				35/2	35/3	सरकारी	बटई	109
								सरकारी
				40/1	40/1ए	निजी	शुष्क	100
								पेरीयासुब्बु पुत्र कासीकुल्लान
				42/1	42/1	निजी	शुष्क	300
								मरीमुट्टथु पुत्र मनीका मेस्थरी
				42/2	42/2ए	निजी	शुष्क	3115
								चिन्नाकुट्टी पुत्र नानजाप्पा पुत्र कुल्लानुरान @ सवेता गाउँडर
				42/3	42/3ए	निजी	शुष्क	480
								चिन्नासुब्बु पुत्र नानजाप्पा
				42/4	42/4ए	निजी	शुष्क	165
								कुट्टी @ नानजाप्पा गाउँडर पुत्र कुल्लानुरान @ सवेता गाउँडर
				43/1	43/1बी	निजी	शुष्क	3700
								नानजाम्मल पत्नी सिनिकी @ मधान
				44/4	44/4 बी	निजी	शुष्क	1442
								नानजाम्मल पत्नी सिनिकी @ मधान
				45/1डी	45/1डी2	निजी	शुष्क	495
								1. सेनरायन पुत्र पट्टुकारन @ मुनीयन
								2. मुनीयाम्मल पत्नी मरीयप्पन
				50	50/2	सरकारी	बटई	440
								सरकारी
				51/2	51/2 बी	निजी	शुष्क	2756
								1. मधाम्मल पुत्री कन्दाप्पा चेतिई
								2. जानकी पुत्री कन्दाप्पाचेतिई
								3. देवुका पत्नी शक्कारचेतिई
								4. नानजाप्पन पुत्र मधुचेतिई
				64/1बी	64/1बी 2	निजी	शुष्क	584
								मधु पुत्र चिन्नीकान @ माधान
				65/1	65/1 बी	निजी	शुष्क	1950
								मुनीयाम्मल पत्नी कुप्पन
				65/2	65/2 बी	निजी	शुष्क	2295
								1. नानजाप्पन पुत्र काल्तीयप्पन
								2. पीरवु पुत्र काल्तीयप्पन
								3. रामकुमार पुत्र काल्तीयप्पन
								4. शिवापेराकेशम पुत्र काल्तीयप्पन (क्रम सं 2, 3 एवम 4 मीनोरज गारडियन मदर मुनीयाम्मल
								5. मुनीयाम्मल पुत्र काल्तीयप्पन
				65/3	65/3 ए	निजी	शुष्क	690
								धोनीयन @ मुनीयप्पन पुत्र कासीकुल्लान
				65/6	65/6 ए	निजी	शुष्क	480
								1. गोविन्दन पुत्र पथिप्पन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2. मनी पुत्र पविष्पन
								3. रामाकृष्ण पुत्र पविष्पन
								4. कोलानधिपतिई
				66/1ए	66/1ए 1	निजी	शुष्क	1420 काधथुरन ⑩ पचिईप्पान पुत्र मुनीयन
				66/1बी	66/1बी1	निजी	शुष्क	1070 ईलानगो पुत्र कुल्लानुरन
				66/2ए	66/2ए 2	निजी	शुष्क	1797 1. चिन्नामाधु पुत्र कादाथुरन ⑩ पचिईप्पान 2. मोहन पुत्र कादाथुरन ⑩ पचिईप्पाना
				66/2बी	66/2बी1	निजी	शुष्क	1699 मुनीईप्पन पत्नी पोसायेपट्टीयन
				66/2सी	66/2सी1	निजी	शुष्क	830 पोन्नुकन ⑩ मेथिरी गाउंडर पुत्र काल्लीप्पा गाउंडर
				77/1	77/1बी	निजी	शुष्क	3600 कान्नीयन मुत्र कारुसन
				79/1	79/1बी	निजी	शुष्क	4844 कान्नीयन पुत्र कारुसन
				79/2	79/2बी	निजी	शुष्क	1150 1. मुरुगम्मल पत्नी मनी 2. शुक्कानाम्मल
				83	83/2	सरकारी	बटई	5000 सरकारी
				86/1ए1	86/1ए1	निजी	शुष्क	50 1. महेश्वरी पत्नी एम एम मनोहरन 2. शान्धि गिरिस्थिरन पत्नी गिरिस्थिरन 3. वेदियाकुमार पुत्र नागारक्षीनम
				86/1ए2	86/1ए2	निजी	शुष्क	50 1. मनी पुत्र कन्दासामी मुदलियार 2. गणेशन पुत्र शानमुगम 3. सेलवम पुत्र कान्नुकान 4. एन कुमारसम 5. सदाशिवम् 6. विमलान पुत्र थंगावेल 7. के एस माधवी पत्नी विमलान 8. नेल्लाम्मल पत्नी पनीरसेलवम 9. मुनीयप्पन पुत्र पेरुमल
				86/1ए3	86/1ए3	निजी	शुष्क	50 धर्मापुरी आल नायडुस ट्रस्ट
				86/4	86/4	निजी	शुष्क	400 1. महेश्वरी पत्नी एम एम मनोहरन 2. शान्धि गिरिस्थिरन पत्नी गिरिस्थिरन 3. वेदियाकुमार पुत्र नागारक्षीनम
				86/5	86/5	निजी	शुष्क	200 रोसानिन पत्नी सेलवारज
				86/1बी1	86/1बी1	निजी	शुष्क	900 लोगानाथन पुत्र पेरुमलगाउंडर
				86/2ए	86/2ए	निजी	शुष्क	50 1. मुनुसामी पुत्र अन्नामलाई 2. शान्धि पुत्र वेदीवेल 3. विमलासेन पत्नी थंगावेल के एस माधवी 4. के एस माधवी
				86/3ए	86/3ए1	निजी	शुष्क	49 1. मुनुसामी पुत्र अन्नामलाई 2. शान्धि पुत्र वेदीवेल 3. विमलासेन पत्नी थंगावेल के एस माधवी 4. के एस माधवी

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				86/1बी2ए	86/1बी2ए	निजी	शुष्क	1500	1. मनी पुत्र कन्दासामी मुदलियार 2. गणेशन पुत्र शानमुगम 3. सेलवम पुत्र कान्नुकान 4. एन कुमारेशम 5. सदाशिवम् 6. विमलान पुत्र थंगावेल 7. के एस माधवी पत्नी विमलान 8. नेल्लाम्मल पत्नी पनीरसेलवम 9. मुनीयप्पन पुत्र पैरुमल
				86/1बी2बी	86/1बी2बी	निजी	शुष्क	250	परमाशिवम् पुत्र मुनीयप्पाचेतिई
				86/1बी2सी	86/1बी2सी	निजी	शुष्क	100	मगालिगम पुत्र मुनुसामी
				86/1बी2डी	86/1बी2डी	निजी	शुष्क	100	रजेन्द्रन पुत्र नानजुनदान
				86/1बी2ई	86/1बी2ई	निजी	शुष्क	100	मनोगारन पुत्र राजी
				86/6ए	86/6ए	निजी	शुष्क	1050	1. मनी पुत्र कन्दासामी मुदलियार 2. गणेशन पुत्र शानमुगम 3. सेलवम पुत्र कान्नुकान 4. एन कुमारेशम 5. सदाशिवम् 6. विमलान पुत्र थंगावेल 7. के एस माधवी पत्नी विमलान 8. नेल्लाम्मल पत्नी पनीरसेलवम 9. मुनीयप्पन पुत्र पैरुमल
				86/6बी	86/6बी	निजी	शुष्क	100	अमीरथालिगम पुत्र नादाशजन्
				86/6सी1	86/6सी1	निजी	शुष्क	300	1. मनी पुत्र कन्दासामी मुदलियार 2. गणेशन पुत्र शानमुगम 3. सेलवम पुत्र कान्नुकान 4. एन कुमारेशम 5. सदाशिवम् 6. विमलान पुत्र थंगावेल 7. के एस माधवी पत्नी विमलान 8. नेल्लाम्मल पत्नी पनीरसेलवम 9. मुनीयप्पन पुत्र पैरुमल
				86/6सी2	86/6सी2	निजी	शुष्क	100	सेलवारथीनम पत्नी फीलिय

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				86/6सी3	86/6मी3	निजी	शुष्क	350	1. मनी पुत्र कन्दासामी मुदलियार 2. गणेशन पुत्र शानमुगम 3. सेलवम पुत्र कान्नुकान 4. एन कुमारेशम 5. सदाशिवम् 6. विमलान पुत्र थंगावेल 7. के एस माधवी पत्नी विमलान 8. नेल्लाम्मल पत्नी पनीरसेलवम 9. मुनीयप्पन पुत्र पेरुमल
				86/6डी	86/6डी	निजी	शुष्क	100	सवित्री पत्नी सधियावेलु
				86/7	86/7	निजी	शुष्क	1300	1. मनी पुत्र कन्दासामी मुदलियार 2. गणेशन पुत्र शानमुगम 3. सेलवम पुत्र कान्नुकान 4. एन कुमारेशम 5. सदाशिवम् 6. विमलान पुत्र थंगावेल 7. के एस माधवी पत्नी विमलान 8. नेल्लाम्मल पत्नी पनीरसेलवम 9. मुनीयप्पन पुत्र पेरुमल
				86/8	86/8	निजी	शुष्क	650	धर्मापुरी सभी नायडुस ट्रस्ट
				86/9	86/9ए	निजी	शुष्क	200	शांति पत्नी साधियानारायण
				86/10	86/10ए	निजी	शुष्क	35	गुरुसामी पुत्र सेन्नाकेशवम नायडु
				86/11	86/11	निजी	शुष्क	100	सेलवारथीनम पत्नी फीलिप
				86/12	86/12	निजी	शुष्क	250	वेसुदेवन पुत्र सुब्रामनी
				86/13	86/13	निजी	शुष्क	150	कृष्णचेतिई पुत्र रुधाचेतिई
				86/2बी1	86/2बी1ए 86/2बी1सी	निजी निजी	शुष्क शुष्क	19501	1. मुनुसामी पुत्र अन्नामलाई 2. शान्ति पुत्र वेदीवेल 3. विमलासेन पत्नी थंगावेल के एस माधवी
				86/2बी2	86/2बी2	निजी	शुष्क	600	धर्मापुरी आल नायडुस ट्रस्ट
				86/2बी3	86/2बी3ए	निजी	शुष्क	40	1. सेवन पुत्र थंगावेल 2. मंजुला पत्नी सेवन
				86/2बी4	86/2बी4ए	निजी	शुष्क	10	मुनीयप्पन पत्नी कन्दासामी
				87/1	87/1बी	निजी	शुष्क	6	1. लोगानाथन पुत्र पेरुमल 2. पेरुमल पुत्र कान्नु गाउंडर 3. मनी पुत्र कान्नु गाउंडर 4. मुरुगेशन पुत्र
				87/2बी	87/2बी2	निजी	शुष्क	2570	लोगानाथन पुत्र पेरुमल गाउंडर
				88/1बी	88/1बी2	निजी	शुष्क	2350	लोगानाथन पुत्र पेरुमल गाउंडर
				88/2	88/2बी	निजी	शुष्क	2400	लोगानाथन पुत्र पेरुमल
				88/3	88/3बी	निजी	शुष्क	3500	कालीप्पन पुत्र पेरीयापईयन
				89/1ए	89/1ए	निजी	शुष्क	150	लोगानाथन पुत्र पेरुमल गाउंडर

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				89/1बी1ए	89/1बी1ए	निजी	शुष्क	1750	1. मनी पुत्र कन्दासामी मुदलियार 2. गणेशन पुत्र शानमुगम 3. सेलवम पुत्र कान्नुकान 4. एन कुमारेशम 5. सदाशिवम् 6. विमलान पुत्र थंगावेल 7. के एस माधवी पत्नी विमलान 8. नेल्लाम्मल पत्नी पनीरसेलवम 9. मुनीयप्पन पुत्र पेरुमल
				89/1बी1बी	89/1बी1बी	निजी	शुष्क	50	भारती पत्नी पन्नेरसेलवम
				89/1बी2	89/1बी2	निजी	शुष्क	150	सवित्री पत्नी सथियावेलु
				89/1बी3	89/1बी3	निजी	शुष्क	100	सरस्वती पत्नी शिवापेराकाशम
				89/1बी4	89/1बी4	निजी	शुष्क	100	श्रीरेखा पत्नी बोबलान
				89/1बी5	89/1बी5	निजी	शुष्क	100	श्रीदेवी पत्नी वनेश कुमार
				89/1बी6	89/1बी6	निजी	शुष्क	200	जगननाथ पुत्र जयरामन
				89/1बी8	89/1बी8ए	निजी	शुष्क	6	नेल्लाम्मल पत्नी पन्नेरसेलवम
				89/1बी10	89/1बी10	निजी	शुष्क	73	थिरुमल पुत्र नारायणन
				89/2	89/2ए	निजी	शुष्क	1800	लोगानाथन पुत्र पेरुमल
				89/3	89/3ए	निजी	शुष्क	1730	कालीप्पन पुत्र पेरीयापाईयन
				98	98 /1	निजी	शुष्क	6977	बोस पुत्र थोलन @ मुनीय गाउंडर
				99/1	99/1बी	निजी	शुष्क	100	माधाम्मल पत्नी पेरीय कालीईप्पन
				99/3	99/3ए	निजी	शुष्क	10154	कमला पत्नी मुनुसामी
				100/1	100/1ए	निजी	शुष्क	2250	भारती पत्नी पन्नेरसेलवम
				100/2	100/2ए	निजी	शुष्क	2440	ईलानगोवन पुत्र डी एन चिन्नासामी
				100/3	100/3ए	निजी	शुष्क	2446	जदयन @ गोपाल पुत्र कालीप्पन
				100/4	100/4ए	निजी	शुष्क	1900	1. कृष्णन् पुत्र कालीईप्पन 2. डी सी ईलानगोवन पुत्र डी एन चिन्नासामी
				100/5	100/5ए	निजी	शुष्क	1850	कोलानधि पुत्र कालीप्पन
				101	101/2	निजी	शुष्क	4718	1. मधाम्मल पत्नी जेयापाल 2. वसन्ताकुमार 3. मुरुगन @ रमेश 4. सुरेश 5. प्रकाश
				142/3ए	142/3ए2	निजी	शुष्क	240	दुलासियम्मल पत्नी रनगाचेतिई
				142/3बी	142/3बी2	निजी	शुष्क	1980	1. मुनीयप्पाचेतिई पत्नी मधाचेतिई 2. ईन्दरानी पत्नी मधु
				143/1	143/1ए	निजी	शुष्क	1100	1. वैक्टेस्वरन पुत्र करीन @ मुनीप्पा चेतिई 2. शिवानाथन पुत्र करीन @ मुनीप्पा चेतिई
				143/3ए	143/3ए2	निजी	शुष्क	27	1. अम्माकान्नु @ मुनीयम्मल पत्नी अप्पादुरई @ नानजाप्पाचेतिई 2. वैक्टेस्वरन पुत्र करीन @ मुनीप्पा चेतिई

भाग II-खंड 3(II)

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				144/3	144/3ए	निजी	शुष्क	2400	नाजाप्याचेतिई पुत्र चिन्नासामी चेतिई
				145/2	145/2ए	निजी	नम	1100	1.अम्माकान्नाम्मा पत्नी के मुनीयप्पाचेति
									2.थंगावेल पुत्र मुनीयप्पाचेति
									3.अधिमोलाम
				146/बी	146/बी1	निजी	नम	770	1.अम्माकान्नाम्मा पत्नी के मुनीयप्पाचेति
									2.थंगावेल पुत्र मुनीयप्पाचेति
									3.अधिमोलाम
				147	147/1	निजी	नम	60	अधिमोलाम पुत्र मुनीयप्पाचेति
				155	155/2	सरकारी	पेरुमल कोईल	700	सरकारी
				160/2बी	160/3	सरकारी	पी डब्ल्यु डी वर्डकल	4	सरकारी
				160/2सी2	160/2सी2बी	निजी	नम	3640	1.पेरीय्याकालीअपन पुत्र शिनिकाकीयन @मदन
									2.चिन्नाकालीअपन पुत्र शिनिकाकीयन @मदन
									3.मधु पुत्र शिनिकाकीयन @मदन
									4. माधाम्मल पत्नी चिन्नाकालीअपन
									5. नागराज
									6. सम्पत
				160/2सी3	160/2सी3बी	निजी	नम	840	1.गोविन्दन पुत्र वेंकटरामन
									2.चिन्नाकालीअपन पुत्र शिनिकाकीयन @मदन
				160/2सी4	160/2सी4बी	निजी	नम	600	1.लक्ष्मी पत्नी नामदेव
									2. बाबु पुत्र नामदेव
									3.कालीईवेनी पत्नी बाबु
									4. धर्मान पुत्र नामदेव
				160/2सी5	160/2सी5	निजी	नम	1100	1.लक्ष्मी पत्नी नामदेव
									2. बाबु पुत्र नामदेव
									3.कालीईवेनी पत्नी बाबु
									4. धर्मान पुत्र नामदेव
				160/2सी6	160/2सी6ए	निजी	नम	250	1.लक्ष्मी पत्नी नामदेव
									2. बाबु पुत्र नामदेव
									3.कालीईवेनी पत्नी बाबु
									4. धर्मान पुत्र नामदेव
				160/2सी8	160/2सी8ए	निजी	नम	200	1.लक्ष्मी पत्नी नामदेव
									2. बाबु पुत्र नामदेव
									3.कालीईवेनी पत्नी बाबु
									4. धर्मान पुत्र नामदेव

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				160/2सी9	160/2सी9ए	निजी	नम	1525	1.मुनीयम्मल पत्नी अप्पाऊ
									2.अप्पाऊ पुत्र बोम्मन
				160/2सी10	160/2सी10ए	निजी	नम	900	1.अप्पाऊ पुत्र बोम्मन
									2.विन्नीयला पत्नी मुनीराज
				160/2सी11	160/2सी11ए	निजी	नम	75	1.चिन्नापोन्नु पुत्र बोम्मन
									2.अप्पाऊ पुत्र बोम्मन
									3.मनीकम पुत्र बोम्मन
									4.सेनदरायन पुत्र पट्टाकारान
				160/2सी12	160/2सी12ए	निजी	नम	300	मनीकम पुत्र बोम्मन
									अप्पाऊ पुत्र बोम्मन
				160/2सी13	160/2सी13ए	निजी	नम	30	1. पोन्नीयम्मल पत्नी सेनदरायन
									2. मेरीयाप्पन पुत्र सेनदरायन
									3.मनीयम्मल पत्नी मरीयप्पन
				160/2डी	160/4	सरकारी	पी डब्ल्यु डी वईकल	410	सरकारी
				163/2	163/2बी	निजी	नम	1200	मधु पुत्र बोम्मन
				163/3	163/3ए	निजी	नम	2300	महेश्वरी पत्नी मनी
				168	168/2	निजी	नम	2300	रंगाराज पत्नी मुनियप्पाचेति
				169	169/2	निजी	नम	40	1.जनारिनान पुत्र गुरुनाथन मुथालि
									2.वियाबुरी पुत्र शिवानाथन मुदलियार
									3.पारथेबन पुत्र धन्नाबल
									4.कमला पत्नी परमाशिवम मुदलियार
				224/5	224/5बी	निजी	शुष्क	140	1.पेरीय्याकालीअपन पुत्र शिनिकाकीयन @मदन
									2.चिन्नाकालीअपन पुत्र शिनिकाकीयन @मदन
									3.मधु पुत्र शिनिकाकीयन @मदन
									4.माधाम्मल पत्नी चिन्नाकालीअपन
									5.नागराज
									6.सम्पत
				376/2	376/2बी	निजी	नम	55	1.पोसी @ मदन पुत्र मधन
									2.सेवीदन @ रामासामी पुत्र चिन्नापाईयन
				376/3	376/3ए	निजी	नम	1890	1.मोट्टु @ मधान पुत्र मोट्टीयन @ मधान
									2.चेति @ मधान पुत्र मोट्टीयन @ मधान
									3.चिन्नासामी पुत्र मोट्टु
									4.देवराज पुत्र मोट्टु @ मधान
				376/4	376/4	निजी	नम	550	1.मधान पुत्र पेरुमल
									2.माथि पुत्र मधान
									3.कुट्टीपाईयन पुत्र मधान
				376/5	376/5ए	निजी	नम	520	1.पोसी @ मदन पुत्र मधन
									2.चिन्नापेरीयन पुत्र मधन

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				376/6	376/6ए	निजी	नम	150	1. कुन्जी ① मदागाउंडर पुत्र कालनधिग गाउंडर ① माधागाउंडर 2. अम्मासी ① मदन पुत्र कुनजी ① माधागाउंडर
				377/1ए	377/1ए2	निजी	नम	1660	1. गोविन्दन पुत्र चिन्नीया गाउंडर 2. राजेन्द्रन पुत्र गोविन्दा गाउंडर 3. देवामनी पुत्र गोविन्दा गाउंडर 4. मुथी पुत्र गोविन्दा गाउंडर
				377/1बी	377/1बी1	निजी	नम	1500	1. बाशासाहिब पुत्र अबदुलकादर 2. जबीघाबु पत्नी बाक्केर मोहम्मद साहिब
				378	378/2	निजी	नम	1100	1. ओमीयन ① रामासामी गाउंडर पुत्र कालीप्पा गाउंडर 2. गोविन्दासामी पुत्र ओमीयन ① रामासामी
				379/2	379/2बी	निजी	नम	800	1. गोविन्दन पुत्र चिन्नीया गाउंडर 2. राजेन्द्रन पुत्र गोविन्दा गाउंडर 3. देवामनी पुत्र गोविन्दा गाउंडर 4. मुथी पुत्र गोविन्दा गाउंडर
				379/3	379/3ए	निजी	नम	1293	1. बाशासाहिब पुत्र अबदुलकादर 2. जबीघाबु पत्नी बाक्केर मोहम्मद साहिब
				399/4	399/4बी	निजी	शुष्क	2	1. गोज्जी ① माधागाउंडर पुत्र पेरुमल 2. गोपाल पुत्र कान्नु
				399/6	399/6बी	निजी	शुष्क	700	1. गोज्जी ① माधागाउंडर पुत्र पेरुमल 2. पेरीयन पुत्र कोलानधि ① मदन
				400	400/2	सरकारी	बटई	3050	सरकारी
				403/1	403/1बी	निजी	शुष्क	9	1. चिन्नामल पत्नी चिन्नावन ① माधवन 2. मनोर चिन्नासामी पुत्र चिन्नावन ① माधवन 3. मनोर मनगी पुत्री चिन्नावन ① माधवन 4. मनोर सानी पुत्री चिन्नावन ① माधवन (गार्डियन मदरस चिन्नामल सभी मीनोरस के लिए)
				403/2	403/2सी	निजी	शुष्क	2240	1. पेरुमल पुत्र माधवन 2. पार्वती पुत्र ओमीयन ① पेरुमल

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				403/3	403/3	निजी	शुष्क	200	1. पेरुमल पुत्र माधवन 2. चिन्नामल पत्नी चिन्नावन @ माधवन 3. मनोर चिन्नासामी पुत्र चिन्नावन @ माधवन 4. मनोर मनगी पुत्री चिन्नावन @ माधवन 5. मनोर रानी पुत्री चिन्नावन @ माधवन (गार्डियन मदरस चिन्नामल सभी मीनोरस के लिए) 6. पार्वती पुत्र ओमीयन @ पेरुमल 7. माधवन
				403/4	403/4ए	निजी	शुष्क	1770	1. चिन्नामल पत्नी चिन्नावन @ माधवन 2. मनोर चिन्नासामी पुत्र चिन्नावन @ माधवन 3. मनोर मनगी पुत्री चिन्नावन @ माधवन 4. मनोर रानी पुत्री चिन्नावन @ माधवन (गार्डियन मदरस चिन्नामल सभी मीनोरस के लिए)
				403/5	403/5ए	निजी	शुष्क	635	गोपाल @ मोट्टीयन
				403/6	403/6ए	निजी	शुष्क	200	कान्नु @ पेरुमल
				403/11	403/11ए	निजी	शुष्क	1395	1. चिन्नामल पत्नी चिन्नावन @ माधवन 2. मनोर चिन्नासामी पुत्र चिन्नावन @ माधवन 3. मनोर मनगी पुत्री चिन्नावन @ माधवन 4. मनोर रानी पुत्री चिन्नावन @ माधवन (गार्डियन मदरस चिन्नामल सभी मीनोरस के लिए)
				404/2	404/2बी	निजी	शुष्क	67	1. चिन्नामल पत्नी चिन्नावन @ माधवन 2. मनोर चिन्नासामी पुत्र चिन्नावन @ माधवन 3. मनोर मनगी पुत्री चिन्नावन @ माधवन 4. मनोर रानी पुत्री चिन्नावन @ माधवन (गार्डियन मदरस चिन्नामल सभी मीनोरस के लिए)
				404/3	404/3बी	निजी	शुष्क	1090	थिक्कालन @ मरीप्पन पुत्र मधानगारुंडर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				404/4	404/4बी	निजी	शुष्क	400
								1. चिन्नामल पत्नी चिन्नावन @ माधवन
								2. मनोर चिन्नासामी पुत्र चिन्नावन @ माधवन
								3. मनोर मनगी पुत्री चिन्नावन @ माधवन
								4. मनोर रानी पुत्री चिन्नावन @ माधवन (गार्डियन मदरस चिन्नामल सभी मीनोरस के लिए)
				405/4	405/4बी	निजी	शुष्क	650
								1. मदन पुत्र पेन्नागराधन @ मदन
								2. मदन @ पट्टान @ कालीप्पन
								3. मदन पुत्र ओमीयन @ मदन
								4. चिन्नासामी पुत्र ओमीयन @ मदन
								5. रामन पुत्र ओमीयन @ मदन
								6. कलीप्पन पुत्र ओमीयन @ मदन
								7. चिन्नाथमबीओ पुत्र ओमीयन @ मदन
				406/2	406/2बी	निजी	शुष्क	680
								कालीप्पन पुत्र नानजाप्पन
				406/3	406/3बी	निजी	शुष्क	880
								रामासामी पुत्र मदन
				406/4	406/4बी	निजी	शुष्क	980
								चिन्नावन @ मधागाउंडर पुत्र मधागाउंडर
				406/6	406/6बी	निजी	शुष्क	1388
								कृष्णन पुत्र मधागाउंडर
				406/8	406/8बी	निजी	शुष्क	2420
					406/8डी	निजी	शुष्क	380
								पेरुमल पुत्र थारागुक्कारन @ कालीप्पन
				406/9	406/9बी	निजी	शुष्क	90
								1. मदन पुत्र ओमीयन @ मदन
								2. रामन पुत्र ओमीयन @ मदन
								3. कलीप्पन पुत्र ओमीयन @ मदन
								4. मदन पुत्र ओमीयन @ मदन
				406/10	406/10	निजी	शुष्क	150
								1. मदन पुत्र पेन्नामराधन @ मदन
								2. मदन @ पट्टान @ कालीप्पन
								3. मदन पुत्र ओमीयन @ मदन
								4. चिन्नासामी पुत्र ओमीयन @ मदन
								5. रामन पुत्र ओमीयन @ मदन
								6. कलीप्पन पुत्र ओमीयन @ मदन
								7. चिन्नाथमबीओ पुत्र ओमीयन @ मदन

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				406/11	406/11	निजी	शुष्क	150	1. चिन्नावन @ माधवन पुत्र माधवन 2. चिन्नामल पत्नी @ चिन्नावन माधवन 3. चिन्नासामी पुत्र चिन्नावन @ माधवन पुत्र माधवन 4. मनागी पुत्री चिन्नावन @ माधवन पुत्र माधवन 5. रानी पुत्री चिन्नावन @ माधवन 6. मदन पुत्र चिन्नावन @ माधवन (क्रस 3 से 6 मीनोर गार्डियन मदर चिन्नामल)
				406/12	406/12	निजी	शुष्क	550	1. चिन्नापाईयन पुत्र रामासामी 2. चिन्नासामी पुत्र रामासामी
				406/13	406/13ए	निजी	शुष्क	1650	1. कुनजी @ मधागाउंडर पुत्र मधागाउंडर
				406/14	406/14ए	निजी	शुष्क	10	1. कुनजी @ मधागाउंडर पुत्र मधागाउंडर 2. पैरुमल @ मधागाउंडर पुत्र मधागाउंडर
				406/21	406/21ए	निजी	शुष्क	207	1. कुनजी @ मधागाउंडर पुत्र मधागाउंडर 2. मधु पुत्र गुनदान 3. जयशंकर पुत्र चिन्नाकान्नु 4. सेलवन पुत्र पलानिसामी
				428/1ए	428/1ए2	निजी	शुष्क	685	ओमीयन पुत्र थोलान @ मुनीय गाउंडर
				428/5	428/5बी	निजी	शुष्क	4930	पेनघाली पत्नी चिन्नाकान्नु
				428/6	428/6बी	निजी	शुष्क	443	रंगासामी छेति पुत्र वैक्टाप्पाछेति
				440/2	440/5	सरकारी	बटई	245	सरकारी
		(3) टडंगम		13/1	13/1बी	निजी	शुष्क	7000	1. नागामल पत्नी कन्दासामी 2. राधाकृष्णन पुत्र कन्दासामी 3. समपत कुमार पुत्र कन्दासामी 4. सरस्वती पुत्री कन्दासामी 5. शारदा पुत्री कन्दासामी 6. शुगुना पुत्री कन्दासामी 7. मनोनमनि पुत्री कन्दासामी
				14/3	14/3बी	निजी	शुष्क	586	1. गोपाल पुत्र रामासामी गाउंडर 2. बालासुब्रामणियन पुत्र अरुमुगा 3. नदाब जोन पुत्र जीलन 4. नोरुनिसा
				14/4	14/4ए2	निजी	शुष्क	3250	1. परिशिवम् पुत्र रामासामी गाउंडर 2. जगदीशन पुत्र रथिनम
					14/4बी	निजी	शुष्क	250	पथिमा पत्नी मलिकाजन
				15/2	15/2बी	निजी	शुष्क	70	1. परिशिवम् पुत्र रामासामी गाउंडर 2. जगदीशन पुत्र रथिनम

भाग II—खण्ड 3(ii)

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				15/3ए	15/3ए2	निजी	शुष्क	650	1. गोपाल पुत्र रामासामी 2. शथियामुथि पुत्र अनान्धान 3. माहेशवरन् पुत्र राजालियर 4. जगननाथन् पुत्र थिप्पी चेति 5. मीरा पत्नी कुप्पुसामी 6. सगुनथाला पत्नी शेखर 7. मल्लीगा पत्नी शेखर
				15/3बी	15/3बी	निजी	शुष्क	200	मेरीप्पन् पुत्र गोविन्दन्
				15/4ए	15/4ए2	निजी	शुष्क	825	दिल्ली तमिल थिरुसाबी अकदमी
				15/4बी1ए	15/8	निजी	शुष्क	600	कानदन पुत्र रामासामी गाउंडर
				15/4बी1बी	15/4बी1बी	निजी	शुष्क	850	नरसिहमान पुत्र रामाईयर
				15/5	15/5बी	निजी	शुष्क	582	1. गोपाल पुत्र रामासामी गाउंडर 2. बालासुब्रामणियन् पुत्र अरुमुगा 3. नवाब जोन् पुत्र जीलन 4. नोरुनिसा
				15/6ए	15/6ए	निजी	शुष्क	100	सेखदाऊद पुत्र हमीद हुसैन
				15/6बी	15/6बी	निजी	शुष्क	600	1. प्रमाशिवम् पुत्र रामासामी गाउंडर 2. जगदीशन पुत्र रथिनन्
				15/7ए	15/7ए	निजी	शुष्क	200	नटेशन पुत्र पेरुमल
				15/7बी	15/7बी	निजी	शुष्क	150	वेसकिमरी पत्नी अरुनानादम्
				15/7सी	15/7सी	निजी	शुष्क	150	नटराजन पुत्र दुराईसामी
				15/7डी	15/7डी	निजी	शुष्क	150	वेल्लीसामी पुत्र रामा गाउंडर
				15/7ई	15/7ई	निजी	शुष्क	150	श्रीनिवासन् पुत्र मरुदुरेडडी
				15/7एफ	15/7एफ1	निजी	शुष्क	980	1. पेरीयासामी पुत्र रामासामी 2. थुवेल पुत्र मासधनबासा 3. निगबन्धराय 4. सिकबाथुल्ला पुत्र मोहम्द ईब्राहिम 5. जेबुन्नीशा पत्नी सिकबाथुल्ला 6. शक्तिवेल पुत्र रामन् 7. मनोहरन् पुत्र पल्लीक्कोदाथन् @ मुनिप्पन्
				15/7जी	15/7जी1	निजी	शुष्क	130	1. वेलु पुत्र करुप्पाना गाउंडर 2. सगुनथाला पत्नी वेलु 3. वनामथी पुत्री वेलु
				15/7एच	15/7एच1	निजी	शुष्क	80	कृष्णनराजु पुत्र मेनगीरेडडी
				21/1	21/1बी	निजी	शुष्क	7300	1. विशेष अधिकारी, एनजीजीओ एवम् स्वयं रोजगार अयासीय सोसायटी, धर्मपुरी 2. क. शासामी पुत्र सामीनाथन् 3. मेरीप्पन्
				21/2	21/2बी	निजी	शुष्क	9	मन्नी पुत्र कान्नीप्पा गाउंडर

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				23/1	23/1	निजी	शुष्क	215	1. मनीमेललाई पत्नी जयसमन 2. कुम्मुथा पत्नी ईलानगोन 3. नागावनी पत्नी श्रीनिवासामुर्छि
				23/2	23/2	निजी	शुष्क	240	1. मनीमेललाई पत्नी जयसमन 2. कुम्मुथा पत्नी ईलानगोन 3. नागावनी पत्नी श्रीनिवासामुर्छि
				23/3	23/3	निजी	शुष्क	95	अरुलमीगु अनजानेयर कोईल
				23/4	23/4	निजी	शुष्क	136	1. मनीमेललाई पत्नी जयसमन 2. कुम्मुथा पत्नी ईलानगोन 3. नागावनी पत्नी श्रीनिवासामुर्छि
				23/5	23/5	निजी	शुष्क	285	1. मनीमेललाई पत्नी जयसमन 2. कुम्मुथा पत्नी ईलानगोन 3. नागावनी पत्नी श्रीनिवासामुर्छि
				23/6	23/6ए	निजी	शुष्क	272	1. मनीमेललाई पत्नी जयसमन 2. कुम्मुथा पत्नी ईलानगोन 3. नागावनी पत्नी श्रीनिवासामुर्छि
				23/8	23/8ए	निजी	शुष्क	1250	मनीमेललाई पत्नी जयसमन
				23/9	23/9	निजी	शुष्क	205	1. मनीमेललाई पत्नी जयसमन 2. कुम्मुथा पत्नी ईलानगोन 3. नागावनी पत्नी श्रीनिवासामुर्छि
				23/10	23/10ए	निजी	शुष्क	72	1. मनीमेललाई पत्नी जयसमन 2. कुम्मुथा पत्नी ईलानगोन 3. नागावनी पत्नी श्रीनिवासामुर्छि
				23/37	23/37ए	निजी	शुष्क	16	1. मनीमेललाई पत्नी जयसमन 2. कुम्मुथा पत्नी ईलानगोन 3. नागावनी पत्नी श्रीनिवासामुर्छि
				23/49	23/49ए	निजी	शुष्क	2	1. मनीमेललाई पत्नी जयसमन 2. कुम्मुथा पत्नी ईलानगोन 3. नागावनी पत्नी श्रीनिवासामुर्छि
				24	24/2	निजी	शुष्क	2250	1. नागामल पत्नी कन्दासामी 2. सधाकृष्णन पुत्र कन्दासामी 3. समपत कुमार पुत्र कन्दासामी 4. सरस्वती पुत्री कन्दासामी 5. शारदा पुत्री कन्दासामी 6. शुगुना पुत्री कन्दासामी 7. मनोनमनि पुत्री कन्दासामी

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				25/3	25/3बी	निजी	शुष्क	1340	1. नागमल पत्नी कन्दासामी 2. राधाकृष्णन पुत्र कन्दासामी 3. समपत कुमार पुत्र कन्दासामी 4. सरस्वती पुत्री कन्दासामी 5. शारदा पुत्री कन्दासामी 6. शुगुना पुत्री कन्दासामी 7. मनोनमनि पुत्री कन्दासामी
				26/2	26/2बी	निजी	शुष्क	1100	नीलाकान्धन पुत्र ईययामपेरुमल
				32/2	32/2बी	निजी	शुष्क	64	कलावती पत्नी मनिकम
					32/2सी	निजी	शुष्क	1350	कलावती पत्नी मनिकम
				32/3	32/3	निजी	शुष्क	350	श्री जयसमन पुत्र चिन्नाईया
				32/4	32/4बी	निजी	शुष्क	150	1. जयसमन पुत्र चिन्नाईया 2. कलावती पत्नी मनिकम 3. गुनावति पत्नी पलानिसामी
				33/1	33/1	निजी	शुष्क	291	श्री जयसमन पुत्र चिन्नाईया
				33/2	33/2बी	निजी	शुष्क	5560	श्री जयसमन पुत्र चिन्नाईया
				34/1	34/1बी	निजी	शुष्क	6100	1. गोविन्दसामी पुत्र कन्दासामी 2. मुनियप्पन पुत्र चिन्नाथामबी 3. कालीप्पन पुत्र चिन्नाथामबी 4. साध्या पुत्री सुब्रामनियम 5. कन्दासामी पुत्र इंदुमन 6. कार्थिक पुत्र चिन्नाराज 7. समबान्नाथम पुत्र बालासुब्रामणियम 8. विजयालक्ष्मी पुत्री बालासुब्रामणियम 9. सत्तनन पुत्र रामालिंगम 10. धर्माभिर्मोहन पुत्र मुखेशन 11. पदमीनि पत्नी राजकुमार 12. नागममी पत्नी सुब्रामनि 13. नालीथिनि पुत्री रंगानाथम
				36/1सी	36/1सी2	निजी	शुष्क	1500	सर्नजिवन पुत्र अम्पुसु गार्डर
				36/1डी	36/1डी2	निजी	शुष्क	2370	1. गोविन्दन 2. राजालक्ष्मी पत्नी गनपति 3. वसन्ता पत्नी शिवारामन 4. ऐक्केशन पुत्र सुरदीयन 5. नागराज पुत्र ईत्साप्पन 6. कुमार पुत्र राजागोपाल 7. मोहन कुमार पुत्र सिवालिंगम 8. सेलवी पुत्री कृष्णन 9. सगानाथन पुत्र मावियन 10. जयलक्ष्मी पत्नी गोविन्दाराज 11. राजामल पत्नी ऐक्केशन 12. लक्ष्मी पत्नी रामन 13. जनास्वन पुत्र नानदागोपालन 14. शानमुगम पुत्र रत्नागार्डर

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				36/3बी	36/3बी1	निजी	शुष्क	933	1. कालीप्पा चेति पुत्र वेक्ताप्पाचेति 2. गोपाल पुत्र कालीप्पाचेति 3. मुरुगन पुत्र कालीप्पाचेति 4. सरस्वती पत्नी गोविन्दासामी
				36/3सी	36/3सी1	निजी	शुष्क	6	1. गोविन्दासामी पुत्र कालीप्पाचेति 2. कालीप्पा चेति पुत्र वेक्ताप्पाचेति 3. गोपाल पुत्र कालीप्पाचेति 4. मुरुगन पुत्र कालीप्पाचेति 5. सरस्वती पत्नी गोविन्दासामी
					36/3सी2	निजी	शुष्क	255	1. गोविन्दासामी पुत्र कालीप्पाचेति 2. कालीप्पा चेति पुत्र वेक्ताप्पाचेति 3. गोपाल पुत्र कालीप्पाचेति 4. मुरुगन पुत्र कालीप्पाचेति 5. सरस्वती पत्नी गोविन्दासामी
				45	45 /2	सरकारी	राजमार्ग	2500	सरकारी
				73/1ए	73/1ए2	निजी	शुष्क	12	1. गोविन्दामल पत्नी कालीप्पन 2. कुमारवेल पुत्र मनीकम 3. रुकमनी पत्नी पोनुसामी
				73/1बी	73/3	सरकारी	कन्निरिस्तान के लिए आदि द्रविडर रास्ता	30	सरकारी
				73/2बी3	73/2बी3बी	निजी	शुष्क	410	नाचिमुथु पुत्र चेल्लाप्पा गाउंडर
				74/1	74/1बी	निजी	शुष्क	480	नाचिमुथु पुत्र चेल्लाप्पा गाउंडर
				74/2	74/2 बी	निजी	शुष्क	610	नाचिमुथु पुत्र चेल्लाप्पा गाउंडर
				74/3ई	74/3ई2	निजी	शुष्क	1	1. अरोक्कीसामी पुत्र एम एस चिन्नाईय 2. वल्लीमल पत्नी सी अरोक्कीसामी 3. सुरेश पुत्र सी अरोक्कीसामी
				74/3एफ	74/3एफ2	निजी	शुष्क	144	1. अरोक्कीसामी पुत्र एम एस चिन्नाईय 2. वल्लीमल पत्नी सी अरोक्कीसामी 3. सुरेश पुत्र सी अरोक्कीसामी
				74/3जी	74/3जी	निजी	शुष्क	400	1. अरोक्कीसामी पुत्र एम एस चिन्नाईय 2. वल्लीमल पत्नी सी अरोक्कीसामी 3. सुरेश पुत्र सी अरोक्कीसामी
				74/3एच	74/3एच 2	निजी	शुष्क	220	1. वल्लीमल पत्नी सी अरोक्कीसामी 2. सुरेश पुत्र सी अरोक्कीसामी
				75/1बी	75/1बी2	निजी	शुष्क	1800	1. मादीयन पुत्र वियापुरी गाउंडर 2. सिददीयन पुत्र वियापुरी गाउंडर
				75/1सी	75/1सी1	निजी	शुष्क	446	1. गोमथि पत्नी वेक्टेसन 2. गनेशन पुत्र चिन्नाईयागाउंडर
				75/2	75/2बी	निजी	शुष्क	1590	1. नागराजन पुत्र पट्टाबिरामन चेतियार 2. ईश्वरनारायण पुत्र पट्टाबिरामन 3. प्रभाकरन पुत्र पट्टाबिरामन चेतियार

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				76/1बी	76/1बी2	निजी	शुष्क	4	1. मरीप्पन पुत्र कोनदरी 2. संजीवनल पत्नी मरीप्पन 3. सुबीरामनि पुत्र मरीप्पन 4. पेरुमल पुत्र मरीप्पन 5. पलानि पुत्र मरीप्पन
				76/2	76/2बी	निजी	शुष्क	4490	1. नागराजन पुत्र पट्टाविरामन चेतियार 2. ईश्वथारनारायन पुत्र पट्टाविरामन चेतियार 3. प्रभाकरन पुत्र पट्टाविरामन चेतियार
				77/1ई	77/1ई2	निजी	शुष्क	169	1. नागराजन पुत्र पट्टाविरामन चेतियार 2. ईश्वथारनारायन पुत्र पट्टाविरामन चेतियार 3. प्रभाकरन पुत्र पट्टाविरामन चेतियार
				77/1एफ	77/1एफ2	निजी	शुष्क	2435	1. नागराजन पुत्र पट्टाविरामन चेतियार 2. ईश्वथारनारायन पुत्र पट्टाविरामन चेतियार 3. प्रभाकरन पुत्र पट्टाविरामन चेतियार
				77/2	77/2ए	निजी	शुष्क	1400	1. नागराजन पुत्र पट्टाविरामन चेतियार 2. ईश्वथारनारायन पुत्र पट्टाविरामन चेतियार 3. प्रभाकरन पुत्र पट्टाविरामन चेतियार
				78/1डी	78/1डी2	निजी	शुष्क	125	विन्नाराज पुत्र पलानि गाउंडर
				78/1ई	78/1ई2	निजी	शुष्क	1184	1. नागराजन पुत्र पट्टाविरामन चेतियार 2. ईश्वथारनारायन पुत्र पट्टाविरामन चेतियार 3. प्रभाकरन पुत्र पट्टाविरामन चेतियार
				78/1एफ	78/1एफ1	निजी	शुष्क	2312	1. नागराजन पुत्र पट्टाविरामन चेतियार 2. ईश्वथारनारायन पुत्र पट्टाविरामन चेतियार 3. प्रभाकरन पुत्र पट्टाविरामन चेतियार
				78/1जी	78/1जी 2	निजी	शुष्क	345	धन्नालक्ष्मी पत्नी रामाचन्द्रीन
				78/2	78/2ए	निजी	शुष्क	140	1. नागराजन पुत्र पट्टाविरामन चेतियार 2. ईश्वथारनारायन पुत्र पट्टाविरामन चेतियार 3. प्रभाकरन पुत्र पट्टाविरामन चेतियार
				79/1ए1ए	79/5	निजी	शुष्क	4800	धन्नालक्ष्मी पत्नी रामाचन्द्रीन
				79/1ए1बी	79/8	निजी	शुष्क	820	1. जगन्नाथन 2. धन्नालक्ष्मी पत्नी रामाचन्द्रीन
				79/3	79/3ए	निजी	शुष्क	78	1. रथिनम पुत्र पेरीयासामी 2. सिगराम पुत्र रंगासामी

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				80/1ए	80/1ए1	निजी	शुष्क	1640	1. केशन 2. जयसी जोन बोससा 3. श्रीनिवासन पुत्र केशन 4. रागीनि पुत्री केशन 5. कानचन पुत्री केशन
				81/1ए1	81/1ए1बी	निजी	शुष्क	1088	1. सरोजा पत्नी सिदान 2. अबदुलकाफिरखान पुत्र अजीसखान 3. सामबुरनमल पत्नी कुप्पासामी 4. नाल्लामल पत्नी कुलानधिवेल 5. इन्दिरानी पत्नी श्रीनिवासन 6. सेनगोदा गाउंडर पुत्र मुथु गाउंडर 7. अरोकीसामी 8. मरीयप्पन 9. जनजिमल 10. वजरीव मुदलियार 11. गोपालासामी नायडु 12. पेरुमल 13. कोलानधियामल 14. कालीप्पन 15. गोविन्दराज 16. पोन्नुसामी 17. लक्ष्मीयामल 18. चोक्कालिगम 19. प्रमाकरन 20. नटराजकुप्पुसामी 21. राजी 22. वास्न्था 23. सुब्रामनियम पुत्र कन्दासामी
				81/1ए2	81/1ए2ए	निजी	शुष्क	1850	1. केशन 2. जयसी जोन बोससा 3. श्रीनिवासन पुत्र केशन 4. रागीनि पुत्री केशन 5. कानचन पुत्री केशन
				81/2ए1	81/2ए1	निजी	शुष्क	500	1. सरोजा पत्नी सिदान 2. अबदुलकाफिरखान पुत्र अजीसखान 3. सामबुरनमल पत्नी कुप्पासामी 4. नाल्लामल पत्नी कुलानधिवेल 5. इन्दिरानी पत्नी श्रीनिवासन 6. सेनगोदा गाउंडर पुत्र मुथु गाउंडर 7. अरोकीसामी 8. मरीयप्पन 9. जनजिमल 10. वजरीव मुदलियार 11. गोपालासामी नायडु 12. पेरुमल 13. कोलानधियामल 14. कालीप्पन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								15. गोविन्दराज 16. पोन्नसामी 17. लक्ष्मीयामल 18. चोक्कालिगम 19. प्रभाकरन 20. नटराजकुप्पुसामी 21. राजी 22. वास्नथा 23. सुब्रामनियम पुत्र कन्दासामी
				81/2ए2	81/2ए2ए	निजी	शुष्क	520 1. केशन 2. जयसी जोन बोससो 3. श्रीनिवासन पुत्र केशन 4. रागीनि पुत्री केशन 5. कानधन पुत्री केशन
				82/1ए	82/1ए1	निजी	शुष्क	1239 1. सरोजा पत्नी सिञ्जन 2. अब्दुलकाफिरखान पुत्र अजीसखान 3. साधनुरनमल पत्नी कुप्पासामी 4. नात्सामल पत्नी कुलानसिबेल 5. इन्दिरनी पत्नी श्रीनिवासन 6. सैनगोदा गार्डर पुत्र मुमु गार्डर 7. अरोक्कीसामी 8. मरीयप्पन 9. जनजिमल 10. वजरीव मुदलियार 11. गोपालासामी नायडु 12. पेरुमल 13. कोलानधियामल 14. कालीप्पन 15. गोविन्दराज 16. पोन्नसामी 17. लक्ष्मीयामल 18. चोक्कालिगम 19. प्रभाकरन 20. नटराजकुप्पुसामी
				82/1बी	82/1बी1	निजी	शुष्क	627 1. केशन 2. जयसी जोन बोससो 3. श्रीनिवासन पुत्र केशन 4. रागीनि पुत्री केशन 5. कानधन पुत्री केशन
				83	83 /2	सरकारी	बटई	2550 सरकारी
				84/1	84/1बी	निजी	शुष्क	90 1. गोपाल गार्डर पुत्र थंडराया गार्डर 2. बुदार 3. पाचीप्पन 4. पेरियासामी 5. सेल्वम
				84/2बी	84/2बी2	निजी	शुष्क	450 सुब्रामनियम
				84/2सी2	84/2सी2बी	निजी	शुष्क	107 सेल्वारसी पुत्री कालाप्पन
				88/1ए	88/1ए1	निजी	शुष्क	240 धनलक्ष्मी पत्नी गोविंदासामी
				89/1ए1ए	89/1ए1ए	निजी	शुष्क	16 गोवरी पत्नी रामन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				89/2ए	89/2ए1	निजी	शुष्क	8 गोवरी पत्नी रामन
				99/1सी	99/1सी2	निजी	शुष्क	120 मधु @ मदन पुत्र पेरुमल
				99/1डी	99/1डी2	निजी	शुष्क	38 मधु @ मदन पुत्र पेरुमल
				99/1ई	99/1ई2	निजी	शुष्क	2382 पेरुमल पुत्र कालीप्पा गाउंडर
				99/1एफ	99/1एफ1	निजी	शुष्क	2132 1. रामन पुत्र मंगपति 2. सालामल
				99/1जी	99/1जी 1	निजी	शुष्क	3 मनीकम पुत्र नारायणन
				100/1बी	100/1बी 2	निजी	शुष्क	787 पेरुमल पुत्र कालीप्पा गाउंडर
				100/1सी	100/1सी	निजी	शुष्क	2500 1. रामन पुत्र मंगपति 2. सालामल
				100/1डी	100/1डी 1	निजी	शुष्क	940 मनीकम पुत्र नारायणन
				101/1	101/1बी	निजी	शुष्क	320 1. वस्थान @ सेनघरायन पुत्र अम्मासी गाउंडर 2. गोवरी पत्नी गोविन्दन
				101/2	101/2 बी	निजी	शुष्क	1930 1. वस्थान @ सेनघरायन पुत्र अम्मासी गाउंडर 2. गोवरी पत्नी गोविन्दन
				101/3	101/3 ए	निजी	शुष्क	1550 नानजुनधान पुत्र अरीयन
				101/4	101/4 ए	निजी	शुष्क	830 मुथुपेरुमल पुत्र गोपाल
				101/5	101/5 ए	निजी	शुष्क	79 1. सालामल पत्नी रामन 2. मुथीयमल पत्नी कोलानिधि 3. शान्थामल पत्नी नागाक्कारन @ कालीयप्पन 4. कालीमल पत्नी लक्ष्मणन
				103/1	103/1बी	निजी	शुष्क	1624 विईयपुरी पुत्र पेरुमल गाउंडर
				103/2	103/2	निजी	शुष्क	1250 गोविन्दन पुत्र ईलाप्पन
				103/3	103/3 ए	निजी	शुष्क	485 1. कालीप्पन पुत्र ईलाप्पागाउंडर 2. कन्दासामी पुत्र दसासी चेतिई
				103/5	103/5 ए	निजी	शुष्क	1720 कन्दासामी पुत्र दसासी चेतिई
				104/1डी	104/1डी 2	निजी	शुष्क	488 चिन्नाकालीप्पन पुत्र ईलाप्पागाउंडर
				104/1ई	104/1ई 2	निजी	शुष्क	197 विईयपुरी पुत्र पेरुमल गाउंडर
				104/1एफ	104/1एफ	निजी	शुष्क	500 गोविन्दन पुत्र ईलाप्पन
				105/1सी	105/1सी 2	निजी	शुष्क	3960 1. सालामल पत्नी थीरुवागीरि 2. परमाशिवम पुत्र थीरुवागीरि 3. रामन पुत्र थीरुवागीरि 4. रामाक्कल पुत्री थीरुवागीरि 5. लक्ष्मी पुत्री थीरुवागीरि 6. चिन्नापाप्पा पुत्री थीरुवागीरि 7. सालामल पुत्री थीरुवागीरि
				105/1डी2	105/1डी2बी	निजी	शुष्क	320 1. नटाराजन पुत्र कालीयप्पा गाउंडर 2. विजय पत्नी कुरुनागरान 3. मुनीयमल पत्नी समन
				105/1डी3	105/1डी3बी	निजी	शुष्क	3106 कन्दासामी पुत्र कालीयप्पा गाउंडर
				105/1डी4	105/1डी4ए	निजी	शुष्क	230 1. नटाराजन पुत्र कालीयप्पा गाउंडर 2. विजय पत्नी कुरुनागरान 3. कन्दासामी पुत्र कालीयप्पा गाउंडर

भाग II - खण्ड 3 (ii)									
1	2	3	4	5		6	7	8	9
				105/1डी6	105/1डी6ए	निजी	शुष्क	245	1. नटाराजन पुत्र कालीयप्पा गाउंडर 2. विजय पत्नी कुरुनागरान 3. मुनीयममल पतनी रामन
					105/1डी6ई	निजी	शुष्क	28	1. नटाराजन पुत्र कालीयप्पा गाउंडर 2. विजय पत्नी कुरुनागरान 3. मुनीयममल पतनी रामन
				106/2	106/2 बी	निजी	शुष्क	3575	कृष्णन पुत्र रामासामी
				112/26	112/26 बी	निजी	शुष्क	12	लक्ष्मी पत्नी अरुमुगम
				112/27	112/27बी	निजी	शुष्क	197	1. पलानिमल पत्नी कालीन्ना 2. मोहन
				112/28	112/28बी	निजी	शुष्क	171	1. सेलवी पत्नी राजेन्द्रन 2. सेलवाराज पुत्र के आर सेलवाराज
				112/29	112/29बी	निजी	शुष्क	113	शान्थी पुत्री मुथुसामी
				112/36	112/36बी	निजी	शुष्क	324	1. एम रामागाउंडर 2. चिन्नापियन
				112/40	112/40बी	निजी	शुष्क	14	धायनिथी पुत्र सेवाशकरणन
				112/41	112/41बी	निजी	शुष्क	41	मुरलीधरान पुत्र कृष्णमुर्धि
				112/42	112/42बी	निजी	शुष्क	95	अधिकेसवन पुत्र बीमान्ना
				112/43	112/43बी	निजी	शुष्क	135	मेरीमुथु पुत्र माधान
				112/44	112/44	निजी	शुष्क	300	1. पलानिमल पत्नी कालीन्ना 2. आर मोहन
				112/45	112/45	निजी	शुष्क	188	पलानिसामी पुत्र सेन्नीगालि मुघालियर
				112/46	112/46	निजी	शुष्क	218	गोथादारामन पुत्र कृष्णमुर्धि
				112/47	112/47	निजी	शुष्क	250	1. पलानिमल पत्नी कालीन्ना 2. आर मोहन
				113/3बी	113/3बी2	निजी	शुष्क	250	नागालक्ष्मी पत्नी धंगाराजन
				468	468/1	निजी	शुष्क	366	1. विरामनी पुत्र रंगासामी गाउंडर 2. असीथम्बी पुत्र रंगासामी गाउंडर
				476/ 1	476/ 1बी	निजी	शुष्क	1200	धीरुमल ब्रदस कम्पनी
				476/2ए	476/2ए2	निजी	शुष्क	887	धीरुमल ब्रदस कम्पनी
				476/2बी	476/2बी1	निजी	शुष्क	3300	धीरुमल ट्रेडिंग कम्पनी सेलवाकुमार पुत्र पेरुमल रेडियर

[फा. सं. भाराप्र/तक/एलए/केटी/धर्मपुरी 3(ए) 11/2006]

प्रभाकर, उप-सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2007

S.O. 344(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways), number S.O.1711 (E), dated the 5th October, 2006, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.7 on the stretch of land from Km 113.275 to Km 163.000 (Krishnagiri-Thoppur Ghat Section) in District Dharmapuri, in the State of Tamil Nadu;

And whereas the substance of the said notification has been published in "The Hindu", and in "Dhinathanthi", both dated the 5th November, 2006 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on the date of publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km.113.275 to Km 163.000 (Krishnagiri - ThoppurGhat section) on the National Highways No-7 in the State of TamilNadu.

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey number		Type of land	Nature of land	Area (in square meters)	Name of the land owners/ Interested persons
				Before Sub division	After Sub division				
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1.	Dharmapuri	1. Palacode	(1) Kera-kodahalli	2/3	2/3B	Private	Dry	110	Kalai selvan , Elangovan, SonS/of Mania Gounder
				2/7	2/7A	Private	Dry	490	Pachiamma I W/o Mariappan , Rangasamy, Narayanasamy SonS/o Mariappan
				2/8	2/8A	Private	Dry	823	Pachiammal W/o Mariappan , Rangasamy, Narayanasamy SonS/of Mariappan
				3/2B1	3/2B1A	Private	Dry	369	Pachiammal W/o Mariappan , Rangasamy, Narayanasamy SonS/of Mariappan
				3/2B2	3/2B2A	Private	Dry	700	Rangasamy, Narayanasamy SonS/of Mariappan
				3/2B3	3/2B3A	Private	Dry	186	Govindasamy S/o Kandha samy Gounder, Selvi D/o Govindasamy, Kalaiselvi D/o Selvaraj
				3/2B4	3/2B4A	Private	Dry	54	Rangasamy, Narayanasamy SonS/of Mariappan Kaliappan S/o Vedi Gounder Subramani S/o Govindan, Mariappan S/o Muniappagounder Selvi W/o Ramasamy Govindasamy S/o Kandha Gounder, Marimuthu S/o Solai Gounder, Kalaiselvi D/o Selvaraj
				3/2B5	3/2B5A	Private	Dry	358	Marimuthu S/o Solai Gounder Periammal W/o perumal
				3/2B6	3/2B6A	Private	Dry	158	K.M.Mariappan S/o Munia Gounder Natarajan S/o Govindan , V.Ramalingam S/o B.A Venkata Muni chetti
				17-2A	17/2A1	Private	Dry	443	Saraswathiammal W/o Pachappan , Govindan S/o Thanappa Gounder.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				17/2B	17/2B1	Private	Dry	182
				18/2	18/2A	Private	Dry	1733
				19/1	19/1A	Private	Dry	2698
				19/2	19/2A	Private	Dry	1196

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				42/1	42/1A	Private	Dry	1872
				43/1	43/6	Government	Village Site	992
				43/3	43/7	Government	Village Site	23
				43/5	43/8	Government	Path	403
				44/1	44/1	Private	Dry	300
				44/2	44/2	Private	Dry	250
				44/3	44/3A	Private	Dry	73
				44/4	44/4A	Private	Dry	73
				44/5	44/5	Private	Dry	150
				44/6A	44/6A1	Private	Dry	375
				44/7	44/7A	Private	Dry	96
				44/8	44/8A	Private	Dry	1793
				138/1	138/1A	Private	Dry	482
				138/2	138/2	Private	Dry	250
				139/1	139/1	Government	MST Road	700
				139/2A	139/2A1	Private	Dry	2352

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				140/1 140/2A	140/1 140/2A1	Government Private	MST Road Dry	400 343	Government Govindhasamy S/o Venkataramani, Kalimuthu S/o Kaliappa Gounder, Thangamani W/o Thangavel, R.Perumal S/o Ramasamy Gounder, Chennappan S/o Palani Gounder
				140/2B 141/1	140/2B1 141/1	Private Government	Dry MST Road	380 1300	Srinivasan S/O Venkatramani, Government
				141/2A2 141/2B	141/2A2A 141/3	Private Government	Dry Thubetahal li Reservoir Canal	519 513	Srinivasan S/o Venkatramani, Government
				141/2C2 142/1	141/2C2A 142/1	Private Government	Dry MST Road	672 600	Srinivasan S/o Venkatramani, Government
				142/2B1	142/2B1A	Private	Dry	388	Chinnathai W/o K.H.Subramani, Vijayakumar, Karthick SonS/of Mohan, Dhanalakshmi W/o Mohan, Prema W/o Shanmugham, Sivakumar, Son/of Shanmugham Vijalakshmi D/o Shanmugham
				142/2B2 142/2B3	142/2B2A 142/2B3A	Private Private	Dry Dry	388 376	Murugesan S/o Govindan Govindhan S/o AnumaGounder K.M.Panneerselvam S/o Murugesan
				142/2B4A	142/3	Private	Dry	384	Palaniammal W/o Venkatachalam
				143/1	143/1A	Private	Dry	2832	Kandhasamy S/o Ramasamy Gounder
				144/1A1	144/1A1A	Private	Dry	385	Kandhasamy S/o Ramasamy Gounder
				144/1A2 144/1B	144/1A2A 144/1B1	Private Private	Dry Dry	876 1206	R.Sathiaman S/o Ramasamy Athianna Gounder,Ayyavu @ Kumarasamy SonS/of Ramasamy Gounder
				144/1C 144/1D	144/1C1 144/1D1	Private Private	Dry Dry	1074 92	Ayyavu@Kumarasamy S/o Ramasamy Gounder Athianna Gounder, Ayyavu @ Kumarasamy SonS/of Ramasamy Gounder Kandhasamy S/o Ramasamy Gounder
				144/2 145/2A	144/2 145/2A1	Government Private	Battai Dry	1800 163	Government Mariammal W/o Thimmaraya Gounder
				145/2B	145/2B1	Private	Dry	220	Angamuthu S/o Kolandai Gounder
				145/2C1	145/2C1A	Private	Dry	413	Perumal S/o Pudakkayan @ Kaliappan
				145/2C2	145/2C2	Private	Dry	100	Subramani S/o Pudakkayan @ Kaliappan
				145/2C3	145/2C3A	Private	Dry	363	Subramani S/o Pudakkayan @ Kaliappan
				146/2A2	146/2A2A	Private	Dry	17	Krishnan S/o Pudakkayan @ Kaliappan
				146/2C2	146/2C2A	Private	Dry	586	Govindan S/o Pudakkayan @ Kaliappan Govindarajulu S/o Ramasamy Udayar,Ramasamy S/o Marappa Gounder,Shanmughan S/o Kaveri,Rukmaniammal W/o Kaliappan
				146/2D	146/2D1	Private	Dry	843	Madhesan S/o Pudakkayan @ Kaliappan,Govindan,Alraj, S/o, Kaliappan,Govindharajulu S/o Ramasamy Udayar
				146/2E	146/2E1	Private	Dry	1075	Alraj S/o Pudakkayan @ Kaliappan
				173/1	173/1	Government	National Highways Road Margin	400	Government

Part II - Part 3 (n)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				173/2	173/2A	Private	Dry	1028	Thiruppathi S/o Nattan @ Perumal
				175/1	175/1A	Private	Dry	608	Thiruppathi S/o Nattan @ Perumal
				175/2	175/2A	Private	Dry	300	Periasamy S/o Perumal
				176/3	176/4	Government	Battai	526	Government
				179/1	179/1A	Private	Wet	223	Madhesan S/o Pudukkayan @ Kaliappan
				179/2	179/2A	Private	Wet	456	Madhesan S/o Pudukkayan @ Kaliappan
				180/3	180/3A	Private	Wet	408	Krishnan S/o Pudukkayan @ Kaliappan, Subramani
				180/5	180/5A	Private	Wet	345	Perumal S/o Pudukkayan @ Kaliappan, Govindan S/o Pudukkayan @ Kaliappan
				181	181	Government	Odai	2650	Government
				182	182	Government	Battai	5450	Government
				183	183	Government	Battai	13550	Government
				184	184	Government	Battai	9700	Government
				185	185	Government	MST Road	7050	Government
				186	186	Government	MST Road	13050	Government
				188/1A	188/1A2	Private	Dry	95	Valli W/o Munusamy
				188/1C	188/1C2	Private	Dry	189	Kaliappan S/o Vedi Gounder
				188/2A1	188/2A1B	Private	Dry	37	Govindaraj, Mami, Sekar, Kasilingam, Kumaravel, S/o Munusamy Jothilekshmi D/o Munusamy
				188/2A2	188/2A2B	Private	Dry	423	Govindaraj, Mami, Sekar, Kasilingam, Kumaravel S/o Munusamy Jothilekshmi D/o Munusamy
				188/2B1	188/2B1B	Private	Dry	69	K.G.Narayanasamy, K.G. Kandhasamy, K.G. Moorthy SonS/of Govinda Gounder
				188/2B2	188/2B2B	Private	Dry	61	K.G. Moorthy S/o Govindasamy Gounder
				188/2B3	188/2B3B	Private	Dry	69	K.G. Kandhasamy S/o Govinda Gounder
				188/2B4	188/2B4B	Private	Dry	113	K.G.Narayanasamy S/o Govinda Gounder
				188/2C	188/2C2	Private	Dry	610	Govindasamy S/o Sukkudi @ Kandasamy
				193/2C	193/2C2	Private	Dry	796	Saraswathiammal W/o Pachaiappan, Govindan S/o Thanappa Gounder
				193/2D	193/2D2	Private	Dry	295	Angamuthu S/o Kolandai Gounder
				194	194/2	Government	Pachai Amman Koil	1807	Government
				197/4	197/4	Private	Dry	150	K.S.Kandasamy S/o Chennappa Gounder
				197/5	197/5B	Private	Dry	249	Minor Subramani Guardian Mother Chinnammal, Chinnammal W/o Pachaiappan
				197/13	197/13	Private	Dry	150	Govindan S/o Thanappa Gounder, K.S. Kandasamy S/o Chinnappa Gounder, Subramani S/o Pachaiappan
				198/1	198/1B	Private	Dry	20	Raji Gounder S/o Kaliappa Gounder
				198/2B	198/2B2	Private	Dry	113	Raja Gopal S/o Raji Gounder
				276/1A	276/1A2	Private	Dry	257	Raji Gounder S/o KaliGounder
				276/1B	276/1B2	Private	Dry	223	Raji Gounder S/o KaliGounder
				276/1C	276/1C2	Private	Dry	238	Perumal S/o Thanappa Gounder
				276/1D1	276/1D1B	Private	Dry	203	Usharani W/o Gowran
				276/1D2	276/1D2B	Private	Dry	212	Sambath S/o Kona Gounder
				276/1D3	276/1D3B	Private	Dry	319	Shanmugham S/o Konagounder
				277/1A1	277/1A1B	Private	Dry	519	Saraswathiammal W/o Pachaiappan, Govindan S/o Thanappa Gounder
				277/1A2	277/1A2B	Private	Dry	280	Sadasivam, Madhayan, Chinnaraj, Murugesan SonS/of Munusamy, Muniammal W/o Munusamy
				277/1A3	277/1A3B	Private	Dry	322	Madhayan, Chinnaraj SonS/of Munusamy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				277/2 280/1A1	277/2 280/1A1B	Government Private	MST Road Dry	500 74	Government Govindan S/o Thanappa Gounder, K.P. Anbalagan S/o Pachiappan
				280/1A2 280/1B	280/1A2B 280/3	Private Government	Dry PWD Thumbalah alli left side canal	223 300	Mani S/o Govindachetti Government
				281/1D	281/1D2	Private	Dry	109	Sampath S/o KonaGounder, Chandrasekaran S/o Raji Gounder
				282/1C	282/1C2	Private	Dry	221	Sampath S/o KonaGounder, Chandrasekaran S/o Raji Gounder
				284/1B	284/1B2	Private	Dry	85	Sampath S/o KonaGounder, Chandrasekaran S/o Raji Gounder
				284/1C1	284/1C1B	Private	Dry	256	K.T. Manickam S/o chinna Thanappa Gounder
				284/1C2	284/1C2B	Private	Dry	76	Shanmugham S/o Kona Gounder
				284/1G	284/1G2	Private	Dry	264	Shanmugham S/o Kona Gounder
				285/2A	285/2A2	Private	Dry	441	Dharmaraya samy
				289/1	289/1B	Private	Dry	308	Dharmaraya samy
				290/1A	290/1A2	Private	Dry	521	Govindan S/o Thanappa Gounder K.P. Anbalagan S/o Pachiappan
				301/1A	301/1A2	Private	Dry	251	Kaveri Gounder S/o Mari
				301/1B1	301/1B1B	Private	Dry	412	Kandasamy Gounder S/o Chengoda Gounder, Arumugham S/o Kandasamy Gounder, Vasanthi W/o Periasamy Minor, Danish Kumar Guardian Mother Vasanthi
				301/1B2	301/1B2B	Private	Dry	179	Abbu Gounder, Mallappan, SonS/of Pava Gounder
				302/1	302/1B	Private	Dry	509	Ramayee W/o Ramasamy Gounder Minor Sathi@ Mukambikai Guardian Mother Ramayee
				303/1	303/1B	Private	Dry	1005	L. Kuppusamy S/o Lakshmana Gounder
				314/1B	314/1B2	Private	Dry	345	L. Kuppusamy S/o Lakshmana Gounder, Kaveriammal W/o Peria Perumal @ Perumal
				315/1A	315/1A2	Private	Dry	338	Saroja W/O Alraj
				315/1B	315/1B2	Private	Dry	150	Muthakkal W/o Perumal, Jeya W/o Murugan, Saroja W/o Alraj, Kaveriammal W/o Peria perumal @ Perumal
				315/1C	315/1C2	Private	Dry	204	Jeya W/o Murugan
				315/1D	315/1D2	Private	Dry	197	Kaveriammal W/o Peria perumal
				319/1	319/1B	Private	Dry	420	Ramalingam, Murugesan, Natarajan SonS/of Mariappan, Kaveriammal, D/o Thimmaraya Gounder, Nagaraj, Sundaram SonS/of Thimmaraya Gounder, Mariammal W/o Thimmaraya Gounder

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				320/1	320/1B	Private	Wet	820	Ramalingam, Murugesan, Natarajan Son/S/of Mariappan, Kaveriammal, D/o Thimmaraya Gounder, Nagaraj, Sundaram Son/S/of Thimmaraya Gounder, Mariammal W/o Thimmaraya Gounder, Muruganmal W/o Sigamani
				333/2A	333/2A2	Private	Wet	805	Mariammal, Krishnaveni W/o Thimmaraya Gounder, Shanmugham, Sundaram, Sigamani Son/S/of Thimmaraya Gounder, Nagarani, Kaveriammal D/o Thimmaraya Gounder, Muruganmal W/o Sigamani
				334/10	334/10B	Private	Dry	113	Kaliappan S/o Samiyar @ Perumal, Kaveri S/o Samiyar @ Peria Perumal
				335/7A	335/7A2	Private	Dry	73	Madasan S/o Erusan @ Govindan
				335/7B	335/7B2	Private	Dry	44	Govindan S/o Mari Gounder, Murugesan S/o Govindan
				335/8F	335/8F2	Private	Dry	98	Perumal S/o Subramani
				335/9	335/9B	Private	Dry	99	Ahraj, Govindan, Madasan, Perumal, Murugesan, Subramani Krishnan Son/S/of Kaliappan
				335/19	335/19B	Private	Dry	76	Block Development Officer, Palacode Kaveriammal W/o Peria Perumal
				335/23	335/23B	Private	Dry	259	Madasan S/o Pudukkayan @ Kaliappan
				335/24	335/24B	Private	Dry	27	Kaliappan S/o Ahraj, Kaveriammal W/o Perumal Madasan S/o Pudukkayan @ Kaliappan
				400/1A	400/1A2	Private	Dry	152	Pachiappan S/o Thirupathi Gounder Krishnasamy S/o Munusamygounder, Gungan Begham W/o Abdul Majeeth, Abdul Majeeth S/o Mohmed Kasim, Selvam S/o Narayanan
				400/1B	400/1B2	Private	Dry	290	Chinnasamy S/o Thirupathi Gounder, Jayalakshmi W/o Kannan, Asokhan S/o Pungavann Achari, Krishnasamy S/o Munusamygounder, Jayalakshmi W/o Chinnasamy
				400/1C1	400/1C1B	Private	Dry	26	Duraisamy S/o Sengoda Gounder
				400/3A4	400/3A4A	Private	Dry	8	Subramaniam S/o Palani Gounder
				400/3A5	400/3A5A	Private	Dry	12	Lakshmi W/o Nagarajan
				400/3A7A	400/5	Private	Dry	44	Manimekalai W/o Madhayan
				400/3A7B	400/6	Private	Dry	188	Akbar S/o Budden Sahib, Malliga W/o Thangavel, Kumar S/o Chinnappa Gounder, Kalaivani W/o Murugesan
				401/2B1	401/2B1A	Private	Dry	468	Akbar S/o Budden Sahib, Palanisamy S/o Vaiyapuri, Siraj S/o Makhbul Bai, Govindarajan Ramasamyudayar, Santha W/o Chinnasamy, Madhu W/o Oomayan @ Chinnasamy, Parvin W/o Yasin, S. Karina W/o Subbhan Bai

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				401/2C	401/2C1	Private	Dry	750	Venkatachalapathy, S/o Gopal Minor Jagannathan Guardian Mother Santhi
				403/2A	403/2A1	Private	Dry	398	Venkatachalapathy, S/o Gopal Minor Jagannathan Guardian Mother Santhi
				403/2B1	403/2B1A	Private	Dry	631	Govindasamy S/o Chinnappa
				403/2B2	403/2B2A	Private	Dry	614	Perumal S/o Chinnappa Gounder
				406/3A	406/3A	Private	Dry	100	Perumal S/o Chinnappa Gounder
				406/3B	406/3B1	Private	Dry	384	Akkumari S/o Chinnannan, Shanmugham, Palani, Mathayan Sons of Akkumari
				406/3D	406/3D1	Private	Dry	343	Chinnasamy, S/o RamaGounder 2. Balakrishnan S/o Mariappan
				407/2A1	407/2A1A	Private	Dry	229	Govindasamy S/o Chinnappa Gounder
				407/2A2	407/2A2A	Private	Dry	218	Perumal S/o Chinnappa Gounder
				407/2B	407/2B1	Private	Dry	391	Rajamunal W/o Mariappan
				407/2E1	407/2E1A	Private	Dry	94	Mathayan S/o Subramanian
				407/2E2	407/2E2A	Private	Dry	79	Subramani S/o Angappan
					407/2E2B	Private	Dry	358	Subramani S/o Angappan
				410/1A	410/1A1	Private	Dry	112	Perumal S/O ChinnappaGounder
				411/2A	411/2A1	Private	Dry	684	Govindasamy S/O Chinnappa Gounder
				411/2B	411/2B1	Private	Dry	571	Govindasamy, Perumal SonS/of chinnappa Gounder
				411/2C	411/2C1	Private	Dry	110	Perumal S/O Chinnappa Gounder
				505/2A	505/2A1	Private	Dry	19	Rathinammal W/O Palanivel
				510/1C1	510/1C1A	Private	Dry	8	Govindasamy, Perumal SonS/of Chinnappa Gounder
				510/1C2	510/1C2A	Private	Dry	3	Govindasamy S/o Chinnappa Gounder
				511/2A1	511/2A1A	Private	Dry	396	Govindasamy S/o Chinnappa Gounder
				511/2A2	511/2A2A	Private	Dry	148	Angappan S/o Ramasamy
				511/2B	511/2B1	Private	Dry	610	Angappan S/o Ramasamy
				516/1C	516/1C2	Private	Wet	7	Vadivel, Shanmugam SonS/of Munisamy
				517/1	517/1B	Private	Dry	28	Angappan S/o Ramasamy
				518/1C1	518/1C1A	Private	Dry	278	Govindasamy S/o Chinnappa
				518/1C2	518/1C2A	Private	Dry	134	Subramani S/o Chinnannan
				518/1C3	518/1C3A	Private	Dry	130	Akkumari S/o Chinnannan, Shanmugham, Palani, Madhayan Sons/of Akkumari
				518/1C4	518/1C4A	Private	Dry	126	Andi S/o Chinnannan
				518/1C5	518/1C5	Private	Dry	250	Andi S/o Chinnannan
				518/1C6	518/1C6A	Private	Dry	245	Subramani S/o Chinnannan
				518/2B1	518/2B1	Private	Dry	200	Chinnappa W/o Raman, Mangammal W/o Chinnasamy, Vijaya W/o Murugan, Raja@ Parthiban S/o Palani Gounder
				518/2B2	518/2B2A	Private	Dry	285	Andi S/o Chinnannan
				518/2B3	518/2B3A	Private	Dry	100	Subramani S/o Chinnannan
				518/2B8	518/2B8A	Private	Dry	98	Thotti @ Mariappan S/o Pachiappan
				519	519/1	Government	Eri Water Spread	5845	Government
				537/A	537/A1	Private	Dry	28	S.Rajamanickam S/o Sadayappa Gounder
				538/A3	538/A3A	Private	Dry	1898	S.Rajamanickam S/o Sadayappa Gounder
				538/B3	538/C	Government	Assesse d Waste Dry	4305	Government

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			(2) Periyana- halli	311	311/1	Government	Assessed Waste Dry	2103	Government
				314	314/1	Private	Dry	3750	Sakthivel S/O Pachamuthu, SaradhaSekar W/O MG.Sekar Nanjammal W/O Kolandai Gounder Muthusamy S/O Muthan
				316	316/1	Private	Wet	361	Pachiammal W/O Govinda Gounder
				317	317	Government	Bantai	5950	Government
				318/4	318/4B	Private	Dry	261	Srinivasan S/ORamasamy Rani W/O Srinivasan
				318/5	318/5B	Private	Dry	354	Jayavel S/O Ramasamy
				319/1	319/1B	Private	Dry	101	Jayavel S/O Ramasamy Indian Jally Works Pelow shop
				319/2	319/4	Government	Sugar Mill Road	1700	Government
				319/3D	319/3D2	Private	Dry	474	Poomalai S/O Ramasamy
				320/2	320/2B	Private	Dry	2190	Commissioner Panchayat Union Palacode
				320/3	320/3B	Private	Dry	146	Dasappan S/O Chennichetti
				498	498/2	Government	Path & Odai	3604	Government
				499/B	499/B	Private	Dry	1300	Commissioner Panchayat Union Palacode
				500/1A	500/1A2	Private	Dry	17	Vijayan S/O Kannu Gounder
				503/1	503/1B	Private	Dry	148	Vijayan S/O Kannu Gounder
				503/2	503/2B	Private	Dry	19	Vijayan S/O Kannu Gounder
				504	504/2	Private	Dry	352	Nagammal W/O Muthusamy
				545/1	545/3	Government	Vaikkal	302	Government
				545/2A1	545/2A1B	Private	Dry	70	Gopal S/O Kaveri
				545/2A2A	545/2A2A	Private	Dry	400	Chennachetti S/O Chennuchetti
				545/2B	545/2B2	Private	Dry	2000	Chenna Kesavan S/O Chennichetti
				546/1B1	546/1B1B	Private	Dry	3950	Aligammal W/O Ravi Chennayachetti S/O Chennuchetti Rajendiran S/O Radhakrishnan Ramasamy S/O Nagappan
				546/1B2	546/1B2B	Private	Dry	450	Munusamy S/O Kaveri Gounder
				546/1B4	546/1B4B	Private	Dry	10	Gopal S/O Kaveri
				546/1B5A	546/4	Private	Dry	1050	Chennaiyachetti S/O Chennuchetti
				546/1B5B	546/5	Private	Dry	1200	Jayaraman S/O Gowrappa chetti
				546/2	546/2	Government	Mandaiveli	550	Government
				548/2A	548/2A2	Private	Wet	148	Munusamy S/O Kaveri Gounder
				551/2	551/2B	Private	Wet	120	Thangaraj S/O Muthusamy Nadar
				558/1	558/1A	Private	Dry	3505	Saradha Seker W/O M.G.Sekar
				558/2	558/2A	Private	Dry	24	Sapthagiri P.G Fruit Frashing Private Limited , Ettiya Gounder S/O Porappa Gounder
				560/1	560/1A	Private	Wet	301	Tmt.Saradha Sekar D/O Manickam Chairman of Lord Venkateswara Trust
				561	561	Government	Battai	12350	Government
				562/2	562/2	Government	Koil	2800	Government
				563/1	563/1B	Private	Wet	477	Inbavalli W/O Thukkaram
				563/2	563/2	Government	Mandaiveli	900	Government
				566/2	566/3	Government	Vaikkal	198	Government
				567/2A	567/2A2	Private	Dry	177	Akkumari S/O Akkumari
				567/2B	567/2B2	Private	Dry	1050	Govindasamy S/O Munusamy
				567/2C	567/2C2	Private	Dry	150	Ganesan S/O Venkatraman
				568/1	568/1B	Private	Dry	4650	Govindasamy S/O Munusamy
				568/2	568/2A	Private	Dry	650	Ganesan S/O Venkatraman
				568/3	568/3A	Private	Dry	1620	Govindammal W/O Akkumari Munusamy S/O Kaveri Gounder

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				568/4	568/4A	Private	Dry	450	Munusamy S/o Kaveri
				568/9	568/9	Private	Dry	200	Govindasamy S/O Munusamy Dhanabakkiam D/O Kaveri Munusamy S/O Kaveri
				568/10	568/10A	Private	Dry	20	Munusamy S/O Kaveri Kaveri S/O Kaveri
				574/1A	574/1A2	Private	Dry	100	Chinna mogu S/O Seeran Murugan , Sakkarai Sons of Chinnamoku
				574/1B	574/1B1	Private	Dry	200	Chinnamoku S/O Seeran, Pappathiammal W/O Sengodan Karuppannan S/O Ramasamy, Murugan,Sarkkarai Sons of Chinnamoku Ramakrishnan S/O Manickam Krishnaveni W/O Ramakrishnan
				574/1D	574/1D2	Private	Dry	3650	Chinnamoku S/O Seeran Murugan Sarkkarai Sons of Chinnamoku
				574/1E	574/1E2	Private	Dry	363	Pappathiammal W/O Sengodan, Ramakrishnan S/O Manickam , Krishnaveni W/o Ramakrishnan
				575/1C	575/1C1	Private	Dry	1301	Pappathiammal W/O Sengodan, Ramakrishnan S/O Manickam , Krishnaveni W/o Ramakrishnan
				575/1D	575/1D2	Private	Dry	111	Karuppanna Naickan S/O Ramasamy Ramakrishnan S/O Manickam Krishnaveni W/O Ramakrishnan
				576/1A4	576/1A4B	Private	Dry	706	Chinnamoku S/O Seeran Murugan Sakkarai Sons of Chinnamoku
				576/1A5	576/1A5	Private	Dry	1800	Pappathiammal W/O Sengodan, Ramakrishnan S/O Manickam, Krishnaveni W/O Ramakrishnan
				576/1A6	576/1A6A	Private	Dry	850	Karuppanna Naickan S/O Ramasamy Ramakrishnan S/O Manickam Krishnaveni W/O Ramakrishnan
				576/1A7	576/1A7A	Private	Dry	745	Mani S/O Ramasamy
				576/2A	576/2A	Private	Dry	100	ChinnaGovinda samy S/O Perianna Gounder
				576/2B	576/2B1	Private	Dry	89	Mani S/O Ramasamy , Minor Raji Guardian Mani Kaliammai W/O Raji
				594/2	594/2A	Private	Dry	767	Ramachandiran S/O MuniaGounder, R.Selvam,Govindasamy,Sivaku mar, Sons of Ramachandiran
				595/3	595/3B	Private	Dry	320	Maniammal D/O Andi Gounder
				595/4	595/4B	Private	Dry	3000	Thangammal,,Esodha,Saroja, Daughters of Govindagounder, Govindasamy S/O Govinda Gounder
				595/5	595/5	Private	Dry	150	Ramachandiran S/O MuniaGounder, ChanthayaGounder@ AndiGounder, Selvam,Govindasamy,Siva- kumar Sons of Ramachandiran
				595/8	595/8A	Private	Dry	380	Ramachandiran S/O MuniaGounder,Chanthaya Gounder@AndiGounder,, R.Selvam,Govindasamy, Sivakumar Sons of Ramachandiran

भारत का राजपत्र : असाधारण

[भाग II—खण्ड 3(ii)]

பாக II - கண்ட 3(ii)									
1	2	3	4	5		6	7	8	9
				595/9	595/9A	Private	Dry	500	Maniammal D/o Andi Gounder
				596/1	596/1A	Private	Wet	752	Ramachandiran S/o Munia Gounder, Sannthaya Gounder@ Andi Gounder, R. Selvam, Govindasamy, Sivaku mar, Sons of Ramachandiran
				596/2	596/2A	Private	Wet	87	Ramachandiran S/O Muniyagounder R. Selvam , Govindasamy ,sivakumar Sons of Ramachandiran
				597/2A	597/2A1	Private	Dry	106	Chinnagovindasamy S/O Perianna Gounder
				598/2	598/2A	Private	Dry	352	Chinnagovindasamy S/O Perianna Gounder
				599	599/2	Private	Dry	500	Chinnagovindasamy S/O Perianna Gounder
				600/2A	600/2A2	Private	Wet	450	Thangammal ,Esodha,Saroja Daughters of Govinda Gounder, Govindasamy S/O Govinda Gounder
				600/2B	600/2B	Private	Wet	1250	Ramachandiran S/O Muniyagounder R. Selvam , Govindasamy ,sivakumar Sons of Ramachandiran
				613/1E	613/1E2	Private	Dry	452	Ramachandiran S/O Muniyan R. Selvam , Govindasamy ,sivakumar Sons of Ramachandiran
				613/1F	613/1F	Private	Dry	1600	Thangammal ,Esodha,Saroja Daughters of Govinda Gounder, Govindasamy S/O Govinda Gounder
				613/1G	613/4G	Private	Dry	100	Ramachandran S/o Muniyan Kaveriammal W/o Govindagounder Andiappan, Selvam, Govindasamy Sivakumar, Sons of Ramachandran Yeseetha, Thangammal, Soraja Daughters of Govindagounder Govindasamy S/o, Govindagounder
				614/5	614/5B	Private	Dry	1091	Sivalingam S/o Oomaiyan @ thorai Vijaya W/o Mariappan
				618	618/2	Private	Dry	7182	Nagarajan S/o Thorai Gounder Nagammal W/o Munusamy Siddan S/o Kaverigounder Shanmugam, Gokarnan, Kamalanathan Son S/o Munusamy Kannikeswaeri D/o Munusamy
				619/1	619/1B	Private	Dry	200	Nataraj S/o Kandasamy Chennammal W/o Nataraj
				619/2A	619/2A2	Private	Dry	3092	Nataraj S/o Kandasamy Chennammal W/o Nataraj
				619/2B	619/2B1	Private	Dry	1140	Kalichetty S/o Vengatachetty Mariappan S/o Channakesevan

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				620/2	620/2B	Private	Dry	143
								Vijayakumar S/o Ramakrishna Iyyar Ramesh S/o Dhuraisamy Naidu Jallabarathi D/o Balakrishnan Nansi W/o Johns Nirmalnath Ketharin Samitha D/o Velautham Subbaiah S/o Alagarsamy Mosses Gnasekaran S/o Ramasamy Ponnudi S/o Manikkam Balaganthi S/o Kalichetty Kristopher Japasini D/o Rajarithnam Jabamani S/o John Gnanasundari W/o J. John Sasireka W/o Rajamani Mosses Gnanasekar S/o Ramasamy Santhoesh Raja S/o Gnanasekaran John Sundagarmaj, D. Elisapeth Sangeethraj S/o Gnanasekar Alphones S/o Bakkiyanatham Benjamin kalin, Obbilinaidu S/o Narayananaidu Padmavathi D/o Tamilselvan Ramachandran S/o Ramakrishnan Chakkarabani S/o Munusamiachari Rashmi W/o Kristobar Rajasundaram Jabaraj S/o Yosap Sarasvathi D/o Ilamurugan Benjamin dhanasili W/o Perari Samuvel raj Andersan Somuvel S/o Mosses Kiodar D/o Manikavasagam Meenajayaraj W/o Jayaraj Joyel Kilpert S/o Dhinakaran Jesia Janast S/o Davitkon Elisapath W/o Joeshp Jayalakshmi W/o Venkatraman Ranganathan S/o Vennkatramanaachari Marypaul W/o Paul Nonsi W/o Johns nirmalnath Madeswaran S/o Vettrayan Vanitha W/o S.M. Chinnasamy Kandan S/o Gowran
				621/2D	621/2D2	Private	Dry	335
				621/2E1	621/2E1B	Private	Dry	1685
				622/1B	622/1B2	Private	Dry	30
				622/2	622/2B	Private	Dry	4300
				622/3	622/3B	Private	Dry	5059
				623/1	623/1B	Private	Dry	2260
				623/2	623/2A	Private	Dry	2972
				624/1	624/1A	Private	Dry	110
				624/2	624/2A	Private	Dry	1700
				624/3	624/3A	Private	Dry	1000
				640	640/1	Private	Dry	84
								Kannammal W/o Gopal @ Govindan Saravannan G. Senthil, Senthikumar, Shanmugasundaram Sons Gopal @ Govindan

பாதி II - கட்ட 3 (ii)									
1	2	3	4	5		6	7	8	9
				641/1	641/1	Government	Road Margin	500	Lying as path
				641/2	641/2A	Private	Dry	4845	Saradhasekar D/o Manikkam, Manager of Lord Venkateshwara Educational Trust
				642	642	Government	Road	7450	Lying as path
				643/1	643/1	Government	Road	500	Lying as path
				643/2A	643/2A1	Private	Dry	2335	Saradhasekar D/o Manikkam, Manager of Lord Venkateshwara Educational Trust
				643/2B	643/2B1	Private	Dry	21	Saradhasekar D/o Manikkam, Manager of Lord Venkateshwara Educational Trust
				649/1	649/1	Government	Road	550	Lying as path
				649/2A	649/2A1	Private	Dry	885	Saradhasekar D/o Manikkam, Manager of Lord Venkateshwara Educational Trust
				649/2B	649/2B1	Private	Dry	693	Saradhasekar D/o Manikkam, Manager of Lord Venkateshwara Educational Trust
				649/2C	649/2C1	Private	Dry	770	Saradhasekar D/o Manikkam, Manager of Lord Venkateshwara Educational Trust
				649/2F	649/2F1	Private	Dry	95	Dhasthagir sahib S/o Mohedshasahib Johnbasha, Kadhar Basha Magabubjohn Navobbasha Sons of Dhasthagir sahib
				650/1	650/1	Government	Road	750	Lying as path
				650/2A	650/2A1	Private	Dry	3381	Johnbasha, Kadhar Basha Magabubjohn Navobbasha Sons of Dhasthagir sahib
				650/2B	650/2B1	Private	Dry	111	Subramaniyan S/o Kandasamy
				658/1	658/1	Government	Vaikkal	200	Government
				658/2A1	658/2A1A	Private	Dry	508	Gowerammal W/o Kannan
				658/2A2	658/2A2A	Private	Dry	499	Angammal W/o Govindasamy
				658/2E2	658/2E2A	Private	Dry	1720	Suresh Bonsle S/o J.S. Bonsle
				659/3B2	659/3B2A	Private	Dry	329	Subramani S/o Kaliappa Gounder
				662	662/2	Government	Village Site	543	Government
				667/1A	667/1A2	Private	Dry	238	Kuppanna Gounder S/o Palaniappa Gounder Palaniappa gounder S/o Kuppannagounder
				667/1B1	667/1B1B	Private	Dry	257	Kuppanna Gounder S/o Palaniappa Gounder Palaniappagounder S/o Kuppannagounder
				667/1B2	667/1B2B	Private	Dry	436	Nagammal W/o Krishnan
				667/2A	667/2A	Private	Dry	300	Kuppanna Gounder S/o Palaniappa Gounder Palaniappa gounder S/o Kuppannagounder
				667/2B1	667/2B1	Private	Dry	500	Kuppanna Gounder S/o Palaniappa Gounder Palaniappa gounder S/o Kuppannagounder
				667/2B2	667/2B2	Private	Dry	950	Nagammal W/o Krishnan
				668/2A	668/2A2	Private	Dry	1415	Murugesan S/o Kaveriappa Mudhaliyar
				668/2B	668/2B2	Private	Dry	1038	Ponnusamy S/o Chellakumarasamy
				668/2C	668/2C2	Private	Dry	120	Kuppanna Gounder S/o Palaniappa Gounder Palanigounder S/o Kuppannagounder
				681/1A	681/1A2	Private	Dry	23	Venkatachalam S/o Rangasamy
				681/1B1	681/1B1B	Private	Dry	74	Venkatachalam S/o Rangasamy P.Chinnasamy S/o Samiyar @ Perumal Arumugam S/o Perumal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				681/1F	681/1F2	Private	Dry	25	Ramayee W/o Muthusamy Raji .Venkatachalam Sons of Rangasamy Gunasekaran, Gopalakrishnan sons of Muthusamy
				681/1G	681/1G2	Private	Dry	215	Mariyamman Temple
				682/1A	682/1A2	Private	Dry	99	Saradhasekar Chairman of Lord Venkateshwara Educational Trust
				682/1B	682/1B2	Private	Dry	94	Saradhasekar D/o Manikkam,
				683/1B	683/1B2	Private	Dry	92	Saradhasekar Chairman of Lord Venkateshwara Educational Trust
				683/1C	683/1C2	Private	Dry	50	Saradhasekar Chairman of Lord Venkateshwara Educational Trust
				684/1B1	684/1B1B	Private	Dry	66	Saradhasekar Chairman of Lord Venkateshwara Educational Trust
				743/1A	743/1A2	Private	Dry	500	Ponnusamy S/o Ramuchetty
				743/1B1	743/1B1B	Private	Dry	208	Govindasamy S/o Perumal
				744/1A	744/1A2	Private	Wet	1657	Ponnusamy S/o Ramuchettyyar
				745/1	745/4	Government	Vari	450	Government
				745/2	745/2B	Private	Wet	945	Karuppannan S/o Kumarasamy
				746/1	746/1B	Private	Wet	235	Dhanalakshmi W/o Karuppannan
				746/2	746/2B	Private	Wet	1013	Karuppannan S/o Kumarasamy
				749	749/2	Private	Wet	712	Dhanalakshmi W/o Karuppannan
				750/2	750/2B	Private	Wet	1138	Molayagounder S/o Kumarasamy Sitaramachetty S/o Chinnamadhachetty Natarajan S/o Sitaramachetty
			(3) Baisu halli	8/1	8/3	Government	Vaikkal	500	Government
				8/2A2	8/2A2B	Private	Dry	501	Sivamani Spinning Mills
				10/1	10/1	Government	Vaikkal	550	Government
				10/2A	10/2A2	Private	Dry	1459	Arulmigu Sennakeshwara Swami Kovil
				11/1A	11/1A2	Private	Dry	260	Thanappa Gounder, Mathappan Govindan, SonS/o Kaveri Gounder Muniyammal D/o Kaveri Gounder Nagammal W/o Kaveri Gounder Mathammal W/o Mathappan Madaiyan, Mahalingam, Ramachandiran SonS/o Mathappan
				11/1B	11/3	Government	Vaikkal	91	Government
				11/1C3	11/1C3	Private	Dry	150	Sivamani Spinning Mills
				11/2B	11/2B2	Private	Dry	40	Thimmarayan S/o Perumal Gounder
				11/2D	11/2D2	Private	Dry	192	Sarmila D/o J.Balasubramaiyam
				11/2E	11/2E	Private	Dry	450	Sivamani Spinning Mills Thimmarayan S/o Perumal Gounder.Sarmila D/o J.Balasubramaiyam
				20	20/2	Private	Dry	475	Thanappa Gounder Mathappan, Govindan SonS/o Kaveri Gounder Muniyammal D/o Kaveri Gounder Nagammal W/o Kaveri Gounder Mathammal W/o Mathappan Madaiyan, Mahalingam, Ramachandiran SonS/o Mathappan
				21/1	21/3	Government	Poramboke	600	Govt

भारत का राजपत्र : असाधारण

[भाग II—खण्ड 3(ii)]

भाग II—खण्ड 3(ii)

भारत का राजपत्र : असाधारण

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				21/2	21/2B	Private	Dry	913
								Thanappa Gounder Mathappan, Govindan Son/S/o Kaveri Gounder Muniyammal D/o Kaveri Gounder Nagammal W/o Kaveri Gounder Mathammal W/o Mathappan Madaiyan, Mahalingam, Ramachandiran Son/S/o Mathappan
				22/2	22/2B	Private	Dry	4
								Periyannan S/o Punnan @ Lakshmanan, Chinnasamy, Mariyappan, Mathappan Son/S/o Ramanna Gounder Govindasamy, Natesan, Ganapathi Son/S/o Chinnasamy Kannuppillai W/o Mariappan Perumakkal W/o Mathappan
				42/1	42/4B	Private	Dry	244
								Panni W/o Rangasamy K.Rani W/o Kandasamy
				42/2	42/2B	Private	Dry	264
								P.Perumal S/o Ponnusamy
				42/3	42/3B	Private	Dry	299
								Ponni W/o Rangasamy
				42/4	42/4B	Private	Dry	650
								R.Raja S/o Rangasamy Menaga W/o Raja
				42/5	42/5B	Private	Dry	562
								Rukkammal W/o Andi @ Samiyar. Velumani W/o Loganathan
				43/1	43/3	Government	Battai	1750
								Government
				44/1	44/3	Government	Vaikkal	737
								Government
				44/2B	44/2B2	Private	Dry	120
								Perumal S/o Murugan Velumani W/o Loganathan
				44/2C	44/2C2	Private	Dry	690
								P.Perumal S/o Ponnusamy
				44/2D	44/2D2	Private	Dry	320
								V.Andi @ Samiyar Velumani W/o Loganathan
				44/2E	44/2E2	Private	Dry	130
								Manickam S/o Pachiappa Gounder, Madaiyan, Jayaraman, Son/S/o Kaveri. Panchalai W/o Kasi, Malathi W/o Jayaraman
				50/2	50/2	Government	Battai	1300
								Government
				51	51	Government	Battai	31300
								Lying as path
				52/1	52/1	Government	Road	940
								Government
				52/2	52/5	Government	Battai	70
								Government
				52/3A	52/3A1	Private	Dry	96
								Spl.Officer Baisuhalli, Primary Agriculture Co-op Bank
				53/1	53/1	Government	Vaikkal	600
								Government
				53/2A	53/2A1	Private	Dry	61
								Spl.Officer Baisuhalli, Primary Agriculture Co-op Bank
				53/2B	53/2B1	Private	Dry	370
								Anbu S/o Duraisamy Gounder
				54/1	54/1	Government	Vaikkal	200
								Government
				54/2	54/2	Government	Vaikkal	650
								Government
				54/3A	54/3A1	Private	Dry	95
								Anbu S/o Duraisamy Gounder
				54/3C	54/3C1	Private	Dry	732
								Raja S/o Duraisamy Gounder Mathammal W/o Raja Srinivasan S/o Raja Anandalakshmi, Nithiya D/o Raja
				55/1	55/1	Government	Vaikkal	400
								Government
				55/2	55/2A	Private	Dry	1182
								Elangovan S/o Duraisamy Gounder
				56/1	56/1	Government	Vaikkal	400
								Government
				56/2	56/2A	Private	Dry	1141
								Selvaraja Anthireya S/o Koilraj
				57/1	57/1	Government	Vaikkal	550
								Government
				57/2	57/2A	Private	Dry	1677
								Selvaraja Anthireya S/o Koilraj
				58/1	58/1	Government	Vaikkal	800
								Government

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				58/2A	58/2A1	Private	Dry	1285	Muniyammal W/o M.Munusamy Gounder G.Ramani W/o Subramani Jemiraja W/o Selvaraja Anthireya Kavitha W/o Mathu
				58/2C	58/2C1	Private	Dry	526	P.K.Murugan, K.Madaiyan, Son/S/o Periyakaliyappan Selvi W/o Ramasamy S.Ratha D/o Sennappan Periyannan S/o Kariyan @ Chinnathambi, Muthammal W/o Kariyan @ Chinnathambi Makkan S/o Duraisamy
				59/1	59/1	Government	Vaikkal	600	Government
				59/2A1	59/2A1A	Private	Dry	78	Ponni W/o Rangasamy
				59/2A2	59/2A2	Private	Dry	100	Natesan S/o Chinnasamy
				59/2A3	59/2A3A	Private	Dry	7	Ganapathi S/o Chinnasamy
				59/2A5	59/2A5A	Private	Dry	114	Ulakkan @ Mariyappan S/o Ramanna Gounder Kannuppillai W/o Ulakkan @ Mariyappan
				59/2A6	59/2A6A	Private	Dry	117	Mathappan S/o Ramanna Gounder Perumakkal W/o Mathappan
				59/2A7	59/2A7A	Private	Dry	430	K.Mathaiyan S/o Periya Kaliyappan
				59/2A8	59/2A8A	Private	Dry	148	Ponni W/o Rangasamy Govindasamy, Ganapathi, Natesan Son/S/o Chinnasamy P.K.Murugan, Mathaiyan Son/S/o Periyakaliappan Chinnakaliappan S/o Annamalai Gounder Govindammal W/o Chinnakaliappan Krishnajalam S/o Chinnakaliappan
				60/1	60/1	Government	Vaikkal	300	Government
				60/2A1	60/2A1	Private	Dry	150	Ponni W/o Rangasamy Chinnakaliappan Duraisamy S/o Ponnann @Mathappan
				60/2A2	60/2A2A	Private	Dry	42	Ponni W/o Rangasamy Govindasamy, Ganapathi, Natesan Son/S/o Chinnasamy P.K.Murugan, Mathaiyan Son/S/o Periyakaliappan Chinnakaliappan S/o Annamalai Gounder Govindammal W/o Chinnakaliappan Krishnajalam S/o Chinnakaliappan
				60/2A3	60/2A3A	Private	Dry	430	Ponni W/o Rangasamy
				60/2A4	60/2A4A	Private	Dry	329	Chinnakaliappan S/o Ponnappan @ Mathappan
				60/2A5	60/2A5A	Private	Dry	90	Duraisamy S/o Ponnann @ Mathappan
				61/1A1	61/1A1	Private	Dry	150	Duraisamy S/o Ponnann @ Mathappan Periyakaliappan, Duraisamy Son/S/o Mariayppan Chinnaponnu W/o Periyakaliappan, Mani, Mathaiyan Son/S/o Periyakaliappan Kaliyammal W/o Duraisamy Ganesan, Murugesan Son/S/o Duraisamy
				61/1A2	61/1A2A	Private	Dry	232	Duraisamy S/o Ponnann @ Mathappan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				61/1A3	61/1A3A	Private	Dry	307	Periyakaliappan S/o Mariyappan Chinnapponnu W/o Periyakaliappan, Mani, Mathaiyan SonS/o Periyakaliappan
				61/1A4	61/1A4A	Private	Dry	289	Duraimany S/o Mariyappan Chinnapponnu W/o Periyakaliappan, Mani, Mathaiyan SonS/o Periyakaliappan
				61/1A5	61/1A5A	Private	Dry	102	Periyakaliappan, Chinnakaliappan, Duraimany SonS/o Ponnan @ Mathappan Periyakaliappan, Duraimany SonS/o Mariyappan, Chinnapponnu W/o Periyakaliappan, Mani, Mathaiyan SonS/o Periyakaliappan
				61/1A6	61/1A6	Private	Dry	600	Periyakaliappan S/o Mariyappan Murusamy S/o Kaveri Chetti Nagappan S/o Chinnanan Chinnapponnu W/o Periyakaliappan, Mani, Mathaiyan SonS/o Periyakaliappan
				61/1A7	61/1A7A	Private	Dry	596	Murusamy S/o Kaveri Chetti
				61/1A8	61/1A8A	Private	Dry	110	Murusamy S/o Kaveri Nagappan S/o Chinnanan
				61/1A10	61/3	Private	Dry	82	Periyakaliappan S/o Mariyappan Chinnapponnu W/o Periyakaliappan, Mani, Mathaiyan SonS/o Periyakaliappan
				61/2	61/2	Government	Vaikkal	450	Government
				64/1	64/1	Government	Vaikkal	550	Government
				64/2B	64/2B	Private	Dry	200	Thanappa Gounder, Mathappan, Govindan SonS/o Kaveri Gounder Nagammal W/o Kaveri Gounder Muniyammal D/o Kaveri Gounder Mathammal W/o Mathappan, Mathaiyan, Mahalingam Ramachandiran SonS/o Mathappan
				64/3	64/3A	Private	Dry	1865	Thanappa Gounder, Mathappan, Govindan SonS/o Kaveri Gounder Nagammal W/o Kaveri Gounder Muniyammal D/o Kaveri Gounder Mathammal W/o Mathappan, Mathaiyan, Mahalingam Ramachandiran SonS/o Mathappan
				65/1B	65/1B1	Private	Dry	3255	Anandappa Sannakeshwara Swami Kovil
				65/2	65/2	Government	Vaikkal	300	Government
				66/1	66/1	Government	Vaikkal	400	Government
				66/2B1	66/2B1A	Private	Dry	1128	R.Sandhaman, R.Rangasamy SonS/o K.M.Ragunathan Jagannathan S/o Murusamy Naidu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				66/2B2	66/2B2A	Private	Dry	1243	Chidamparam S/o Munusamy Naidu Krishnamoorthy S/o Kuppan Mathaiyan S/o Lakshmanan Govindasamy, Narayanan S/o C.Muniyan, Sarasu W/o Mathu Naidu, Mathammal W/o Munusamy Gounder, Lakshmi W/o Murugesu Gounder, Krishnan S/o Munusamy Naidu, Vatchala W/o Rathinam Rajammal W/o Vedyappa Chetti Boopathy S/o Raju Naidu Shanmugam S/o Chinna Gounder Shiddammal W/o Vajiram Dhanam W/o Venkatesan Naidu Chinnaraj @ Mathappen S/o Kaliappa Gounder Rathinam S/o Naidu Munusamy Naidu
				66/2B3	66/2B3A	Private	Dry	1217	Jaganathan S/o Munusamy Naidu
				66/2B4A	66/5	Private	Dry	468	Chennakesavan S/o Ranganatha Naidu
				66/2B4B	66/6	Private	Dry	298	D.G.Sennakrishna Chetti S/o D.Govinda Chetti
				70/1A	70/1A1	Private	Dry	710	D.G.Sennakrishna Chetti S/o D.Govinda Chetti
				70/1B	70/1B1	Private	Dry	32	Venkatasala Chetti S/o Govinda Chetti
				191	191/1	Government	Baisu halli Eri	979	Government
				200	200/2	Government	Grazing Ground	3150	Government
				201/2A	201/2A2	Private	Dry	921	Deivanai W/o Boopathi
				201/2C	201/2C2	Private	Dry	1200	Kaveri S/o G.Govindan Sundari W/o Kaveri Govindaraj, Raja, Murugan Krishnan @ Raja SonS/o Kaveri
				201/2D	201/2D	Private	Dry	900	Kaveri S/o G.Govindan Deivanai W/o Boopathi Sundari W/o Kaveri Govindaraj, Raja, Murugan Krishnan @ Raja SonS/o Kaveri
				204/3	204/12	Government	UAW (Kallankut hu)	400	Government
				205/1A	205/1A2	Private	Dry	780	Kannammal W/o Kaliappan Sundari W/o Kaveri
				205/1B1	205/1B1A	Private	Dry	477	Lakshmiammal, P.Muthu, Chinnamuthu, Chinnakaveri, Kaveri, Kaveri, Muthu W/o Gopal, Nanjan S/o Gopal Rajeshwari W/o Govindan Raja S/o Kaveri, Kanthammal W/o Kaveri Kamalammal W/o Madesh Gowrammal, W/o Nanjan
				205/1B2	205/1B2B	Private	Dry	4844	Govindan S/o Venkattarama Gounder, Thulasi W/o Kuppan, Chinnammal W/o Govindasamy, Murugesan S/o Varadan, Chinthamani W/o Raja, Rathinam, Sekar, Selvam SonS/o Kuppan @ Kaveri

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				206/1	206/1B	Private	Dry	7300	Rajammal W/o Chenniya Chetti, Chokkalingam, Annadurai, Chinnaraj, Madhaiyan SonS/o Chenniya Chetti Valli, Madammal D/o Chenniya Chetti
				206/2	206/2A	Private	Dry	137	Kaveri S/o Govindan Sundari W/o Kaveri Govindaraj, Raja, Murugan Krishnan @ Raja SonS/o Kaveri
				207/7	207/7B	Private	Dry	1468	S.Bakthavatchalam S/o Sarangapani
				207/8	207/8B	Private	Dry	344	S.Bakthavatchalam S/o Sarangapani
				207/9	207/9	Private	Dry	400	Rajammal W/o Chenniya Chetti, Chokkalingam, Annadurai, Chinnaraj, Madhaiyan SonS/o Chenniya Chetti Valli, Madammal D/o Chenniya Chetti
				207/10	207/10B	Private	Dry	15	Annadurai S/o Chenniya Chetti
				219/1G	219/1G2	Private	Dry	1800	D.Srinivasan S/o R.Thangavel, S.Bakthavatchalam S/o Sarangapani
				219/2	219/2	Private	Dry	150	Chennakrishna Chetti S/o Govinda Chettiar S.Bakthavatchalam S/o Sarangapani
				220/1	220/1	Private	Wet	1350	S.Bakthavatchalam S/o Sarangapani
				220/2	220/2	Private	Wet	250	Ganesan S/o Govinda Chettiar S.Bakthavatchalam S/o Sarangapani
				220/3	220/3A	Private	Wet	2545	T.G.Ganesan S/o Govinda Chettiar
				220/4	220/4A	Private	Wet	1350	Chenni Chetti S/o Venkattappa Chetti T.G.Ganesan S/o Govinda Chettiar
				225/1	225/1A	Private	Wet	650	Venkatasala Chetti S/o D.Govinda Chetti Alamelu W/o Venkatasala Chetti Manokaran, Chennakrishnan SonS/o Venkatasala Chetti Rani D/o Venkatasala Chetti
				227/1	227/1A	Private	Wet	10	Venkatasala Chetti S/o D.Govinda Chetti Alamelu W/o Venkatasala Chetti Manokaran, Chennakrishnan SonS/o Venkatasala Chetti Rani D/o Venkatasala Chetti
					227/1B	Private	Wet	1000	Venkatasala Chetti S/o D.Govinda Chetti Alamelu W/o Venkatasala Chetti Manokaran, Chennakrishnan SonS/o Venkatasala Chetti Rani D/o Venkatasala Chetti
				228/1	228/1A	Private	Dry	783	Thangammal W/o Kandan Shanmugam S/o Kandan
				228/2	228/2A	Private	Dry	160	Thangavel S/o Rathinavel Gounder
				228/3	228/3A	Private	Dry	224	Madhaiyan S/o Govinda Gounder
				229/1	229/1	Private	Dry	1550	Thangammal W/o Kandan Shanmugam S/o Kandan
				229/2	229/2	Private	Dry	150	Vadivelu S/o Nanjaya Gounder Thangammal W/o Kandan Shanmugam S/o Kandan Murugan, Gourappan SonS/o Vadivelu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				229/3A	229/3A2	Private	Dry	637	Thangavel S/o Govinda Gounder
				229/4	229/4B	Private	Dry	399	S.Thangavel S.Bakthavatchalam SonS/o Sarangapani,
				230/2B	230/2B2	Private	Dry	113	Murugan S/o Vadivel
					230/2B3	Private	Dry	277	Murugan S/o Vadivel
				230/2C	230/2C2	Private	Dry	678	Gourappan S/o Vadivel
				230/3	230/3B	Private	Dry	230	Thangammal W/o Kandan Shanmugam S/o Kandan
				230/4	230/4B	Private	Dry	155	Vadivelu S/o Nanjaya Gounder Thangammal W/o Kandan Shanmugam S/o Kandan Murugan, Gourappan SonS/o Vadivelu
				230/5F	230/5F2	Private	Dry	15	Thangavel S/o Govinda Gounder
				243/1A	243/1A2	Private	Dry	45	Kaliyammal W/o Kullikan @ Munusamy Chetti
				243/1B	243/1B2	Private	Dry	1050	Munusamy S/o Manthiri Gounder @ Chinnanan
				244/1	244/1B	Private	Dry	2800	Munusamy S/o Manthiri Gounder @ Chinnanan
				244/3	244/3	Private	Dry	200	Munusamy, Gopal, K.Venkattarama Chetti
				244/4	244/4B	Private	Dry	900	Ranganathan S/o Lakshmanan, Lakshmi W/o Ranganathan
				244/5	244/5B	Private	Dry	2110	Gopal S/o Kaliyappan Mathammal W/o Gopal Murugan, Kumar SonS/o Gopal.
				244/6	244/6B	Private	Dry	248	Munusamy S/o Chinnana Gounder, Venkattarama Chetti S/o Kaveri Chetti, Gopal S/o Kaliyappan Mathammal W/o Gopal Murugan, Kumar SonS/o Gopal.
				245	245/1	Government	Poramboke	4650	Government
				246/1	246/1B	Private	Dry	7250	Venkattarama Chetti S/o P.Kaveri Chetti Kaliyammal W/o Munusamy Chetti, Anwar, Alamelu, Kantha Chetti S/o Chennu Chetti, Venkattaram S/o Rangappa Chetti, Narayanan S/o Narayanan, Chinnasamy S/oPerumal, Saroja D/o Govindan, Chitra W/o Kumar Murugan, Madhaiyan, (Panneer, Natarajan, Murugan) SonS/o Thalakondan Nanjan S/o Chinnasamy @ Nanjan, Vedyappan S/o Pandiyar, Sankar S/o Muniyappan, Periyasamy S/o Kamman @ Perumal Anwar Basha S/o Rojan Beg, Paritha W/o Anwar Basha, Kanaga Rani W/o Chenni Chetti
				246/2	246/2A	Private	Dry	580	Munusamy S/o Manthiri Gounder @ Chinnanan
				247/1	247/1B	Private	Dry	2700	D.G.Chennakrishna Chetti S/o D.Govinda Chetti
				247/2	247/2B	Private	Dry	4650	M.C.Krishnan S/o Chennaiya Chetti
				248/1	248/1B	Private	Dry	240	Siddan S/o Ramasamy
				248/2	248/2	Private	Dry	450	Beeran, Siddan SonS/o Ramasamy Kuppu W/o KariBeeran Kaveri, Murugan, Sakthivel SonS/o KariBeeran Vijaya D/o Thangavel Biraji W/o Beeran
				248/3	248/3B	Private	Dry	557	Beeran S/o Ramasamy Biraji W/o Beeran

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				248/4	248/4B	Private	Dry	1330	Kariyan S/o Thorali Thangamani W/o Arumugam Palaniyammal W/o Kamalanathan Amshaveni W/o Murugan Poovayee W/o Subramani Kuppu W/o Karibeeran Murugan, Sakthivel, Thangavel Son/S/o Karibeeran
				248/5	248/5	Private	Dry	1450	D.G.Chennakrishna Chetti S/o D.Govinda Chetti
				248/6	248/6	Private	Dry	100	D.G.Chennakrishna Chetti S/o D.Govinda Chetti
				250/3	250/3B	Private	Dry	136	Muthuvediyammal W/o Kandhan
				250/4	250/4B	Private	Dry	1000	Mani, Bothan, Krishnamoorthy Son/S/o Kandhan, Poongodi W/o Ramachandiran
				252	252/2	Private	Dry	1250	M.V.Govindan S/o K.Venkattarama Chetti Mangammal W/o Thirumarugan
				255/1	255/1B	Private	Dry	716	Mami S/o Ramasamy
				255/2	255/2B	Private	Dry	757	Rathinam W/o Thangarasu Sankar, Minor Ganesh, Ramachandiran G/o Rathinam
				255/3	255/3B	Private	Dry	3200	Sundiramani S/o Ramasamy Kalaimani S/o Kumanan Rani W/o Kalaimani
				256	256	Government	Battai	20400	Lying as Path
				257/4	257/4A	Private	Dry	61	D.Anbu, D.Ranganathan, Son/S/o G.K.Duraisamy Gounder, Savithiri W/o Madhaiyan
				272/2C	272/2C1	Private	Dry	12	Murugan S/o Kasi Karibeeran S/o Thorali Kaliyammal W/o Karibeeran
				274/1	274/1	Government	Poramboke	350	Government
				274/2A	274/2A1	Private	Dry	380	Thorali S/o Vangayan
				274/2B	274/2B1	Private	Dry	200	Siddan S/o Thorali Kalaivani W/o Ramanan Agila W/o Magpul Chinnaraj W/o Siddan
				275/2	275/2A	Private	Dry	328	Siddiyammal W/o Thorali
				278	278/1	Private	Dry	972	Raja S/o Kandha Chetti
				279/1	279/1A	Private	Dry	600	Thorali S/o Vangayan
				279/2	279/2A	Private	Dry	719	Kariyan S/o Thorali Thangamani W/o Arumugam Palaniyammal W/o Kamalanathan Amsaveni W/o Murugan Poovayee W/o Subramani Subramani, Kaliyammal W/o Kariyan
				282/1	282/1A	Private	Dry	485	Kamala W/o Pachiyappan Eddu Veeramani S/o Pachiyappan
				282/2	282/2A	Private	Dry	780	Thorali S/o Vangayan
				285/1A	285/1A1	Private	Dry	516	K.Kumar, K.Sakthivel, K.Venkattaraman, K.Gopal Son/S/o S.V.Kali Chetti K.Kumar Managing Director of Senthil Food Products J.Usha W/o K.Jayarajan
				285/1B	285/1B1	Private	Dry	400	M.C.Krishnan S/o Chennaiya Chetti
				285/2	285/2	Government	Battai	650	Government
				287/1	287/1A	Private	Dry	800	Jagadeesan S/o K.A.Sivaprakasam

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				287/2	287/2A	Private	Dry	1194	K.Kumar, K.Sakthivel, K.Venkattaraman, K.Gopal Son/S/o S.V.Kali Chetti K.Kumar Managing Director of Senthil Food Products J.Usha W/o K.Jayaraman
				288/2A	288/2A1	Private	Dry	540	Kalaimagal Sabha Gandhi S/o Thimmaraya Chetti
				288/2B	288/2B1	Private	Dry	500	Venkattasalam S/o Sivaprakasam
				379/2	379/2	Government	Water spread area	3050	Government
				380	380/1	Government	Eri	2450	Government
				381	381/1	Government	Battai	1250	Government
				382	382/2	Government	Battai	6000	Government
		2. Dharm apuri	(1) Nallana- halli	8/3B6	8/3B6B	Private	Dry	189	K.Easvaramoorthi S/o Appavu @ Kaliannan
				8/5	8/6	Government	Odai Pillaiyar Koil	450	Government
				20/1	20/1B	Private	Wet	957	Kaliammal W/o Thambi Gounder
				20/2B	20/2B2	Private	Dry	1450	Seerangan W/o Ramasami Nayakar
				20/2C1	20/2C1B	Private	Dry	480	1.D.N.Manivannan S/o D.N.Chinnasami 2.D.C.Ilangovan S/o D.N.Chinnasami
				20/2C3A	20/5	Private	Dry	755	1.D.N.Manivannan S/o D.N.Chinnasami 2.D.C.Ilangovan S/o D.N.Chinnasami
				20/2C4	20/2C4B	Private	Dry	35	1.Subramani S/o Kandappa Gounder 2.Saravanan S/o Kuppusami
				20/2D	20/2D2	Private	Dry	8	1.Karuppasami Nayakar S/o Ramasami Nayakar 2. Kunjmani @ Munian S/o Karuppasami Nayakar 3.Ramasami S/o Karuppasami Nayakar 4.Kannupaiyan S/o Karuppasami Nayakar 5.Santhi W/o Venkatesan 6.Premkumar S/o Venkatesan (Minor)
				21	21/2	Private	Wet	1448	Chemiyapan S/o Appavu @ Kaliannan
				22	22	Government	Road	8600	Government
				23/1	23/1A	Private	Dry	1808	Mahendiran S/o Ponnusami
				23/3	23/6	Government	Odai	153	Government
				24/1	24/1A	Private	Dry	2572	1.Balamurugan S/o Ramasami 2.Ramasami S/o Muthu Gounder
				24/2A	24/2A1	Private	Wet	1860	Nagarajan S/o Ponnusami Gounder @ Nallaiya Gounder
				24/4A1	24/4A1A	Private	Wet	1650	Duraisami S/o Govinda Gounder
				25	25	Government	Road	6500	Government
				26/1A	26/1A	Private	Dry	1250	Pachiammal W/o Duraisami
				26/1B	26/1B1	Private	Dry	403	Pachiammal W/o G.G.Duraisami
				36/1B	36/1B1	Private	Wet	4400	Easvaramoorthi S/o Appavu @ Kaliannan
				36/2B	36/2B	Private	Wet	100	1.Chinnasami S/o Rajappan @ Govindasami 2.Manickam S/o Malla Gounder

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				36/3B	36/3B1	Private	Dry	810	1.Chinnasami S/o Rajappan @ Govindasami 2.Manickam S/o Malla Gounder
				37/3A	37/3A1	Private	Dry	1462	1.Marakkal 2.Rami 3.Subramani 4.Kunjiammal 5.Sekar 6.Sampath 7.Kumar 8.Sankar 9.Ramesh 10.Arunachalam S/o KuppuGounder 11.Nagaraj S/o Perumal 12.Babu S/o Santhamoorthi 13.Kuila 14.Krishnamoorthi S/o Govindaraj (Guardian Kuila) 15.Ramachandran S/o Ranganathan 16.Sivalingam S/o Chinnasamy 17.Kamalesan S/o Chinnathambi 18.Dhasarathan S/o Ranganathan 19.Murugesan S/o Rangasamy 20.Sumithira W/o Rajesh
				37/3B	37/3B1	Private	Dry	840	1.Mani S/o Sundarraj 2.Sekar S/o Sundararajan 3.Sampath S/o Sundararajan 4.Mainavathi W/o Krishnappa
				37/4	37/ 6	Government	Vandi Pathai	350	Government
				37/5	37/5 A	Private	Dry	470	1.Marakkal 2.Rami 3.Subramani 4.Kunjiammal 5.Sekar 6.Sampath 7.Kumar 8.Sankar 9.Ramesh 10.Arunachalam S/o KuppuGounder 11.Nagaraj S/o Perumal 12.Babu S/o Santhamoorthi 13.Kuila 14.Krishnamoorthi S/o Govindaraj (Guardian Kuila) 15.Ramachandran S/o Ranganathan 16.sivalingam S/o Chinnasamy 17.Kamalesan S/o Chinnathambi 18.Dhasarathan S/o Ranganathan 19.Murugesan S/o Rangasamy 20.Sumithira W/o Rajesh
				38/1B	38/1B1	Private	Dry	1029	M.Kannammal W/o Munusami
				38/3	38/3B	Private	Dry	1205	Chennappan S/o Boodhalan
				38/4B	38/4B1	Private	Dry	1687	Muthusami S/o Kandappa Gounder
				39/1	39/1A	Private	Dry	13	Members Kalaimagal Saba Komarapalayam
				39/2B	39/2B1	Private	Dry	2300	Members Kalaimagal Saba Komarapalayam
				43/1A	43/1A2	Private	Wet	1500	Kuppai yammal W/o Appavu Gounder
				43/1B	43/1B2	Private	Wet	1365	Raji9 S/o Boodhala Gounder

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				43/2A	43/8	Government	Pachaiam man Koil Panch-ayat Element ary School	630	Government
				43/3D1	43/3D1B	Private	Dry	20	1.Jeeva S/o Manickam 2.Krishnan S/o Appu Gounder
				43/3D2	43/3D2	Private	Dry	50	Kuppan S/o Muniappan
				43/3D3	43/3D3	Private	Dry	50	Madhaiyan S/o Boodhalan
				43/3E	43/3E2	Private	Dry	310	1.Nagan S/o Muniappa Gounder 2.Attukaran @ Peraman 3.Balamurugan S/o Nagappan 4.Gnanasekaran S/o Perumal
				43/3F1A	43/5	Private	Dry	113	1.Raji S/o Boodhalan 2.Nagan 3.Venkatachalam S/o Muthu Gounder 4.Valarmathi W/o Gopal 5.P.Gnanasekaran S/oPerumal
				43/3F1B	43/6	Private	Dry	152	1.Vediappan S/o Kaliappan 2.Arumugam S/o Kaliappan 3.Sakthivel S/o Kaliappan
				43/3F1C	43/7	Private	Dry	1100	1.Nagan 2.Raji S/o Boodhalan 3.Venkatachalam S/o Muthu Gounder 4.Valarmathi W/o Gopal 5.Gnanasekaran S/oPerumal
				64/4A	64/4A2	Private	Dry	1200	Muthusamy S/o Kandhappa, Gounder
				64/5A	64/5A2	Private	Dry	450	1.Chinnammal W/o Kaliannan 2.Chenniappan S/o Kaliannan 3.Eswaramoorthi S/o Kaliannan
				64/5B	64/5B2	Private	Dry	600	Chenniappan S/o Kaliannan
				64/5C	64/5C2	Private	Dry	400	1.Chinnammal W/o Kaliannan 2.Chenniappan S/o Kaliannan 3.Eswaramoorthi S/o Kaliannan
				65/1	65/1B	Private	Dry	583	Natarajan S/o Nalliyagounder
				65/2	65/2	Private	Dry	600	Natarajan S/o Nalliyagounder
				66/1	66/1B	Private	Dry	986	Subraminan S/o Palaniappa Gounder
				67/1B	67/1B2	Private	Dry	345	Subraminan S/o Palaniappa Gounder
				67/2A	67/2A2 67/2A3	Private Private	Dry Dry	368 197	1.Govindasami S/o Ramasami 2.Balakrishnan S/o Arthanari Chetti
				67/2B	67/2B2	Private	Dry	122	1.Shanavas Begam 2.Sayed Abdul Kalam 3.Sayed Yas 4.A.Regan S/o Dr.Abdul Suban 5.Gustharjan W/o Shami Ulla 6.A.Ilias D/o Dr.Abdul Suban
				67/3	67/3B	Private	Dry	891	Nadesan S/o Periya Gounder
				67/4	67/4B	Private	Dry	602	Nadesan S/o Periya Gounder
				71/1 A	71/1A	Private	Dry	500	Members Kalaimagal Saba Komarapalayam
				71/1B	71/1B1	Private	Dry	2100	Members Kalaimagal Saba Komarapalayam
				71/2A	71/2A	Private	Dry	300	Members Kalaimagal Saba Komarapalayam
				71/2B	71/2B1	Private	Dry	750	Members Kalaimagal Saba Komarapalayam
				71/3A	71/3A	Private	Dry	250	Members Kalaimagal Saba Komarapalayam
				71/3B	71/3B1	Private	Dry	255	1.Thangavel S/o Kuppumuchari 2.Athiyappa Achari S/o Nalliyar Achari
				71/3C	71/3C1	Private	Dry	264	Members Kalaimagal Saba Komarapalayam
				72/1B1	72/1B1A	Private	Dry	2183	Basuvaraj S/o Samikannu
				72/1B2	72/1B2A	Private	Dry	526	Basuvaraj S/o Samikannu

பரீட்சை - 3(11)									
1	2	3	4	5		6	7	8	9
				74	74/1	Government	Road	700	Government
				75/1A1	75/1A1A	Private	Dry	909	Ravindran S/o Perumal
				75/1A2	75/1A2A	Private	Dry	2750	P.K.Paunraj S/o Kuppusamy Devar
				75/1C	75/1C1	Private	Dry	522	P.K.Paunraj S/o Kuppusamy Devar
				123	123/1	Government	Vandi Pathai	193	Government
				127/1B	127/1B1	Private	Dry	350	1. Managing Director, Srinivasan & Co, Dharmapuri 2. TamilNadu Agriculture University, Coimbatore.
				127/2B	127/2B1	Private	Dry	101	Accounts Auditor, TamilNadu Agriculture University, Coimbatore
				127/3B	127/3B1	Private	Dry	102	Accounts Auditor, TamilNadu Agriculture University, Coimbatore.
				127/4B1A	127/4B1A	Private	Dry	250	1. Accounts Auditor, TamilNadu Agriculture University, Coimbatore. 2. Ganesamoorthi S/o Krishnan, 3. Kesavan S/o Krishnan 4. Velu S/o Krishnan 5. Vivekanandan S/o Chinnathamba Gounder 6. Subramani S/o Chinnathamba Gounder 7. Moorthi S/o Chinnathamba Gounder 8. Nageswari W/o Chinnasamy
				127/4B1B	127/4B1B	Private	Dry	24	Madhu S/o Manickam Chettiyar.
				127/4B1C	127/4B1C	Private	Dry	37	Madhu S/o Manickam Chettiyar.
				127/4B2	127/4B2A	Private	Dry	31	Balan S/o Ganapathi
				128/1	128/1A	Private	Dry	2050	Gopal S/o Nanjappa
				128/2A	128/2A1	Private	Dry	605	Pachiammal W/o Sivaraaj
				128/2B1	128/2B1	Private	Dry	100	1. Thangammal W/o Chinnaraj 2. Ponnusamy S/o Chinnaraj
				128/2B2	128/2B2A	Private	Dry	60	1. Krishnan S/o Lakshmanan 2. Thangavel S/o Lakshmanan
				128/2B3	128/2B3 A	Private	Dry	1200	Rama Gounder S/o Poesari Gounder
				131/1	131/1	Private	Dry	550	B. Muthukumar S/o K.C. Boopal
				131/2A1A	131/2A1A	Private	Dry	3550	1. B. Muthukumar S/o K.C. Boopal 2. Perumal S/o Chinnasamigounder 3. Govindan S/o Chinnasamigounder 4. Annamalai S/o Chinnasamigounder 5. Kalyanasundaram S/o Palani
				131/2A1C	131/2A1C	Private	Dry	455	1. B. Muthukumar S/o K.C. Boopal 2. Perumal S/o Chinnasamigounder 3. Govindan S/o Chinnasamigounder 4. Annamalai S/o Chinnasamigounder 5. Kalyanasundaram S/o Palani 6. Pandiyan S/o Palani 7. Selvam S/o Palani 8. Sankhi W/o Balasubramanian
				131/2A2	131/2A2A	Private	Dry	310	Secni S/o Kaveri Gounder
				140/1A	140/1A	Private	Dry	500	Syed Hamed Basha S/o Syed gouse.

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY									(PART II) - SEC. 3(ii)
1	2	3	4	5		6	7	8	9
				140/1B1A	140/1B1A	Private	Dry	1076	1.G.Nagarajan 2.Natarajan 3.Madhu 4.Munusamy 5.Perumal 6.Annamalai S/o Munusamy Gounder 7.Manjula W/o R.Manoharan 8.Madhu S/o Boothal 9.Murugan S/o Boothal 10.JamunaRani W/o Elangovan
				140/1B1B	140/1B1B	Private	Dry	249	Murugan S/o Boothal
				144/1B1	144/1B1	Private	Dry	150	Vivekanandan, S/o Lakshmikandan
				144/1B2A	144/1B2A	Private	Dry	60	1.Thennarasu 2.Mohan 3.Vimalan
				144/1B2B	144/1B2B	Private	Dry	1337	Vivekanandan S/o Lakshmikandan
				144/2B1	144/2B1	Private	Dry	100	1.Thennarasu 2.Mohan 3.Vimalan
				144/2B2A	144/2B2A	Private	Dry	48	Lashumikandhan S/o Nanjundasami
				144/2B2B	144/2B2B	Private	Dry	625	1.Thennarasu 2.Mohan 3.Vimalan
				144/3B1	144/3B1	Private	Dry	150	1.Thennarasu 2.Mohan 3.Vimalan
				144/3B2	144/3B2A	Private	Dry	662	1.Thennarasu 2.Mohan 3.Vimalan Minors sons of Natarajan
				144/4A	144/4A	Private	Dry	50	1.Kuppan S/o KonaGounder 2.Pachammal W/o (Late) Kuppan
				144/4B	144/4B1	Private	Dry	647	1.Kuppan S/o KonaGounder 2.Pachammal W/o (Late) Kuppan
				144/5A	144/5A	Private	Dry	50	1.Soundaram W/o Anbalagan 2.Sivakumar S/o Govindan
				144/5B	144/5B1	Private	Dry	271	Sivakumar S/o Govindan
				144/6A	144/6A	Private	Dry	50	Kutti S/o Mottaiyan
				144/6B	144/6B1	Private	Dry	271	Kutti S/o Mottaiyan
				144/7A	144/7A	Private	Dry	350	Kutti S/o Mottaiyan
				144/7B	144/7B1	Private	Dry	720	Kutti S/o Mottaiyan
				148/1	148/1A	Private	Dry	1000	Paunraj S/o Kuppusamy Devar
				148/6B	148/6B1A	Private	Dry	765	Paunraj S/o Kuppusamy Devar
				150/2B	150/2B2	Private	Dry	1100	Durai S/o Munusamy
				150/3B	150/3B2	Private	Dry	426	Kumar S/o Munusamy
				151/3D1	151/3D1B	Private	Dry	210	Kumar S/o Munusamy
				151/3D2	151/3D2B	Private	Dry	1	Ranganathan S/o Kandasamy Gounder
				160/7	160/7B	Private	Dry	200	1.K Mari W/o Late Raji 2.Kolaiyan @ Raji S/o Sevidan
				161/6A1	161/6A1B	Private	Dry	1000	Raji S/o Krishnan
				161/6A2	161/6A2B	Private	Dry	1140	Arul Mozhi W/o Dhakshinamoorthi
				161/6A3F	161/11	Private	Dry	1550	R.Jaganathan Secretary, All Motor Owners Association, Dharmapuri.
					161/12	Private	Dry	237	1.Balagurusamy S/o Varadharajulu Naidu 2.Murugesan S/o Manickam 3.Krishnan S/o Munusamy Achari 4.Raman S/o Vadivel Achari

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				161/6A4	161/6A4	Private	Dry	1800	1.Balagurusamy S/o Varadharajulu Naidu 2.Krishnan S/o Munusami Achari 3.Velu S/o Palaniappan 4.Raman S/o vadivel; Achaari
				161/7	161/7B	Private	Dry	30	Chitra W/o Navamani
				161/10	161/10 B	Private	Dry	187	Navamani S/o Raji
				167/1A1A	167/5	Private	Dry	290	Ranganathan S/o Sevethan
				167/1A2B	167/6	Private	Dry	600	Appunugounder S/o Kaverigounder
				167/1A4	167/1A4B	Private	Dry	512	Madhaiykrishnan S/o Nadupaiyagounder
				168/4	168/ 14	Government	Vandi Pathai	2	Government
				168/5A2B	168/9	Private	Dry	197	Bala Nagammal W/o Madhaiya Krishnan
				168/5A2C	168/10	Private	Dry	179	Indian Oil Corporation, Coimbatore.
				168/6A2	168/6A2B	Private	Dry	280	Indian Oil Corporation, Coimbatore.
				168/7A2	168/7A2B	Private	Dry	396	1.Aranganathan S/o Sevathan 2.Vetrivel S/o Aranganathan
				168/8A1	168/8A1B	Private	Dry	16	1.Aranganathan S/o Sevathan 2.Vetrivel S/o Aranganathan
				168/8A2A	168/11	Private	Dry	230	Amaravathi@ Sulochana W/o Krishnamoorthi
				168/8A2B	168/12	Private	Dry	100	1.Selvam W/o Raja 2.Vennila W/o Selvam 3. Dinesh Kumar S/o Selvam 4. Nivetha D/o Selvam 5. RajaKutti S/o Rama Gounder
				168/8A2C	168/13	Private	Dry	110	Amaravathi@ Sulochana W/o Krishnamoorthi
				169/1	169/ 5	Government	Vandi Pathai	373	Government
				169/2A2	169/2A2B	Private	Dry	2250	Vadivelan, President, Lakshmi Ammal Educational Trust
				169/3A	169/3A2	Private	Dry	560	Rajeswari W/o Manogaran
				169/ 4A	169/4A	Government	Anatheena m	550	Government
				189/1	189/1B	Private	Dry	750	1.Rajakannu S/o Venkata Krishnan 2.D.N.V.Elangovan
				189/2	189/2	Private	Dry	200	1.Rajakannu S/o Venkata Krishnan 2.Lala @ Subbarayan S/o Mortaiya Gounder
				189/4	189/4B	Private	Dry	750	ChinnaPaiyan S/o Nanja Gounder
				189/7A	189/7A2	Private	Dry	251	Murugan S/o Kullian @ Chinna Muniz
				189/8	189/8	Private	Dry	200	1.Chinnasamy S/o Nanja Gounder 2.Chinna paiyan S/o Nanja Gounder 3. Marimuthu S/o Nanja Gounder 4.Kannan S/o Karikilavan 5.Venkatraman S/o Kali 6.Lakshmi W/o Kannupaiyan 7.Rukmaniammal W/o Natarajan 8 Vimalan S/o Natarajan 9. Mogan S/o Natarajan (Minor Gaurdian Mother Rukmaniammal) 10.Thennarasu S/o Natarajan 11. Santhi D/o Natarajan 12. Vijayalakshmi D/o Natarajan (Minors Gaurdian Mother Rukmaniammal)

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				189/9	189/91	Private	Dry	770	Senthil Rajan S/o Panneerselvam
					189/9C	Private	Dry	1	Senthil Rajan S/o Panneerselvam
				189/10	189/10B	Private	Dry	243	Mannar S/o Kali
				189/11	189/11B	Private	Dry	2026	1. Thirunavukkarasu 2. Rajaganapathi S/o Thirunavukkarasu
				189/12A	189/12A	Private	Dry	550	1. Sasikumar 2. Vadamalai 3. Kumara Udaiyar 4. Vellich 5. Thirunavukkarasu
				189/12B	189/12B	Private	Dry	150	Kamaraj S/o Narashiman
				189/12C	189/12C	Private	Dry	700	1. Sasikumar 2. Vadamalai 3. Kumara Udaiyar 4. Vellich 5. Thirunavukkarasu
				190	190/2	Government	Road	1600	Government
				191/2	191/7	Government	Burial Ground	3126	Government
				191/3A	191/3A2	Private	Dry	2275	Krishnan S/o Elaiya perumal
				191/3C	191/3C2	Private	Dry	3370	1. Chinnapillai W/o Jeyaraman 2. Madaiyan S/o Jeyaraman 3. Jeyaraman S/o Eyyaperumal
				191/4	191/4A	Private	Dry	3749	Raja S/o Duraisamy Udaiyar
				191/5A2A	191/5A2A	Private	Wet	400	Kumara Udaiyar S/o Ponnusamy Udaiyar
				198/2	198/2B	Private	Dry	6600	Sivalingam S/o Sendraya Gounder
				198/3	198/3B	Private	Dry	560	1. Govindan @ Raju 2. Subramaniam 3. Murugan 4. Kandan 5. Savithri
				198/4	198/4	Private	Dry	700	Raja S/o Duraisamy Udaiyar
				199	199/2	Government	Vaikkal	1450	Government
				207/3A6	207/3A6A	Private	Dry	85	1. Periyasamy S/o Periya Vedi Gounder 2. Tamilselavan S/o Chokkalingam
				207/3B3B	207/3B3B	Private	Dry	58	Tamilselavan S/o Chokkalingam
				208	208/1	Government	Road	6431	Government
				209/2	209/2A	Private	Dry	258	Vediappan S/o Matha Gounder
				209/5	209/5A	Private	Dry	388	1. Periyasami S/o Krishna Gounder 2. Indhira W/o Thambidurai 3. Navin (Minor) S/o Thambidurai 4. Govindhammal W/o Periyasami 5. Saraswathi W/o Alagesan
				209/8	209/8A	Private	Dry	192	1. Vediappan S/o Periya Gounder 2. Periyasami S/o Periya Gounder 3. Chinnavedi Gounder S/o Allimuthu Gounder 4. Muthukumaran S/o Matthu Gounder 5. Raja S/o Matthu Gounder 6. Periyasami S/o Krishna Gounder
				209/9	209/9A	Private	Dry	84	Chinnavedi Gounder S/o Allimuthu Gounder
				209/15	209/15	Government	Village Site	164	Government
				211/4B	211/4B2	Private	Dry	2711	1. Pachiappan S/o Kulathi 2. Baskar S/o Pachiappan 3. Annamalai S/o Pachiappan
				211/5	211/5B	Private	Dry	1537	1. Ganapathi Chettiyar S/o Lingappa Chrttiyar 2. Gunaseelan S/o Ramanathan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				213/IG	213/IG2	Private	Dry	149	1.Parasuraman S/o Mecheri 2.Lakshmanan S/o Mecheri 3.Madhayan S/o Nagappan 4.Akkappan S/o Nagappan 5.Kuppanna Gounder S/o Kanda Gounder 6.Munusami S/o Munusami 7.Commissioner Panchayat Union Dharmapuri
				213/IL1B	213/IL1B	Private	Dry	50	Rajendiran S/o Mariappa Gounder
				213/IL2	213/IL2B	Private	Dry	75	Rajathi W/o Palani
				213/IL5	213/IL5	Private	Dry	50	Murugan S/o Angappan
				213/IL6	213/IL6B	Private	Dry	98	Sagadevan S/o Govindasami
				213/IJ1	213/IJ1B	Private	Dry	140	Madhammal W/o Chinnappayan
				213/IJ2	213/IJ2 B	Private	Dry	1148	1.Madhayan S/o Kuttiyappan @ Mariappan 2.Madhu 3.Muthusami S/o Boodhal 4.Kalyanasundaram
				213/IS	213/IS2	Private	Dry	25	1.China Maryvedian @ Mariappa Gounder S/o Kunji Gounder 2.Arivalagan S/o Periyasami
				214/1A2	214/1A2B	Private	Wet	1450	1.Nednchezian S/o Periyasami 2.Mathivanan S/o Periyasami 3.Chinnamaruvedian @ Mariappagounder S/o Kunjigounder
				214/1A3	214/1A3B	Private	Wet	520	1.Sekar S/o Boodhal 2.Boodhan S/o Kullian @ Boodhlagounder
				214/1B	214/1B	Government	National Highways Road Margin	500	Government
				214/1C	214/1C	Government	National Highways Road Margin	800	Government
				214/2A1	214/2A1B	Private	Wet	850	1.Oomaiyan @ Dhonnaiyan S/o Dhillan @ Perumal Gounder 2.Sivalingam S/o Dhonnaiyan
				214/2A2	214/2A2B	Private	Wet	670	Anbu S/o Oomaiyan @ Dhonnaiyan
				214/2B	214/2B	Government	National Highways Road Margin	700	Government
				214/3B	214/3B2	Private	Dry	1740	1.China Maryvedian @ Mariappa Gounder S/o Kunji Gounder 2.Arivalagan S/o Periyasami 3.Nednchezian S/o Mariappan 4.Mathivanan S/o Mariappan 5.Mani S/o Periyasami
				215	215	Government	Road	4400	Government
				216	216	Government	Road	6400	Government
				217/1	217/1A	Private	Wet	470	1.Muthukumar S/o Boobal 2.Vasuki W/o Muthu Kumar
				217/2A1	217/2A1A	Private	Dry	83	1.Thangavel 2.Velu S/o Periannan 3.Murugan S/o Pachappan
				217/2A3	217/2A3A	Private	Dry	30	Velu S/o Periannan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				217/2B1A	217/2B1A	Private	Dry	650	1.Arulmozhi W/o Saravanan 2.Tgangel S/o Attukaran @ Adaya Gounder 3.Madhu S/o Chidhambaram 4.Boodhal S/o Kasi 5.Saravanan S/o Shanmuga Gounder 6.Navamani S/o Raji 7.Idumban 8.Mani 9.Sadhasivam S/o Shanmugam 10.Perumal S/o Buddagounder 11.J.Arumugam 12.R.Dharmalingam
			(2) Reddi halli	217/2B2 29	217/2B2A 29/1	Private Private	Dry Dry	33 3750	Velu S/o Perinanan Maniyammal W/o Subiramani
				30/1	30/1B	Private	Dry	2850	Rathinammal W/o Dhanasamichetty
				30/2	30/2B	Private	Dry	5000	Madhammal W/o Seerangachetty
				31	31/2	Private	Dry	143	Munusamy S/o Muniyan
				32/1	32/1 A	Private	Dry	183	Muniammal W/o Muniyappachetty
				32/2A	32/2A	Private	Dry	150	Rathinammal w/o Dhanasamychetty
				32/2B	32/2B1	Private	Dry	14	Madhammal W/o. Seerangachetty
				32/4	32/4 A	Private	Dry	390	Nanjappan S/o Nanjappan
				34/1	34/1 B	Private	Dry	4840	1. Govindasamy S/o Oomaiyan @ Ramasamy gounder 2. Rajakrishnan S/o Oomaiyan @ Ramasamy gounder 3. Kaliappan S/o Oomaiyan @ Ramasamy gounder 4. Ramasamy S/o Oomaiyan @ Ramasamy gounder
				34/2	34/2 B	Private	Dry	4250	1.Muniyammal 2.Dhasichetty S/o Rangachetty 3.Nagarathinam W/o Adimoolam 4.Deva 5. Natarajan 6.Dasichetty 7.Rangachetty S/o Dasichetty 8.Santhi
				35/1A	35/1A 1	Private	Dry	8	1. Govindasamy S/o Oomaiyan @ Ramasamy gounder2. Rajakrishnan S/o Oomaiyan @ Ramasamy gounder 3. Kaliappan S/o Oomaiyan @ Ramasamy gounder 4. Ramasamy S/o Oomaiyan @ Ramasamygounder
				35/2	35/3	Government	Battai	109	Government
				40/1	40/1A	Private	Dry	100	Periyasubbu S/o Kasikullan
				42/1	42/1	Private	Dry	300	Marimuthu S/oManika Meshthri
				42/2	42/2A	Private	Dry	3115	Chinnakutti S/o Kullanuran @ Sevatha Gounder
				42/3	42/3A	Private	Dry	480	Chinnasubbu S/o Nanjappan
				42/4	42/4A	Private	Dry	165	Kutti @ Nanjappa Gounder S/o Kullanuran @ Sevatha Gounder
				43/1	43/1B	Private	Dry	3700	Nanjammal W/o Siniki @ Madhan
				44/4	44/4 B	Private	Dry	1442	Nanjammal W/o Sinikian @ Madhan
				45/1D	45/1D2	Private	Dry	495	1.Senrayan S/o Pattukaran @ Muniyan 2.Maniyammal W/o Mariyappan
				50	50/2	Government	Battai	440	Government

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				51/2	51/2 B	Private	Dry	2756	1.Madhammal D/o Kandappa Chetty 2.Janaki D/o Kandappachetty 3.Devuka W/o Sakkarachetty 4. Nanjappan S/o Madhuchetty
				64/1B	64/1B 2	Private	Dry	584	Madhu S/o. Chinnikan @ Madhan
				65/1	65/1 B	Private	Dry	1950	Muniyammal W/o Kuppan
				65/2	65/2 B	Private	Dry	2295	1.Nanjappan S/o Kanniyappan 2.Pirabu S/o Kalliappan 3.Ramkumar S/o Kalliappan 4.Sivaperakasam S/o Kalliappan (Sl.No 2,3& 4 Minors Guardian Mother Muniyammal) 5.Muniyammal W/o Kalliappan
				65/3	65/3 A	Private	Dry	690	Dhonnaiyan @ Muniyappan S/o Kesikulan
				65/6	65/6 A	Private	Dry	480	1.Govindan S/o Pachaiappan 2.Mani S/o Pachiyappan 3.Ramakrishnan S/o Pachaiappan 4.Kolandaichetti
				66/1A	66/1A 1	Private	Dry	1420	Kadathuran @ Pachaiappana S/o Muniyan
				66/1B	66/1B1	Private	Dry	1070	Elango S/o Kullasuran
				66/2A	66/2A 2	Private	Dry	1797	1.Chinnamadu S/o Kadagathuran @ Pachaiappana 2. Mohan S/o Kadathuran @ Pachaiappana
				66/2B	66/2B1	Private	Dry	1699	Muniappan S/o Pooaripattayan
				66/2C	66/2C1	Private	Dry	830	Ponnukan @ Mecheri Gounder S/o Kalliappa Gounder
				77/1	77/1B	Private	Dry	3600	Kannaiyan S/o Karunan
				79/1	79/1B	Private	Dry	4644	Kannaiyan S/o Karunan
				79/2	79/2B	Private	Dry	1150	1.Murugammal w/o Mani 2.Thukkanammal
				83	83/2	Government	Battai	5000	Government
				86/1A1	86/1A1	Private	Dry	50	1.Mahesvari W/o M.S.Manoharan 2.Santhi Giriridharan W/o Giriridharan 3.Vidhyakumar S/o Nagarathinam
				86/1A2	86/1A2	Private	Dry	50	1.Mani S/o Kandasami Mudaliyar 2.Ganesan S/o Shanmugam 3.Selvam S/o Kannugounder 4.N.Kumaresam 5.Sadhasivam 6.Vimalan S/o Thangavel 7.K.S.Madhavi W/o Vimalan 8.Neelammal W/o Panneerselvam 9.Muniappan s/o Perumal
				86/1A3	86/1A3	Private	Dry	50	Dharmapuri Ali Naidus Trust
				86/4	86/4	Private	Dry	400	1.Mahesvari W/o M.S.Manoharan 2.Santhi Giriridharan W/o Giriridharan 3.Vidhyakumar S/o Nagarathinam
				86/5	86/5	Private	Dry	200	Rosalin W/o Selvaraj
				86/1B1	86/1B1	Private	Dry	900	Loganathan S/o Perumalgounder
				86/2A	86/2A	Private	Dry	50	1.Munusami S/o Annamalai 2.Santhi W/o vadivel 3.Vimalasen W/o Thangavel 4.K.S.Madhavi
				86/3A	86/3A1	Private	Dry	49	1.Munusami S/o Annamalai 2.Santhi W/o-vadivel 3.Vimalasen W/o Thangavel 4.K.S.Madhavi

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				86/1B2A	86/1B2A	Private	Dry	1500	1. Mani S/o Kandasami Mudaliyar 2. Ganesan S/o Shanmugam 3. Selvam S/o Kannukan 4. N. Kumaresam 5. Sadhasivam 6. Vimalan S/o Thangavel 7. K.S. Madhavi W/o Vimalan 8. Neelammal W/o Panneerselvam 9. Muniappan s/o Perumal
				86/1B2B	86/1B2B	Private	Dry	250	Paramasivam S/o Muniappachett
				86/1B2C	86/1B2C	Private	Dry	100	Magalingam S/o Munusami
				86/1B2D	86/1B2D	Private	Dry	100	Rajendiran S/o Nanjundan
				86/1B2E	86/1B2E	Private	Dry	100	Manogaran S/o Raji
				86/6A	86/6A	Private	Dry	1050	1. Mani S/o Kandasami Mudaliyar 2. Ganesan S/o Shanmugam 3. Selvam S/o Kannukan 4. N. Kumaresam 5. Sadhasivam 6. Vimalan S/o Thangavel 7. K.S. Madhavi W/o Vimalan 8. Neelammal W/o Panneerselvam 9. Muniappan s/o Perumal
				86/6B	86/6B	Private	Dry	100	Amirudhalingam S/o Naderajan
				86/6C1	86/6C1	Private	Dry	300	1. Mani S/o Kandasami Mudaliyar 2. Ganesan S/o Shanmugam 3. Selvam S/o Kannukan 4. N. Kumaresam 5. Sadhasivam 6. Vimalan S/o Thangavel 7. K.S. Madhavi W/o Vimalan 8. Neelammal W/o Panneerselvam 9. Muniappan s/o Perumal
				86/6C2	86/6C2	Private	Dry	100	Selvarathinam W/o Philip
				86/6C3	86/6C3	Private	Dry	350	1. Mani S/o Kandasami Mudaliyar 2. Ganesan S/o Shanmugam 3. Selvam S/o Kannukan 4. N. Kumaresam 5. Sadhasivam 6. Vimalan S/o Thangavel 7. K.S. Madhavi W/o Vimalan 8. Neelammal W/o Panneerselvam 9. Muniappan s/o Perumal
				86/6D	86/6D	Private	Dry	100	Savithiri W/o Sathiyavelu
				86/7	86/7	Private	Dry	1300	1. Mani S/o Kandasami Mudaliyar 2. Ganesan S/o Shanmugam 3. Selvam S/o Kannukan 4. N. Kumaresam 5. Sadhasivam 6. Vimalan S/o Thangavel 7. K.S. Madhavi W/o Vimalan 8. Neelammal W/o Panneerselvam 9. Muniappan S/o Perumal
				86/8	86/8	Private	Dry	550	Dharmapuri All Naidus Trust
				86/9	86/9A	Private	Dry	200	Santhi W/o Sathiyanarayana
				86/10	86/10A	Private	Dry	35	Gurusami S/o Sennakesava Naidu
				86/11	86/11	Private	Dry	100	Selvarathinam W/o Philip
				86/12	86/12	Private	Dry	250	Vasudevan S/o Subramani
				86/13	86/13	Private	Dry	150	Krishnachari S/o Rudhrachari

भारत का राजपत्र : असाधारण

[भाग II—खण्ड 3(ii)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				86/2B1	86/2B1A 86/2B1C	Private Private	Dry Dry	19501 1. Munusami S/o Annamalai 2. Santhi W/o Vadivel 3. Vimalasen W/o Thangavel K. S. Madhavi
				86/2B2	86/2B2	Private	Dry	600 Dharmapuri Ali Naidus Trust
				86/2B3	86/2B3A	Private	Dry	40 1. Sivan S/o Thangavel 2. Manjula W/o Sivan
				86/2B4	86/2B4A	Private	Dry	10 Muniappan W/o Kandasami
				87/1	87/1B	Private	Dry	6 1. Loganathan S/o Perumal 2. Perumal S/o Kannu Gounder 3. Mani S/o Kannu Gounder 4. Murugesan S/o
				87/2B	87/2B2	Private	Dry	2570 Loganathan S/o Perumal Gounder
				88/1B	88/1B2	Private	Dry	2350 Loganathan S/o Perumal Gounder
				88/2	88/2B	Private	Dry	2400 Loganathan S/o Perumal
				88/3	88/3B	Private	Dry	3500 Kaliappan S/o Periyasaiyan
				89/1A	89/1A	Private	Dry	150 Loganathan S/o Perumal Gounder
				89/1B1A	89/1B1A	Private	Dry	1750 1. Mani S/o Kandasami Mudaliyar 2. Ganesan S/o Shanmugam 3. Selvam S/o Kannukan 4. N. Kumaresam 5. Sathasivam 6. Vimalan S/o Thangavel 7. K. S. Madhavi W/o Vimalan 8. Neelammal W/o Panneerselvam 9. Muniappan s/o Perumal
				89/1B1B	89/1B1B	Private	Dry	50 Barathi W/o Panneerselvam
				89/1B2	89/1B2	Private	Dry	150 Savithri W/o Sathiyavelu
				89/1B3	89/1B3	Private	Dry	100 Sarasvathi W/o Sivapirakasam
				89/1B4	89/1B4	Private	Dry	100 Srilekha W/o Boobalan
				89/1B5	89/1B5	Private	Dry	100 Sridevi W/o Vanesh Kumar
				89/1B6	89/1B6	Private	Dry	200 Jaganathan S/o Jayaraman
				89/1B8	89/1B8A	Private	Dry	6 Neelammal W/o Panneerselvam
				89/1B10	89/1B10	Private	Dry	73 Thirumal S/o Narayanan
				89/2	89/2A	Private	Dry	1800 Loganathan S/o Perumal
				89/3	89/3A	Private	Dry	1730 Kaliappan S/o Periyasaiyan
				98	98/1	Private	Dry	6977 Boosa S/o Tholan @ Munia Gounder
				99/1	99/1B	Private	Dry	100 Madhammal W/o Periya Kaliappan
				99/3	99/3A	Private	Dry	10154 Kamala W/o munusami
				100/1	100/1A	Private	Dry	2250 Barathi W/o Panneerselvam
				100/2	100/2A	Private	Dry	2440 Ilangoan S/o D. N. Chinnasami
				100/3	100/3A	Private	Dry	2446 Jadayan @ Gopal S/o Kaliappan
				100/4	100/4A	Private	Dry	1900 1. Krishnan S/o Kaliappan 2. D. C. Ilangoan S/o D. N. Chinnasami
				100/5	100/5A	Private	Dry	1850 Kolandai S/o Kaliappan
				101	101/2	Private	Dry	4718 1. Madhammal W/o Jayapal 2. Vasanthakumar 3. Murugan @ Ramesh 4. Suresh 5. Prakash
				142/3A	142/3A2	Private	Dry	240 Dulasiammal W/o Rangachetti
				142/3B	142/3B2	Private	Dry	1980 1. Muniappachetti S/o Madhachetti 2. Indirani W/o Madhu
				143/1	143/1A	Private	Dry	1100 1. Venkateswaran S/o Karian @ Muniappa chetti 2. Sivanathan S/o Karian @ Muniappa chetti
				143/3A	143/3A2	Private	Dry	27 1. Ammakannu @ Muniammal W/o Appadurai @ Nanjappachetti 2. Venkateswaran S/o Karian @ Muniappa chetti

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				144/3	144/3A	Private	Dry	2400	Najappachetti S/o Chinnasamy Chetti
				145/2	145/2A	Private	Wet	1100	1.Ammakannammal W/o K.Muniappachetti 2.Thangavel S/o Muniappachetti 3.Adhimoolam
				146/B	146/B1	Private	Wet	770	1.Ammakannammal W/o K.Muniappachetti 2.Thangavel S/o Muniappachetti 3.Adhimoolam
				147	147/1	Private	Wet	60	Adhimoolam S/o Muniappachetti
				155	155/2	Government	Perumal Koil	700	Government
				160/2B	160/3	Government	PWD Vaikkal	4	Government
				160/2C2	160/2C2B	Private	Wet	3640	1.Periyakaliappan S/o Sinikkian @ Madan 2.Chinnakaliappan S/o Sinikkian @ Madan 3.Madhu S/o Sinikkian @ Madan 4.Madhammal W/o Chinnakaliappan 5.Nagaraj 6.Sampath
				160/2C3	160/2C3B	Private	Wet	840	1.Govindan S/o Venkataraman 2.Chinnakaliappan S/o Sinikkian @ Madan
				160/2C4	160/2C4B	Private	Wet	600	1.Lakshmi W/o Namadev 2.Babu S/o Namadev 3.Kalaivani W/o Babu 4.Dharman S/o Namdev.
				160/2C5	160/2C5	Private	Wet	1100	1.Lakshmi W/o Namadev 2.Babu S/o Namadev 3.Kalaivani W/o Babu 4.Dharman S/o Namdev.
				160/2C6	160/2C6A	Private	Wet	250	1.Lakshmi W/o Namadev 2.Babu S/o Namadev 3.Kalaivani W/o Babu 4.Dharman S/o Namdev.
				160/2C8	160/2C8A	Private	Wet	200	1.Lakshmi W/o Namadev 2.Babu S/o Namadev 3.Kalaivani W/o Babu 4.Dharman S/o Namdev.
				160/2C9	160/2C9A	Private	Wet	1525	1.Muniammal W/o Appavu 2.Appavu S/o Bomman
				160/2C10	160/2C10 A	Private	Wet	900	1.Appavu S/o Bomman 2.Venniala W/o Muniraj
				160/2C11	160/2C11 A	Private	Wet	75	1.Chinnaponnu S/o Bomman 2.Appavu S/o Bomman 3.Manickam S/o Bomman 4.Sendrayan S/o Pattakaran
				160/2C12	160/2C12 A	Private	Wet	300	Manickam S/o Bomman Appavu S/o Bomman
				160/2C13	160/2C13 A	Private	Wet	30	1.Ponniammal W/o Sendrayan 2.Mariappan S/o Sendrayan 3.Maniammal W/o Mariappan
				160/2D	160/4	Government	PWD Vaikkal	410	Government
				163/2	163/2B	Private	Wet	1200	Madhu S/o Bomman
				163/3	163/3A	Private	Wet	2300	Maheswari W/o Mani
				168	168/2	Private	Wet	2300	Rangaraj W/o Muniappachetti
				169	169/2	Private	Wet	40	1.Janarthanan S/o Gururatha muthali 2.Vaiyaburi S/o Sivanantha Muthaliyar 3.Partheeban s/o Dhanabal 4.Kamala w/o Paramasivam Mudaliyar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				224/5	224/5B	Private	Dry	140	1.Periyakaliappan S/o Sinikkian @ Madan 2.Chinnakaliappan S/o Sinikkian @ Madan 3.Madhu S/o Sinikkian @ Madan 4.Madhammal W/o Chinnakaliappan 5.Nagaraj 6. Sampath
				376/2	376/2B	Private	Wet	55	1.Poosi @ Madhan S/o Madhan 2.Sevidan @ Ramasamy S/o Chinnapaiyan
				376/3	376/3A	Private	Wet	1890	1.Mottu @ Madhan S/o Mottiyar @ Madhan 2.Chetti @ Madhan S/o Mottiyar @ Madhan 3.Chinnasamy S/o Mottu 4.Devaraj S/o Mottu @ Madhan
				376/4	376/4	Private	Wet	550	1.Madhan S/o Perumal 2.Mathi S/o Madhan 3.Kuttiapaiyan S/o Madhan
				376/5	376/5A	Private	Wet	520	1.Poosi @ Madhan S/o Madhan 2.Chinnapaiyan S/o Madhan
				376/6	376/6A	Private	Wet	150	1.Kunji @ MadhaGounder S/o Kolandai Gounder @ Madha Gounder 2.Ammasai @ Madan S/o Kunji @ MadhaGounder
				377/1A	377/1A2	Private	Wet	1660	1.Govindan S/o ChinnaiyaGounder 2.Rajendran S/o Govinda Gounder 3.Devamani S/o GovindaGounder 4.Moorthi S/o GovindaGounder
				377/1B	377/1B1	Private	Wet	1500	1.Bashasahib S/o AbdulKhadar Sahib 2.Jabeedhabu W/o Bakker Mahamed Sahib.
				378	378/2	Private	Wet	1100	1.Omaiyan @ Ramasamy Gounder S/o Kaliappa gounder 2.Govindasamy S/o Omaiyan @ Ramasamy
				379/2	379/2B	Private	Wet	800	1.Govindan S/o ChinnaiyaGounder 2.Rajendran S/o Govinda Gounder 3.Devamani S/o GovindaGounder 4.Moorthi S/o GovindaGounder
				379/3	379/3A	Private	Wet	1293	1.Basha Sahib S/o AbdulKhadar 2.Jabeedhabu W/o Bakker Mahamed Sahib.
				399/4	399/4B	Private	Dry	2	1.Goji @ MadhagounderS/o Perumal 2.Gopal S/o Kannu
				399/6	399/6B	Private	Dry	700	1.Goji @ MadhagounderS/o Perumal 2. Periyavan S/o Kolandai@ Madhan
				400	400/2	Government	Battai	3050	Government
				403/1	403/1B	Private	Dry	9	1.Chinnammal W/o Chinnavan @ Madhan 2.Minor Chinnasamy S/o Chinnavan @ Madhan 3.Minor Mangai D/oChinnavan @ Madhan 4.Minor Rani D/o Chinnavan @ Madhan Guardian Mothers Chinnammal for all minors.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				403/2	403/2C	Private	Dry	2240	1. Perumal S/o Madhan 2. Parvathi S/o Omaiyan @ Perumal
				403/3	403/3	Private	Dry	200	1. Perumal S/o Madhan 2. Chinnammal W/o Chinnavan @ Madhan 3. Minor Chinnasamy S/o Chinnavan @ Madhan 4. Minor Mangai D/o Chinnavan @ Madhan 5. Minor Rani D/o Chinnavan @ Madhan (Guardian Mothers Chinnammal for all minors) 6. Parvathi S/o Omaiyan @ Perumal, 7. Madhan
				403/4	403/4A	Private	Dry	1770	1. Chinnammal W/o Chinnavan @ Madhan 2. Minor Chinnasamy S/o Chinnavan @ Madhan 3. Minor Mangai D/o Chinnavan @ Madhan 4. Minor Rani D/o Chinnavan @ Madhan Guardian Mothers Chinnammal for all minors.
				403/5	403/5A	Private	Dry	635	Gopal @ Mottaiyan
				403/6	403/6A	Private	Dry	200	Kannu @ Perumal
				403/11	403/11A	Private	Dry	1395	1. Chinnammal W/o Chinnavan @ Madhan 2. Minor Chinnasamy S/o Chinnavan @ Madhan 3. Minor Mangai D/o Chinnavan @ Madhan 4. Minor Rani D/o Chinnavan @ Madhan Guardian Mothers Chinnammal for all minors
				404/2	404/2B	Private	Dry	67	1. Chinnammal W/o Chinnavan @ Madhan 2. Minor Chinnasamy S/o Chinnavan @ Madhan 3. Minor Mangai D/o Chinnavan @ Madhan 4. Minor Rani D/o Chinnavan @ Madhan Guardian Mothers Chinnammal for all minors
				404/3	404/3B	Private	Dry	1090	Thikkalan @ Madhan S/o Madhangounder
				404/4	404/4B	Private	Dry	400	1. Chinnammal W/o Chinnavan @ Madhan 2. Minor Chinnasamy S/o Chinnavan @ Madhan 3. Minor Mangai D/o Chinnavan @ Madhan 4. Minor Rani D/o Chinnavan @ Madhan Guardian Mothers Chinnammal for all minors
				405/4	405/4B	Private	Dry	650	1. Madhan S/o Pennagarathan @ Madhan 2. Madhan @ Pattan @ Kaliappan 3. Madhan S/o Omaiyan @ Madhan 4. Chinnasamy S/o Omaiyan @ Madhan 5. Raman S/o Omaiyan @ Madhan 6. Kaliappan S/o Omaiyan @ Madhan 7. Chinnathambio S/o Omaiyan @ Madhan
				406/2	406/2B	Private	Dry	680	Kaliappan S/o Nanjappan
				406/3	406/3B	Private	Dry	880	Ramasamy S/o Madhan
				406/4	406/4B	Private	Dry	980	Chinnavan @ Madhangounder S/o Madhangounder
				406/6	406/6B	Private	Dry	1388	Krishnan S/o Madhangounder

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				406/8	406/8B	Private	Dry	2420	Perumal S/o Tharagukkarar @ Kaliappan
					406/8D	Private	Dry	380	
				406/9	406/9B	Private	Dry	90	1.Madhan S/o Omaiyan @ Madhan 2.Raman S/o Omaiyan @ Madhan 3.Kaliappan S/o Omaiyan @ Madhan 4.Chinnathambio S/o Omaiyan @ Madhan
				406/10	406/10	Private	Dry	150	1.Madhan S/o Pennagurathan @ Madhan 2.Madhan @ Pattan @ Kaliappan 3.Madhan S/o Omaiyan @ Madhan 4.Chinnasamy S/o Omaiyan @ Madhan 5.Raman S/o Omaiyan @ Madhan 6.Kaliappan S/o Omaiyan @ Madhan 7.Chinnathambio S/o Omaiyan @ Madhan
				406/11	406/11	Private	Dry	150	1.Chinnavan @ Madhan S/o Madhan 2.Chinnammal W/o Chinnavan @ Madhan 3.Chinnasami S/o Chinnavan @ Madhan 4.Mangai D/o Chinnavan @ Madhan 5.Rani D/o Chinnavan @ Madhan 6.Madhan S/o Chinnavan @ Madhan (Sl.Nos 3 to 6 Minors Guardian Mother Chinnammal)
				406/12	406/12	Private	Dry	550	1.Chinnapaiyan S/o Ramsamy 2.Chinnasamy S/o Ramsamy
				406/13	406/13A	Private	Dry	1650	Kali @Madhan S/o Tharagukkarar @ Kaliappan
				406/14	406/14A	Private	Dry	10	1.Kali @Madhan S/o Tharagukkarar @ Kaliappan 2.Perumal S/o Tharagukkarar @ Kaliappan
				406/21	406/21A	Private	Dry	207	1.Kurji @ Madhagounder S/o Madhagounder 2.Madhu S/o Gundan 3.Jaisankar s/o Chinnakannu 4.Selvam S/o Palanisami
				428/1A	428/1A2	Private	Dry	685	Omaiyan S/o Tholan@Munia gounder
				428/5	428/5B	Private	Dry	4930	Panchalai W/o Chinnakannu
				428/6	428/6B	Private	Dry	443	Rangasamy Chetti S/o Venkatappachetti
				440/2	440/5	Government	Battai	245	Government
		(3) Thadan-gam		13/1	13/1B	Private	Dry	7000	1.Nagammal W/o Kandasamy 2.Radhakrishnan S/o Kandasamy 3.Sampathkumar S/o kandasamy 4.Saraswathi D/o kandasamy 5.Saradha D/o kandasamy 6.Suguna D/o kandasamy 7.Manonmani D/o Kandasamy
				14/3	14/3B	Private	Dry	586	1.Gopal S/o Ramasamy Gounder 2.Balasubramanian S/o Arumugam 3.Navabjohn S/o Jeelan 4.Noorunisa

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				14/4	14/4A2	Private	Dry	3250	1.Parasivam S/o Ramasamy Gounder 2.Jagadeesan S/o Rathinam
					14/4B	Private	Dry	250	Pathima W/o Malikjan
				15/2	15/2B	Private	Dry	70	1.Parasivam S/o Ramasamy Gounder 2.Jagadeesan S/o Rathinam
				15/3A	15/3A2	Private	Dry	650	1.Gopal S/o Ramasamy 2.Sathiyamoorthi S/o Anandhan 3.Maheswaran S/o Rajalier 4.Jagannathan S/o Thippi Chetti 5.Meera W/o Kuppusamy 6.Sagunthala W/o Sekar 7.Malliga W/o Sekar
				15/3B	15/3B	Private	Dry	200	Mariappan S/o Govinden
				15/4A	15/4A2	Private	Dry	825	Delhi Tamil Thirusabei Acadami
				15/4B1A	15/8	Private	Dry	600	Kandan S/o Ramasamy Gounder
				15/4B1B	15/4B1B	Private	Dry	850	Narashimhan S/o Ramalier
				15/5	15/5B	Private	Dry	582	1.Gopal S/o Ramasamy Gounder 2.Balasubramanian S/o Arumugam 3.Navab John S/o Jeelan 4.Noornisa
				15/6A	15/6A	Private	Dry	100	ShekDavood S/o Hamed Hussain
				15/6B	15/6B	Private	Dry	600	1.Paramasivam S/o Ramasamy Gounder 2.Jagadeesan S/o Rathinam
				15/7A	15/7A	Private	Dry	200	Natesan S/o Perumal
				15/7B	15/7B	Private	Dry	150	Beskimary W/o Arulanandam
				15/7C	15/7C	Private	Dry	150	Natarajan S/o Duraisamy
				15/7D	15/7D	Private	Dry	150	Vellaisamy S/o RamaGounder
				15/7E	15/7E	Private	Dry	150	Srinivasan S/o MaruduReddi
				15/7F	15/7F1	Private	Dry	980	1.Periyasamy S/o Ramasamy 2.Thubel S/o MasthanBasha 3Nigarbatharay 4Sikbathullah S/o Mohamed Ibrahim 5Jaibunnisah W/o Sikbathullah 6Sakthivel S/o Raman 7.Manoharan S/o Pallikoodathan @ Muniappan
				15/7G	15/7G1	Private	Dry	130	1.Velu S/o Karuppana Gopunder 2.Sagunthala W/o Velu 3.Vanmathi D/o Velu
				15/7H	15/7H1	Private	Dry	80	Krishnaraju S/o Gengireddi
				21/1	21/1B	Private	Dry	7300	1.Special Officer, NGGO & Self employment Housing Socceity, Dharmapuri 2.Kandasamy S/o Saminathan 3.Mariappan
				21/2	21/2B	Private	Dry	9	Mani S/o Kanniappa Gounder
				23/1	23/1	Private	Dry	215	1.Manimegalai W/o Jeyaraman 2.Kumutha W/o Ilangovan 3.Nagaveni W/o Srinivasamoorthi
				23/2	23/2	Private	Dry	240	1.Manimegalai W/o Jeyaraman 2.Kumutha W/o Ilangovan 3.Nagaveni W/o Srinivasamoorthi
				23/3	23/3	Private	Dry	95	Arulmigu Anjaneyar Koil.
				23/4	23/4	Private	Dry	136	1.Manimegalai W/o Jeyaraman 2.Kumutha W/o Ilangovan 3.Nagaveni W/o Srinivasamoorthi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				23/5	23/5	Private	Dry	285	1.Manimegalai W/o Jeyaraman 2.Kumutha W/o Ilangoan 3.Nagaveni W/o Srinivasamoorthi
				23/6	23/6A	Private	Dry	272	1.Manimegalai W/o Jeyaraman 2.Kumutha W/o Ilangoan 3.Nagaveni W/o Srinivasamoorthi
				23/8	23/8A	Private	Dry	1250	Manimegalai W/o Jeyaraman
				23/9	23/9	Private	Dry	205	1.Manimegalai W/o Jeyaraman 2.Kumutha W/o Ilangoan 3.Nagaveni W/o Srinivasamoorthi
				23/10	23/10A	Private	Dry	72	1.Manimegalai W/o Jeyaraman 2.Kumutha W/o Ilangoan 3.Nagaveni W/o Srinivasamoorthi
				23/37	23/37A	Private	Dry	16	1.Manimegalai W/o Jeyaraman 2.Kumutha W/o Ilangoan 3.Nagaveni W/o Srinivasamoorthi
				23/49	23/49A	Private	Dry	2	1.Manimegalai W/o Jeyaraman 2.Kumutha W/o Ilangoan 3.Nagaveni W/o Srinivasamoorthi
				24	24/2	Private	Dry	2250	1.Nagammal W/o Kandasamy 2.Radhakrishnan S/o Kandasamy 3.Sampath kumar S/o Kandasamy 4.Saraswathi D/o Kandasami 5.Saradha D/o Kandasami 6.Suguna D/o Kandasami 7.Manonmani D/o Kandasami
				25/3	25/3B	Private	Dry	1340	1.Nagammal W/o Kandasamy 2.Radhakrishnan S/o Kandasamy 3.Sampath kumar S/o Kandasamy 4.Saraswathi D/o Kandasami 5.Saradha D/o Kandasami 6.Suguna D/o Kandasami 7.Manonmani D/o Kandasami
				26/2	26/2B	Private	Dry	1100	Neelakandan S/o Jyyamperumal
				32/2	32/2B	Private	Dry	64	Kalevathi W/o Manickam
					32/2C	Private	Dry	1350	Kalevathi W/o Manickam
				32/3	32/3	Private	Dry	350	SriJeyaraman S/oM.S. Chinnaiyan
				32/4	32/4B	Private	Dry	150	1.Jeyaraman S/o Chinnaiyan 2.Kalevathi W/o Manickam 3.Gunavathi W/o Palanisamy
				33/1	33/1	Private	Dry	291	SriJeyaraman S/o Chinnaiyan
				33/2	33/2B	Private	Dry	5560	SriJeyaraman S/o Chinnaiyan
				34/1	34/1B	Private	Dry	6100	1.Govindasamy S/o Kandasamy 2.Muniappan S/o Chinnathambi 3.Kaliappan S/o Chinnathambi 4.Sathya D/o Subramaniam 5.Kandasamy S/o Idumban 6.Karthik S/o Chinnaraj 7.Sambantham S/o Balasubramaniam 8.Vijayalakshmi D/o Subbanarashimhan 9.Saravanan S/o Ramalingam 10.Dharaminohan S/o Murugesan 11.Padmini W/o Rajkumar 12.Nagamani W/o Subramani 13.Nalaiyini D/o Ranganathan
				36/1C	36/1C2	Private	Dry	1500	Sanjeevan S/o Appavu Gounder

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				36/1D	36/1D2	Private	Dry	2370	1.Govindan 2.Rajalakshmi W/o Ganapathi 3.Vasanthi W/o Sivaraman 4.Venkatesan S/o Suruttaiyan 5.Nagaraj S/o Ellappan 6.Kumar S/o Rajagopal 7.Mohankumar S/o Sivalingam 8.Selvi D/o Krishnan 9.Ranganathan S/o Madhaiyan 10.Jeyalakshmi W/o Govindaraj 11.Rajammal W/o Venkatesan 12.Lakshmi W/o Raman 13.Janarthanan S/o Nandagopalan 14.Shanmugam S/o Rudhragounder.
				36/3B	36/3B1	Private	Dry	933	1.Kaliappa chetti S/o Venkatappachetti 2.Gopal S/o Kaliappachetti 3.Murugan S/o Kullappachetti 4.Saraswathi W/o Govindasamy
				36/3C	36/3C1	Private	Dry	6	1.Govindasamy S/o Kullappachetti 2.Kaliappa chetti S/o Venkatappachetti 3.Gopal S/o Kaliappachetti 4.Murugan S/o Kullappachetti 5.Saraswathi W/o Govindasamy
					36/3C2	Private	Dry	255	1.Govindasamy S/o Kullappachetti 2.Kaliappa chetti S/o Venkatappachetti 3.Gopal S/o Kaliappachetti 4.Murugan S/o Kullappachetti 5.Saraswathi W/o Govindasamy
				45	45/2	Government	Highway	2500	Government
				73/1A	73/1A2	Private	Dry	12	1.Govindammal W/o Kaliappan 2.Kumaravel S/o Manickam 3.Ruckmani W/o Ponnusamy
				73/1B	73/3	Government	Adi Dravidar Path to Burial Ground	30	Government
				73/2B3	73/2B3B	Private	Dry	410	Nachimuthu S/o Chellappa Gounder
				74/1	74/1B	Private	Dry	480	Nachimuthu S/o Chellappa Gounder
				74/2	74/2 B	Private	Dry	610	Nachimuthu S/o Chellappa Gounder
				74/3E	74/3E2	Private	Dry	1	1.Arokiasamy S/o M.S. Chinnaiyah 2.Valliammal, W/o C.Arokkiyasami 3.Suresh S/o C.Arokkiyasami
				74/3F	74/3F2	Private	Dry	144	1.Arokiasamy S/o M.S. Chinnaiyah 2.Valliammal, W/o C.Arokkiyasami 3.Suresh S/o C.Arokkiyasami
				74/3G	74/3G	Private	Dry	400	1.Arokiasamy S/o M.S. Chinnaiyah 2.Valliammal, W/o C.Arokkiyasami 3.Suresh S/o C.Arokkiyasami
				74/3H	74/3H2	Private	Dry	220	1.Valliammal, W/o C.Arokkiyasami 2.Suresh S/o C.Arokkiyasami

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				75/1B	75/1B2	Private	Dry	1800	1.Madaiyan S/o Vaiyapuri Gounder 2.Siddhaiyan S/o Vaiyapuri Gounder
				75/1C	75/1C1	Private	Dry	446	1.Gomathi W/o Venkatesan 2.Ganesan S/o Chinnaiyagounder
				75/2	75/2B	Private	Dry	1590	1.Nagarajan S/ o Pattabiraman Chettiyar 2.Aswathnarayanan S/ o Pattabiraman Chettiyar 3.Prabakaran S/ o Pattabiraman Chettiyar
				76/1B	76/1B2	Private	Dry	4	1.Mariappan S/o Kondri 2.Sanjeevammal W/o Mariappan 3.Subiramani S/o Mariappan 4.Perumal S/o Mariappan 5.Palani S/o Mariappan
				76/2	76/2B	Private	Dry	4490	1.Nagarajan S/ o Pattabiraman Chettiyar 2.Aswathmarayanan S/ o Pattabiraman Chettiyar 3.Prabakaran S/ o Pattabiraman Chettiyar
				77/1E	77/1E2	Private	Dry	169	1.Nagarajan S/ o Pattabiraman Chettiyar 2.Aswathmarayanan S/ o Pattabiraman Chettiyar 3.Prabakaran S/ o Pattabiraman Chettiyar
				77/1F	77/1F2	Private	Dry	2435	1.Nagarajan S/ o Pattabiraman Chettiyar 2.Aswathmarayanan S/ o Pattabiraman Chettiyar 3.Prabakaran S/ o Pattabiraman Chettiyar
				77/2	77/2A	Private	Dry	1400	1.Nagarajan S/ o Pattabiraman Chettiyar 2.Aswathmarayanan S/ o Pattabiraman Chettiyar 3.Prabakaran S/ o Pattabiraman Chettiyar
				78/1D	78/1D2	Private	Dry	125	Chinnaraj S/o Palani Gounder
				78/1E	78/1E2	Private	Dry	1184	1.Nagarajan S/ o Pattabiraman Chettiyar 2.Aswathmarayanan S/ o Pattabiraman Chettiyar 3.Prabakaran S/ o Pattabiraman Chettiyar
				78/1F	78/1F1	Private	Dry	2312	1.Nagarajan S/ o Pattabiraman Chettiyar 2.Aswathmarayanan S/ o Pattabiraman Chettiyar 3.Prabakaran S/ o Pattabiraman Chettiyar
				78/1G	78/1G2	Private	Dry	345	Dhanalakshmi W/o Ramachandran
				78/2	78/2A	Private	Dry	140	1.Nagarajan S/ o Pattabiraman Chettiyar 2.Aswathmarayanan S/ o Pattabiraman Chettiyar 3.Prabakaran S/ o Pattabiraman Chettiyar
				79/1A1A	79/5	Private	Dry	4800	Dhanalakshmi W/o Ramachandran
				79/1A1B	79/8	Private	Dry	820	1.Jegannathan 2.Dhanalakshmi W/o Ramachandran
				79/3	79/3A	Private	Dry	78	1.Rathinam S/o Periyasamy 2.Singaram S/o Rangasamy

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				80/1A	80/1A1	Private	Dry	1840	1. Kengan 2. Jayaci John Bosco 3. Srinivasan S/o Kengan 4. Ragini D/o Kengan 5. Kanchana D/o Kengan
				81/1A1	81/1A1B	Private	Dry	1088	1. Saroja W/o Siddan 2. Abdulkafarkhan S/o Ajeeshkan 3. Sambooranammal W/o Kuppasamy 4. Nallammal W/o Kolandaivel 5. Indirani W/o Srinivasan 6. Sengoda Gounder S/o Muthu Gounder 7. Arokiasamy 8. Mariappan 9. S. Janagiammal 10. Vajravel Mudaliyar 11. Gopalsamy Naidu 12. Perumal 13. Kolandaammal 14. Kaliappan 15. Govindaraj 16. Ponnusamy 17. Lakshmiammal 18. Chokkalingam 19. Prabakar 20. Nataraj kuppasamy 21. Raji 22. Vasantha 23. Subramaniam S/o kandasami
				81/1A2	81/1A2A	Private	Dry	1850	1. Kengan 2. Jayaci John Bosco 3. Srinivasan S/o Kengan 4. Ragini D/o Kengan 5. Kanchana D/o Kengan
				81/2A1	81/2A1	Private	Dry	500	1. Saroja W/o Siddan 2. Abdulkafarkhan S/o Ajeeshkan 3. Sambooranammal W/o Kuppasamy 4. Nallammal W/o Kolandaivel 5. Indirani W/o Srinivasan 6. Sengoda Gounder S/o Muthu Gounder 7. Arokiasamy 8. Mariappan 9. S. Janagiammal 10. Vajravel Mudaliyar 11. Gopalsamy Naidu 12. Perumal 13. Kolandaammal 14. Kaliappan 15. Govindaraj 16. Ponnusamy 17. Lakshmiammal 18. Chokkalingam 19. Prabakar 20. Nataraj kuppasamy 21. Raji 22. Vasantha 23. Subramaniam S/o kandasami
				81/2A2	81/2A2A	Private	Dry	520	1. Kengan 2. Jayaci John Bosco 3. Srinivasan S/o Kengan 4. Ragini D/o Kengan 5. Kanchana D/o Kengan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				82/1A	82/1A1	Private	Dry	1239	1.Saroja W/o Siddan 2.Abdulkafarkhan S/o Ajeeshkan 3.Sambooranammal W/o Kuppusamy 4.Nallammal W/o Kulandaivel 5.Indirani W/o Srinivasan 6.Sengoda Gounder S/o Muthu Gounder 7.Arokiasamy 8.Mariappan 9.Janagiammal 10.VajravelMudaliyar 11.Gopalsamy Naidu 12.Perumal 13.Kolandaammal 14.Kaliappan 15.Govindaraj 16.Ponnusamy 17.Lakshmiammal 18.Chokkalingam 19.Prabakar 20.Natarajkuppasamy
				82/1B	82/1B1	Private	Dry	627	1.Kensan 2. Jayaci John Bosco 3.Srinivasan S/o Kensan 4.Ragini D/o Kensan 5.Kanchana D/o Kensan
				83	83/2	Government	Battai	2550	Government
				84/1	84/1B	Private	Dry	50	1.Gopal Gounder S/o Thandraya Gounder 2.Buddhar 3.Pachiappan 4.Periyasamy 5.Selvam
				84/2B	84/2B2	Private	Dry	450	Subramaniam
				84/2C2	84/2C2B	Private	Dry	107	Selvarasi D/o Kaliappan
				88/1A	88/1A1	Private	Dry	240	Dhanalakshmi W/o Govindasamy
				89/1A1A	89/1A1A	Private	Dry	16	Gowri W/o Raman
				89/2A	89/2A1	Private	Dry	8	Gowri W/o Raman
				99/1C	99/1C2	Private	Dry	120	Madhu @ Madan S/o Perumal
				99/1D	99/1D2	Private	Dry	38	Madhu @ Madan S/o Perumal
				99/1E	99/1E2	Private	Dry	2382	Perumal S/o Kaliappa Gounder
				99/1F	99/1F1	Private	Dry	2132	1.Raman S/o Ganapathi 2.Salammal
				99/1G	99/1G 1	Private	Dry	3	Manickam S/o Narayanan
				100/1B	100/1B 2	Private	Dry	787	Perumal S/o Kaliappa Gounder
				100/1C	100/1C	Private	Dry	2500	1.Raman S/o Ganapathi 2.Salammal
				100/1D	100/1D 1	Private	Dry	940	Manickam S/o Narayanan
				101/1	101/1B	Private	Dry	320	1.Varadan @ Sendrayan S/o Ammasi Gounder 2.Gowri W/o Govindan
				101/2	101/2 B	Private	Dry	1930	1.Varadan @ Sendrayan S/o Ammasi Gounder 2.Gowri W/o Govindan
				101/3	101/3 A	Private	Dry	1550	Nanjundan S/o Ariyan
				101/4	101/4 A	Private	Dry	830	Muthuperumal S/o Gopal
				101/5	101/5 A	Private	Dry	79	1.Salammal W/o Raman 2.Mathiammal W/o Kotandai 3.Santhammal W/o Nirmakkaran @ Kaliappan 4.Kaliammal W/o Lakshmanan
				103/1	103/1B	Private	Dry	1624	Vaiyapuri S/o Perumal Gounder
				103/2	103/2	Private	Dry	1250	Govindan S/o Ellappan
				103/3	103/3 A	Private	Dry	485	1.Kaliappan S/o Ellappa Gounder 2.Kandasamy S/o Dasari Chetti
				103/5	103/5 A	Private	Dry	1720	Kandasamy S/o Dasari Chetti
				104/1D	104/1D 2	Private	Dry	488	Chinnakaliappan S/o Ellappagounder

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				104/1E	104/1E 2	Private	Dry	197	Vaiyapuri S/o Perumal Gounder
				104/1F	104/1F	Private	Dry	500	Govindan S/o Ellappan
				105/1C	105/1C 2	Private	Dry	3960	1.Salammal W/o Theerthagiri 2.Parnasivam S/o Theerthagiri 3.Raman S/o Theerthagiri 4.Ramakka! D/o Theerthagir 5.Lakshmi D/o Theerthagir 6.Chinnappa D/o Theerthagir 7.Salammal D/o Theerthagiri
				105/1D2	105/1D2B	Private	Dry	320	1.Natarajan S/o Kaliappa Gounder 2.Vijaya W/o Karunakaran 3.Muniammal W/o Raman
				105/1D3	105/1D3B	Private	Dry	3106	Kandasamy S/o Kaliappa Gounder
				105/1D4	105/1D4A	Private	Dry	230	1.Natarajan S/o Kaliappa Gounder 2.Vijaya W/o Karunakaran 3.Kandasami S/o Kaliappagounder
				105/1D6	105/1D6A	Private	Dry	245	1.Natarajan S/o Kaliappa Gounder 2.Vijaya W/o Karunakaran 3.Muniammal W/o Raman
					105/1D6E	Private	Dry	28	1.Natarajan S/o Kaliappa Gounder 2.Vijaya W/o Karunakaran 3.Muniammal W/o Raman
				106/2	106/2 B	Private	Dry	3575	Krishnan S/o Ramasamy
				112/26	112/26 B	Private	Dry	12	Lakshmi W/o Arumugam
				112/27	112/27B	Private	Dry	197	1.Palaniammal W/o Kaliannan 2.Mohan
				112/28	112/28B	Private	Dry	171	1.Selvi W/o Rajendiran 2.Selvaraj S/o K.R Selvaraj
				112/29	112/29B	Private	Dry	113	Shanthi D/o Muthusami
				112/36	112/36B	Private	Dry	324	1.M.Ramagounder 2.Chinnappaiyan
				112/40	112/40B	Private	Dry	14	Thayanithi S/o Sivasankaran
				112/41	112/41B	Private	Dry	41	Muralitharan S/o Krishnamoorthi
				112/42	112/42B	Private	Dry	95	Adhikesavan S/o Beemanna
				112/43	112/43B	Private	Dry	135	Marimuthu S/o Madhan
				112/44	112/44	Private	Dry	300	1.Palaniammal W/o Kaliannan 2.R.Mohan
				112/45	112/45	Private	Dry	186	Palanisamy S/o Sennimalai Mudaliyar
				112/46	112/46	Private	Dry	218	Gothandaraman S/o Krishnamoorthi
				112/47	112/47	Private	Dry	250	1.Palaniammal W/o Kaliannan 2.R.Mohan
				113/3B	113/3B2	Private	Dry	250	Nagalakshmi W/o Thiagarajan
				468	468/1	Private	Dry	366	1.Veeramani S/oRangasamy Gounder 2.Asaitambi S/o Rangasamy Gounder
				476/ 1	476/ 1B	Private	Dry	1200	Thirumal Brothers Company
				476/2A	476/2A2	Private	Dry	887	Thirumal Brothers Company
				476/2B	476/2B1	Private	Dry	3300	Thirumal Trading Company Selvakumar S/o Perumal Reddiyar.

[F. No. NHA/Tech/LA/KT/Dharmapuri 3(A) 11/2006]

PRABHAKAR, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2007

का.आ. 345(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 1710 (अ), तारीख 5 अक्टूबर, 2006, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 5 अक्टूबर, 2006 में प्रकाशित की गई थी, में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,

- (क) पैरा 3 में प्रस्तावना में, “विशेष जिला राजस्व अधिकारी” शब्दों के स्थान पर “जिला राजस्व अधिकारी” शब्द रखे जाएंगे;
- (ख) अनुसूची में, तालुक “धर्मापुरी” के सामने,—
- (I) गाँव “(2) अधियामनकोट्टई” के सामने,—
- (i) सर्वेक्षण संख्या “52/6 [भाग]” के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “360” के स्थान पर प्रविष्टि “450” रखी जाएगी;
- (ii) सर्वेक्षण संख्या “87/ए1बी [भाग]” के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “100” के स्थान पर प्रविष्टि “200” रखी जाएगी;
- (iii) सर्वेक्षण संख्या “88/1 [भाग]” के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “145” के स्थान पर प्रविष्टि “150” रखी जाएगी;
- (iv) सर्वेक्षण संख्या “88/2 [भाग]” के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “2850” के स्थान पर प्रविष्टि “2900” रखी जाएगी;
- (v) सर्वेक्षण संख्या “88/3 [भाग]” के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “96” के स्थान पर प्रविष्टि “100” रखी जाएगी;
- (vi) सर्वेक्षण संख्या “88/4 [भाग]” के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “3670” के स्थान पर प्रविष्टि “3850” रखी जाएगी;
- (vii) सर्वेक्षण संख्या “88/6 [भाग]” के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “2400” के स्थान पर प्रविष्टि “2600” रखी जाएगी;
- (viii) सर्वेक्षण संख्या “113/2डी [भाग]” के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “80” के स्थान पर प्रविष्टि “92” रखी जाएगी;
- (ix) सर्वेक्षण संख्या “113/2ई [भाग]” के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “1438” के स्थान पर प्रविष्टि “1441” रखी जाएगी;
- (x) सर्वेक्षण संख्या “190/3 [भाग]” के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “5054” के स्थान पर प्रविष्टि “5454” रखी जाएगी;
- (xi) सर्वेक्षण संख्या “334 [भाग]” के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “720” के स्थान पर प्रविष्टि “1900” रखी जाएगी;
- (xii) सर्वेक्षण संख्या “347 [भाग]” के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “7341” के स्थान पर प्रविष्टि “7450” रखी जाएगी;
- (xiii) सर्वेक्षण संख्या “348/8बी [भाग]” के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “106” के स्थान पर प्रविष्टि “112” रखी जाएगी;

- (xiv) सर्वेक्षण संख्या "349/7 [भाग]" के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "400" के स्थान पर प्रविष्टि "440" रखी जाएगी;
- (xv) सर्वेक्षण संख्या "401 [भाग]" के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "6800" के स्थान पर प्रविष्टि "6900" रखी जाएगी;
- (xvi) सर्वेक्षण संख्या "403/6 [भाग]" के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "720" के स्थान पर प्रविष्टि "1240" रखी जाएगी;
- (xvii) सर्वेक्षण संख्या "405/1 [भाग]" के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "535" के स्थान पर प्रविष्टि "540" रखी जाएगी;
- (xviii) सर्वेक्षण संख्या "405/2 [भाग]" के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "1050" के स्थान पर प्रविष्टि "1100" रखी जाएगी;
- (xix) सर्वेक्षण संख्या "406/5 [भाग]" के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "25" के स्थान पर प्रविष्टि "35" रखी जाएगी;
- (xx) सर्वेक्षण संख्या "407/1 [भाग]" के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "1300" के स्थान पर प्रविष्टि "1350" रखी जाएगी;
- (xxi) सर्वेक्षण संख्या "408/1 [भाग]" के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "780" के स्थान पर प्रविष्टि "800" रखी जाएगी;
- (xxii) सर्वेक्षण संख्या "409/3 [भाग]" के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "1200" के स्थान पर प्रविष्टि "1230" रखी जाएगी;
- (xxiii) सर्वेक्षण संख्या "411/1 [भाग]" के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "950" के स्थान पर प्रविष्टि "980" रखी जाएगी;
- (xxiv) सर्वेक्षण संख्या "517 [भाग]" के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "676" के स्थान पर प्रविष्टि "752" रखी जाएगी;
- (xxv) सर्वेक्षण संख्या "519/1 [भाग]" के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "1780" के स्थान पर प्रविष्टि "1950" रखी जाएगी;
- (xxvi) सर्वेक्षण संख्या "521/5 [भाग]" के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "190" के स्थान पर प्रविष्टि "200" रखी जाएगी;
- (xxvii) सर्वेक्षण संख्या "867/7ए [भाग]" के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "1300" के स्थान पर प्रविष्टि "1425" रखी जाएगी;
- (xxviii) सर्वेक्षण संख्या "867/7बी [भाग]" के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "3600" के स्थान पर प्रविष्टि "3845" रखी जाएगी;
- (xxix) सर्वेक्षण संख्या "867/7ई [भाग]" के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "190" के स्थान पर प्रविष्टि "689" रखी जाएगी;
- (xxx) सर्वेक्षण संख्या "867/8 [भाग]" के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "6500" के स्थान पर प्रविष्टि "6520" रखी जाएगी;
- (xxxi) सर्वेक्षण संख्या "867/15बी" के सामने,-
- (क) स्तम्भ (6) में, प्रविष्टि "सरकारी" के स्थान पर प्रविष्टि "निजी" रखी जाएगी;
- (ख) स्तम्भ (7) में, प्रविष्टि "अतिरिक्त भूमि" के स्थान पर प्रविष्टि "निजी" रखी जाएगी;
- (ग) स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "750" के स्थान पर प्रविष्टि "550" रखी जाएगी;

- (xv) सर्वेक्षण संख्या “68/24 [भाग]”, के सामने, स्तम्भ (6) में, प्रविष्टि “सरकारी” के स्थान पर प्रविष्टि “निजी” रखी जाएगी;
- (xvi) सर्वेक्षण संख्या “68/62 [भाग]”, के सामने, स्तम्भ (6) में, प्रविष्टि “सरकारी” के स्थान पर प्रविष्टि “निजी” रखी जाएगी;
- (xvii) सर्वेक्षण संख्या “68/63”, के सामने, स्तम्भ (6) में, प्रविष्टि “सरकारी” के स्थान पर प्रविष्टि “निजी” रखी जाएगी;
- (xviii) सर्वेक्षण संख्या “68/64”, के सामने, स्तम्भ (6) में, प्रविष्टि “सरकारी” के स्थान पर प्रविष्टि “निजी” रखी जाएगी;
- (xix) सर्वेक्षण संख्या “68/65 [भाग]”, के सामने, स्तम्भ (6) में, प्रविष्टि “सरकारी” के स्थान पर प्रविष्टि “निजी” रखी जाएगी;
- (xx) सर्वेक्षण संख्या “68/66 [भाग]”, के सामने, स्तम्भ (6) में, प्रविष्टि “सरकारी” के स्थान पर प्रविष्टि “निजी” रखी जाएगी;
- (xxi) सर्वेक्षण संख्या “79/1 [भाग]”, के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “1146” के स्थान पर प्रविष्टि “1147” रखी जाएगी;
- (xxii) सर्वेक्षण संख्या “80/3ए2ए [भाग]”, के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “283” के स्थान पर प्रविष्टि “295” रखी जाएगी;
- (xxiii) सर्वेक्षण संख्या “85/2 [भाग]” और स्तम्भ 6, 7, और 8 में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित सर्वेक्षण संख्या और प्रविष्टियाँ क्रमशः रखी जाएंगी, -

5	6	7	8
“85/2	सरकारी	पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क अनुभाग)	350”;

- (xxiv) सर्वेक्षण संख्या “119/2 [भाग]” और स्तम्भ 6, 7, और 8 में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित सर्वेक्षण संख्या और प्रविष्टियाँ क्रमशः रखी जाएंगी, -

5	6	7	8
“119/2	सरकारी	पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क अनुभाग)	200”;

- (xxv) सर्वेक्षण संख्या “120/2 [भाग]” और स्तम्भ 6, 7, और 8 में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित सर्वेक्षण संख्या और प्रविष्टियाँ क्रमशः रखी जाएंगी, -

5	6	7	8
“120/2	सरकारी	पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क अनुभाग)	1350”;

- (xxvi) सर्वेक्षण संख्या “264/2 [भाग]”, के सामने, स्तम्भ (6) में, प्रविष्टि “सरकारी” के स्थान पर प्रविष्टि “निजी” रखी जाएगी;

- (xxvii) सर्वेक्षण संख्या "264/36 [भाग]", के सामने, स्तम्भ (6) में, प्रविष्टि "सरकारी" के स्थान पर प्रविष्टि "निजी" रखी जाएगी;
- (xxviii) सर्वेक्षण संख्या "286/1ए [भाग]", के सामने, स्तम्भ (6) में, प्रविष्टि "सरकारी" के स्थान पर प्रविष्टि "निजी" रखी जाएगी;
- (xxix) सर्वेक्षण संख्या "286/1बी [भाग]", के सामने, स्तम्भ (6) में, प्रविष्टि "सरकारी" के स्थान पर प्रविष्टि "निजी" रखी जाएगी;
- (xxx) सर्वेक्षण संख्या "286/1एन [भाग]", के सामने, स्तम्भ (6) में, प्रविष्टि "सरकारी" के स्थान पर प्रविष्टि "निजी" रखी जाएगी;
- (xxxi) सर्वेक्षण संख्या "287 [भाग]", के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "842" के स्थान पर प्रविष्टि "846" रखी जाएगी;
- (xxxii) सर्वेक्षण संख्या "316/4बी [भाग]", के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "90" के स्थान पर प्रविष्टि "92" रखी जाएगी;

(III) गाँव "(3) पलायम" के सामने,-

- (ii) सर्वेक्षण संख्या "43/1बी6 [भाग]" और स्तम्भ 6, 7, और 8 में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित सर्वेक्षण संख्या और प्रविष्टियाँ क्रमशः रखी जाएंगी,-

5	6	7	8
"43/1बी6ए	निजी	शुष्क	679
43/1बी6बी	निजी	शुष्क	300
43/1बी6सी	निजी	शुष्क	192";

- (ii) सर्वेक्षण संख्या "150/1" के सामने,-

- (क) स्तम्भ (6) में, प्रविष्टि "सरकारी" के स्थान पर प्रविष्टि "निजी" रखी जाएगी;
- (ख) स्तम्भ (7) में, प्रविष्टि "शुष्क" के स्थान पर प्रविष्टि "सड़क किनारा" रखी जाएगी;

- (ii) सर्वेक्षण संख्या "513/4 [भाग]" के सामने,-

- (क) स्तम्भ (6) में, प्रविष्टि "सरकारी" के स्थान पर प्रविष्टि "निजी" रखी जाएगी;
- (ख) स्तम्भ (7) में, प्रविष्टि "बटाई" के स्थान पर प्रविष्टि "शुष्क" रखी जाएगी;

- (iii) सर्वेक्षण संख्या "150/2ए [भाग]", के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "413" के स्थान पर प्रविष्टि "448" रखी जाएगी;
- (iv) सर्वेक्षण संख्या "150/2बी [भाग]", के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "230" के स्थान पर प्रविष्टि "350" रखी जाएगी;
- (v) सर्वेक्षण संख्या "169/1 [भाग]", के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "630" के स्थान पर प्रविष्टि "650" रखी जाएगी;
- (vi) सर्वेक्षण संख्या "169/2डी2 [भाग]", के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "95" के स्थान पर प्रविष्टि "108" रखी जाएगी;
- (vii) सर्वेक्षण संख्या "172/1 [भाग]", के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "280" के स्थान पर प्रविष्टि "291" रखी जाएगी;

- (viii) सर्वेक्षण संख्या "172/4एफ [भाग]", के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "60" के स्थान पर प्रविष्टि "74" रखी जाएगी;
- (ix) सर्वेक्षण संख्या "172/5 [भाग]", के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "371" के स्थान पर प्रविष्टि "386" रखी जाएगी;
- (x) सर्वेक्षण संख्या "179/3 [भाग]", के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "270" के स्थान पर प्रविष्टि "320" रखी जाएगी;
- (xi) सर्वेक्षण संख्या "179/4 [भाग]", के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "400" के स्थान पर प्रविष्टि "440" रखी जाएगी;
- (xii) सर्वेक्षण संख्या "189/9 [भाग]", के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "175" के स्थान पर प्रविष्टि "178" रखी जाएगी;
- (xiii) सर्वेक्षण संख्या "190/2 [भाग]", के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "39" के स्थान पर प्रविष्टि "40" रखी जाएगी;
- (xiv) सर्वेक्षण संख्या "199/3 [भाग]", के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "1650" के स्थान पर प्रविष्टि "1720" रखी जाएगी;
- (xv) सर्वेक्षण संख्या "199/4 [भाग]", के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "240" के स्थान पर प्रविष्टि "250" रखी जाएगी;
- (xvi) सर्वेक्षण संख्या "200/1ए [भाग]", के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "1541" के स्थान पर प्रविष्टि "1620" रखी जाएगी;
- (xvii) सर्वेक्षण संख्या "200/1ई5 [भाग]", के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "587" के स्थान पर प्रविष्टि "640" रखी जाएगी;
- (xviii) सर्वेक्षण संख्या "204/1 [भाग]", के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "995" के स्थान पर प्रविष्टि "1020" रखी जाएगी;
- (xix) सर्वेक्षण संख्या "418/2सी [भाग]", के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "370" के स्थान पर प्रविष्टि "400" रखी जाएगी;
- (xx) सर्वेक्षण संख्या "418/2डी3 [भाग]", के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "85" के स्थान पर प्रविष्टि "90" रखी जाएगी;
- (xxi) सर्वेक्षण संख्या "425/2सी [भाग]", के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "1340" के स्थान पर प्रविष्टि "1440" रखी जाएगी;
- (xxii) सर्वेक्षण संख्या "434/2ए1 [भाग]", के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "1200" के स्थान पर प्रविष्टि "1250" रखी जाएगी;
- (xxiii) सर्वेक्षण संख्या "434/2ए2 [भाग]", के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "2990" के स्थान पर प्रविष्टि "3010" रखी जाएगी;
- (xxiv) सर्वेक्षण संख्या "440/2ए1 [भाग]", के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "3390" के स्थान पर प्रविष्टि "3400" रखी जाएगी;
- (xxv) सर्वेक्षण संख्या "441/3ए [भाग]", के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "83" के स्थान पर प्रविष्टि "103" रखी जाएगी;
- (xxvi) सर्वेक्षण संख्या "456/2बी [भाग]", के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "194" के स्थान पर प्रविष्टि "224" रखी जाएगी;
- (xxvii) सर्वेक्षण संख्या "469/2सी [भाग]", के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "476" के स्थान पर प्रविष्टि "483" रखी जाएगी;

- (xxviii) सर्वेक्षण संख्या "470 [भाग]", के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "572" के स्थान पर प्रविष्टि "600" रखी जाएगी;
- (xxix) सर्वेक्षण संख्या "520/4 [भाग]", के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "83" के स्थान पर प्रविष्टि "84" रखी जाएगी;
- (xxx) सर्वेक्षण संख्या "565/2बी [भाग]", के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "4270" के स्थान पर प्रविष्टि "4450" रखी जाएगी;
- (xxxix) सर्वेक्षण संख्या "566/2बी [भाग]", के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "673" के स्थान पर प्रविष्टि "733" रखी जाएगी;
- (xxxii) सर्वेक्षण संख्या "566/3 [भाग]", के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "307" के स्थान पर प्रविष्टि "352" रखी जाएगी;
- (xxxiii) सर्वेक्षण संख्या "567/2ए [भाग]", के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "20" के स्थान पर प्रविष्टि "40" रखी जाएगी;
- (xxxiv) सर्वेक्षण संख्या "567/2सी [भाग]", के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "300" के स्थान पर प्रविष्टि "380" रखी जाएगी;
- (xxxv) सर्वेक्षण संख्या "569/4 [भाग]", के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "580" के स्थान पर प्रविष्टि "630" रखी जाएगी;
- (xxxvi) सर्वेक्षण संख्या "591/2बी [भाग]", के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "11" के स्थान पर प्रविष्टि "22" रखी जाएगी;
- (xxxvii) सर्वेक्षण संख्या "592/2बी [भाग]", के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "469" के स्थान पर प्रविष्टि "471" रखी जाएगी;
- (xxxviii) सर्वेक्षण संख्या "592/2सी1ए [भाग]", के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "1985" के स्थान पर प्रविष्टि "2050" रखी जाएगी;

(IV) गाँव "(1) नल्लमपल्ली" के सामने,-

- (i) सर्वेक्षण संख्या "45/1बी [भाग]", के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "2050" के स्थान पर प्रविष्टि "2620" रखी जाएगी;
- (ii) सर्वेक्षण संख्या "251/1ए2 [भाग]", के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "1247" के स्थान पर प्रविष्टि "1642" रखी जाएगी;
- (iii) सर्वेक्षण संख्या "256/1 [भाग]" के सामने,-
- (क) स्तम्भ (6) में, प्रविष्टि "सरकारी" के स्थान पर प्रविष्टि "निजी" रखी जाएगी;
- (ख) स्तम्भ (7) में, प्रविष्टि "अस्थायियर कादिरुप्पू" के स्थान पर प्रविष्टि "शुष्क" रखी जाएगी;
- (iv) सर्वेक्षण संख्या "257/1डी [भाग]", के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "1389" के स्थान पर प्रविष्टि "1390" रखी जाएगी;
- (v) सर्वेक्षण संख्या "290 [भाग]", के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "280" के स्थान पर प्रविष्टि "314" रखी जाएगी;

- (vi) सर्वेक्षण संख्या “301/2सी [भाग]”, के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “114” के स्थान पर प्रविष्टि “116” रखी जाएगी;
- (V) गाँव “(4) डोकुम्बोदनाहल्ली” के सामने,-
- (i) सर्वेक्षण संख्या “265/3 [भाग]”, के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “940” के स्थान पर प्रविष्टि “947” रखी जाएगी;
- (ii) सर्वेक्षण संख्या “267/2बी5 [भाग]”, के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “47” के स्थान पर प्रविष्टि “51” रखी जाएगी;
- (iii) सर्वेक्षण संख्या “269/2ए2बी [भाग]”, के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “1027” के स्थान पर प्रविष्टि “1036” रखी जाएगी;
- (iv) सर्वेक्षण संख्या “271/2ए1 [भाग]”, के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “730” के स्थान पर प्रविष्टि “850” रखी जाएगी;
- (v) सर्वेक्षण संख्या “271/6 [भाग]”, के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “123” के स्थान पर प्रविष्टि “130” रखी जाएगी;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन * मूल अधिसूचना में उल्लिखित प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।

[फा. सं. भाराप्र/तक/एलए/कटी/अगासी 3(ए) 11/2006]

प्रभाकर, उप-सचिव

पाद टिप्पणी : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 5 अक्टूबर, 2006 में का.आ. 1170(अ), तारीख 5 अक्टूबर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2007

S.O. 345(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways), number S.O1710 (E), dated the 5th October, 2006, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part – II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 5th October, 2006, namely:-

In the said notification,-

- (a) in the preamble in para 3, for the words “Special District Revenue Officer”, the words “District Revenue Officer” shall be substituted;
- (b) In the Schedule, against Taluk “Dharmapuri”, -
- (i) against village “(2) Adhiyamankottai”, -

- (i) against Survey number "52/6(part)", in column (8), for the entry "360", the entry "450" shall be substituted ;
- (ii) against Survey number "87/A1B(part)", in column (8), for the entry "100", the entry "200" shall be substituted ;
- (iii) against Survey number "88/1(part)", in column (8), for the entry "145", the entry "150" shall be substituted ;
- (iv) against Survey number "88/2(part)", in column (8), for the entry "2850", the entry "2900" shall be substituted ;
- (v) against Survey number "88/3(part)", in column (8), for the entry "96", the entry "100" shall be substituted ;
- (vi) against Survey number "88/4(part)", in column (8), for the entry "3670", the entry "3850" shall be substituted ;
- (vii) against Survey number "88/6(part)", in column (8), for the entry "2400", the entry "2600" shall be substituted ;
- (viii) against Survey number "113/2D(part)", in column (8), for the entry "80", the entry "92" shall be substituted ;
- (ix) against Survey number "113/2E(part)", in column (8), for the entry "1438", the entry "1441" shall be substituted ;
- (x) against Survey number "190/3(part)", in column (8), for the entry "5054", the entry "5454" shall be substituted ;
- (xi) against Survey number "334(part)", in column (8), for the entry "720", the entry "1900" shall be substituted ;
- (xii) against Survey number "347(part)", in column (8), for the entry "7341", the entry "7450" shall be substituted ;
- (xiii) against Survey number "348/8B(part)", in column (8), for the entry "106", the entry "112" shall be substituted ;
- (xiv) against Survey number "349/7(part)", in column (8), for the entry "400", the entry "440" shall be substituted ;
- (xv) against Survey number "401(part)", in column (8), for the entry "6800", the entry "6900" shall be substituted ;
- (xvi) against Survey number "403/6(part)", in column (8), for the entry "720", the entry "1240" shall be substituted ;
- (xvii) against Survey number "405/1(part)", in column (8), for the entry "535", the entry "540" shall be substituted ;

- (xviii) against Survey number "405/2(part)", in column (8), for the entry "1050", the entry "1100" shall be substituted ;
- (xix) against Survey number "406/5(part)", in column (8), for the entry "25", the entry "35" shall be substituted ;
- (xx) against Survey number "407/1(part)", in column (8), for the entry "1300", the entry "1350" shall be substituted ;
- (xxi) against Survey number "408/1(part)", in column (8), for the entry "780", the entry "800" shall be substituted ;
- (xxii) against Survey number "409/3(part)", in column (8), for the entry "1200", the entry "1230" shall be substituted ;
- (xxiii) against Survey number "411/1(part)", in column (8), for the entry "950", the entry "980" shall be substituted ;
- (xxiv) against Survey number "517(part)", in column (8), for the entry "676", the entry "752" shall be substituted ;
- (xxv) against Survey number "519/1(part)", in column (8), for the entry "1780", the entry "1950" shall be substituted ;
- (xxvi) against Survey number "521/5(part)", in column (8), for the entry "190", the entry "200" shall be substituted ;
- (xxvii) against Survey number "867/7A(part)", in column (8), for the entry "1300", the entry "1425" shall be substituted ;
- (xxviii) against Survey number "867/7B(part)", in column (8), for the entry "3600", the entry "3845" shall be substituted ;
- (xxix) against Survey number "867/7E(part)", in column (8), for the entry "190", the entry "689" shall be substituted ;
- (xxx) against Survey number "867/8(part)", in column (8), for the entry "6500", the entry "6520" shall be substituted ;
- (xxxi) against Survey number "867/15B",-
(A) in column (6), for the entry "Government", the entry "Private" shall be substituted;
(B) in column (7), for the entry "Surplus land" the entry "Private" shall be substituted;
(C) in column (8), for the entry "750" the entry "550" shall be substituted;
- (xxxii) against Survey number "867/15F(part)",-
(A) in column (6), for the entry "Government", the entry "Private" shall be substituted;

(B) in column (7), for the entry "Surplus land" the entry "Private" shall be substituted;

(xxxiii) against Survey number "867/15G(part)",-

(A) in column (6), for the entry "Government", the entry "Private" shall be substituted;

(B) in column (7), for the entry "Surplus land" the entry "Private" shall be substituted;

(II) against village "(3) Pagalahalli",-

(i) against Survey number "46/2B(part)", in column (8), for the entry "630", the entry "640" shall be substituted ;

(ii) against Survey number "64/1B1", in column (6), for the entry "Government", the entry "Private" shall be substituted ;

(iii) against Survey number "64/2B1(Part)", in column (6), for the entry "Government", the entry "Private" shall be substituted ;

(iv) against Survey number "64/22", in column (6), for the entry "Government", the entry "Private" shall be substituted ;

(v) against Survey number "64/23", in column (6), for the entry "Government", the entry "Private" shall be substituted ;

(vi) against Survey number "64/24(Part)", in column (6), for the entry "Government", the entry "Private" shall be substituted ;

(vii) against Survey number "64/25(Part)", in column (6), for the entry "Government", the entry "Private" shall be substituted ;

(viii) against Survey number "64/53", in column (6), for the entry "Government", the entry "Private" shall be substituted ;

(ix) against Survey number "64/54(Part)", in column (6), for the entry "Government", the entry "Private" shall be substituted ;

(x) against Survey number "64/57(Part)", in column (6), for the entry "Government", the entry "Private" shall be substituted ;

(xi) against Survey number "68/3(Part)", in column (6), for the entry "Government", the entry "Private" shall be substituted ;

(xii) against Survey number "68/20(Part)", in column (6), for the entry "Government", the entry "Private" shall be substituted ;

(xiii) against Survey number "68/22", in column (6), for the entry "Government", the entry "Private" shall be substituted ;

- (xiv) against Survey number "68/23(Part)", in column (6), for the entry "Government", the entry "Private" shall be substituted ;
- (xv) against Survey number "68/24(Part)", in column (6), for the entry "Government", the entry "Private" shall be substituted ;
- (xvi) against Survey number "68/62(Part)", in column (6), for the entry "Government", the entry "Private" shall be substituted ;
- (xvii) against Survey number "68/63", in column (6), for the entry "Government", the entry "Private" shall be substituted ;
- (xviii) against Survey number "68/64", in column (6), for the entry "Government", the entry "Private" shall be substituted ;
- (xix) against Survey number "68/65(Part)", in column (6), for the entry "Government", the entry "Private" shall be substituted ;
- (xx) against Survey number "68/66(Part)", in column (6), for the entry "Government", the entry "Private" shall be substituted ;
- (xxi) against Survey number "79/1(Part)", in column (8), for the entry "1146", the entry "1147" shall be substituted ;
- (xxii) against Survey number "80/3A2A(Part)", in column (8), for the entry "283", the entry "295" shall be substituted ;
- (xxiii) for Survey number "85/2(Part)" and the entries relating thereto in columns 6,7 and 8, the following Survey number and entries shall respectively be substituted, namely,-

5	6	7	8
"85/2	Government	Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Road section)	350";

- (xxiv) for Survey number "119/2(Part)" and the entries relating thereto in columns 6,7 and 8, the following Survey number and entries shall respectively be substituted, namely,-

5	6	7	8
"119/2	Government	Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Road section)	200";

- (xxv) for Survey number "120/2(Part)" and the entries relating thereto in columns 6,7

and 8, the following Survey number and the entries shall respectively be substituted, namely,-

5	6	7	8
"120/2	Government	Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Road section)	1350";

- (xxvi) against Survey number "264/2(Part)", in column (6), for the entry "Government", the entry "Private" shall be substituted ;
- (xxvii) against Survey number "264/36(Part)", in column (6), for the entry "Government", the entry "Private" shall be substituted ;
- (xxviii) against Survey number "286/1A", in column (6), for the entry "Government", the entry "Private" shall be substituted ;
- (xxix) against Survey number "286/1B(Part)", in column (6), for the entry "Government", the entry "Private" shall be substituted ;
- (xxx) against Survey number "286/1N(Part)", in column (6), for the entry "Government", the entry "Private" shall be substituted ;
- (xxxi) against Survey number "287(Part)", in column (8), for the entry "842", the entry "846" shall be substituted ;
- (xxxii) against Survey number "316/4B(Part)", in column (8), for the entry "90", the entry "92" shall be substituted ;

(III) against village "(5) Palayam",-

- (ii) for Survey number "43/1B6 (Part)" and the entries relating thereto in columns 6,7 and 8, the following Survey number and the entries shall respectively be substituted namely,-

5	6	7	8
"43/1B6A	Private	Dry	679
43/1B6B	Private	Dry	300
43/1B6C	Private	Dry	192";

- (ii) against Survey number "150/1",-
- (A) in column (6), for the entry "Government", the entry "Private" shall be substituted;
- (B) in column (7), for the entry "Dry", the entry "Road Margin" shall be substituted;
- (ii) against Survey number "513/4(part) ",-

- (A) in column (6), for the entry "Government", the entry "Private" shall be substituted;
- (B) in column (7), for the entry "Battai", the entry "Dry" shall be substituted;
- (iii) against Survey number "150/2A(Part)", in column (8), for the entry "413", the entry "448" shall be substituted ;
 - (iv) against Survey number "150/2B(Part)", in column (8), for the entry "230", the entry "350" shall be substituted ;
 - (v) against Survey number "169/1(Part)", in column (8), for the entry "630", the entry "650" shall be substituted ;
 - (vi) against Survey number "169/2D2(Part)", in column (8), for the entry "95", the entry "108" shall be substituted ;
 - (vii) against Survey number "172/1(Part)", in column (8), for the entry "280", the entry "291" shall be substituted ;
 - (viii) against Survey number "172/4F(Part)", in column (8), for the entry "60", the entry "74" shall be substituted ;
 - (ix) against Survey number "172/5(Part)", in column (8), for the entry "371", the entry "386" shall be substituted ;
 - (x) against Survey number "179/3(Part)", in column (8), for the entry "270", the entry "320" shall be substituted ;
 - (xi) against Survey number "179/4(Part)", in column (8), for the entry "400", the entry "440" shall be substituted ;
 - (xii) against Survey number "189/9(Part)", in column (8), for the entry "175", the entry "178" shall be substituted ;
 - (xiii) against Survey number "190/2(Part)", in column (8), for the entry "39", the entry "40" shall be substituted ;
 - (xiv) against Survey number "199/3(Part)", in column (8), for the entry "1650", the entry "1720" shall be substituted ;
 - (xv) against Survey number "199/4(Part)", in column (8), for the entry "240", the entry "250" shall be substituted ;
 - (xvi) against Survey number "200/1A(Part)", in column (8), for the entry "1541", the entry "1620" shall be substituted ;
 - (xvii) against Survey number "200/1E5(Part)", in column (8), for the entry "587", the entry "640" shall be substituted ;

- (xviii) against Survey number "204/1(Part)", in column (8), for the entry "995", the entry "1020" shall be substituted ;
- (xix) against Survey number "418/2C(Part)", in column (8), for the entry "370", the entry "400" shall be substituted ;
- (xx) against Survey number "418/2D3(Part)", in column (8), for the entry "85", the entry "90" shall be substituted ;
- (xxi) against Survey number "425/2C(Part)", in column (8), for the entry "1340", the entry "1440" shall be substituted ;
- (xxii) against Survey number "434/2A1(Part)", in column (8), for the entry "1200", the entry "1250" shall be substituted ;
- (xxiii) against Survey number "434/2A2(Part)", in column (8), for the entry "2990", the entry "3010" shall be substituted ;
- (xxiv) against Survey number "440/2A1(Part)", in column (8), for the entry "3390", the entry "3400" shall be substituted ;
- (xxv) against Survey number "441/3A(Part)", in column (8), for the entry "83", the entry "103" shall be substituted ;
- (xxvi) against Survey number "456/2B(Part)", in column (8), for the entry "194", the entry "224" shall be substituted ;
- (xxvii) against Survey number "469/2C(Part)", in column (8), for the entry "476", the entry "483" shall be substituted ;
- (xxviii) against Survey number "470(Part)", in column (8), for the entry "572", the entry "600" shall be substituted ;
- (xxix) against Survey number "520/4(Part)", in column (8), for the entry "83" the entry "84" shall be substituted ;
- (xxx) against Survey number "565(Part)", in column (8), for the entry "420", the entry "4450" shall be substituted ;
- (xxxi) against Survey number "566/2B(Part)", in column (8), for the entry "673", the entry "733" shall be substituted ;
- (xxxii) against Survey number "566/3(Part)", in column (8), for the entry "307", the entry "352" shall be substituted ;
- (xxxiii) against Survey number "567/2A(Part)", in column (8), for the entry "20", the entry "40" shall be substituted ;
- (xxxiv) against Survey number "567/2C(Part)", in column (8), for the entry "300", the entry "380" shall be substituted ;

- (xxxv) against Survey number "569/4(Part)", in column (8), for the entry "580", the entry "630" shall be substituted ;
- (xxxvi) against Survey number "591/2B(Part)", in column (8), for the entry "11", the entry "22" shall be substituted ;
- (xxxvii) against Survey number "592/2B(Part)", in column (8), for the entry "469", the entry "471" shall be substituted ;
- (xxxviii) against Survey number "592/2C1A(Part)", In column (8), for the entry "1985", the entry "2050" shall be substituted ;
- (IV) against village "(1) Nallampalli",-
- (i) against Survey number "45/1B(Part)", in column (8), for the entry "2050", the entry "2620" shall be substituted ;
- (ii) against Survey number "251/1A2(Part)", in column (8), for the entry "1247", the entry "1642" shall be substituted ;
- (iii) against Survey number "256/1(Part)",-
- (A) in column (6), for the entry "Government", the entry "Private" shall be substituted;
- (B) in column (7), for the entry "Arunthathiar Kudieruppu", the entry "Dry" shall be substituted;
- (iv) against Survey number "257/1D(Part)", in column (8), for the entry "1389", the entry "1390" shall be substituted ;
- (v) against Survey number "290(Part)", in column (8), for the entry "280", the entry "314" shall be substituted ;
- (vi) against Survey number "301/2C(Part)", in column (8), for the entry "114", the entry "116" shall be substituted ;
- (V) against village "(4) Dokkubothanahalli",-
- (i) against Survey number "265/3(Part)", in column (8), for the entry "940", the entry "947" shall be substituted ;
- (ii) against Survey number "267/2B5(Part)", in column (8), for the entry "47", the entry "51" shall be substituted ;
- (iii) against Survey number "269/2A2B(Part)", in column (8), for the entry "1027", the entry "1036" shall be substituted ;

- (iv) against Survey number "271/2A1(Part)", in column (8), for the entry "730", the entry "850" shall be substituted ;
- (v) against Survey number "271/6(Part)", in column (8), for the entry "123", the entry "130" shall be substituted ;

Any person interested in the land mentioned in this notification may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the purpose mentioned in the principal notification under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

[F. No. NHAI/Tech/LA/KT/Agasi 3(A) 11/2006]

PRABHAKAR, Dy. Secy.

Foot note :- The principal notification was published vide S.O. No. 1710(E), dated the 5th October, 2006, in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 5th October, 2006.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2007

का.आ. 346(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 1711 (अ), तारीख 5 अक्टूबर, 2006, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 5 अक्टूबर, 2006 में प्रकाशित की गई थी, में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,

(क) पैरा 3 में प्रस्तावना में, "विशेष जिला राजस्व अधिकारी" शब्दों के स्थान पर "जिला राजस्व अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) अनुसूची में,

(I) तालुक "1" पलाकोडू के सामने,-

(क) गाँव "(2) केरीकोडीहल्ली" के सामने,-

(i) सर्वेक्षण संख्या "138/3 [भाग]" के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "850" के स्थान पर प्रविष्टि "900" रखी जाएगी;

(ii) सर्वेक्षण संख्या "141/2ए1 [भाग]" के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "758" के स्थान पर प्रविष्टि "788" रखी जाएगी;

(iii) सर्वेक्षण संख्या "141/2सी1 [भाग]" के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "1189" के स्थान पर प्रविष्टि "1200" रखी जाएगी;

(iv) सर्वेक्षण संख्या "142/2बी5 [भाग]" के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "828" के स्थान पर प्रविष्टि "866" रखी जाएगी;

(v) सर्वेक्षण संख्या "145/2सी4 [भाग]" के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "237" के स्थान पर प्रविष्टि "257" रखी जाएगी;

- (vi) सर्वेक्षण संख्या “146/2ए1 [भाग]” के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “276” के स्थान पर प्रविष्टि “337” रखी जाएगी;
 - (vii) सर्वेक्षण संख्या “146/2सी1 [भाग]” के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “557” के स्थान पर प्रविष्टि “558” रखी जाएगी;
 - (viii) सर्वेक्षण संख्या “174/1 [भाग]” के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “702” के स्थान पर प्रविष्टि “721” रखी जाएगी;
 - (ix) सर्वेक्षण संख्या “174/2 [भाग]” के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “1900” के स्थान पर प्रविष्टि “1935” रखी जाएगी;
 - (x) सर्वेक्षण संख्या “176/2 [भाग]” के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “760” के स्थान पर प्रविष्टि “769” रखी जाएगी;
 - (xi) सर्वेक्षण संख्या “180/1 [भाग]” के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “435” के स्थान पर प्रविष्टि “448” रखी जाएगी;
 - (xii) सर्वेक्षण संख्या “188/1बी [भाग]” के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “162” के स्थान पर प्रविष्टि “169” रखी जाएगी;
 - (xiii) सर्वेक्षण संख्या “197/3 [भाग]” के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “635” के स्थान पर प्रविष्टि “671” रखी जाएगी;
 - (xiv) सर्वेक्षण संख्या “197/7 [भाग]” के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “27” के स्थान पर प्रविष्टि “30” रखी जाएगी;
 - (xv) सर्वेक्षण संख्या “197/12 [भाग]” के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “134” के स्थान पर प्रविष्टि “140” रखी जाएगी;
 - (xvi) स्तम्भ (5) में, प्रविष्टि “198/2ए” के स्थान पर प्रविष्टि “198/2ए1” रखी जाएगी;
 - (xvii) सर्वेक्षण संख्या “280/1ए6 [भाग]” के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “85” के स्थान पर प्रविष्टि “110” रखी जाएगी;
 - (xviii) सर्वेक्षण संख्या “400/3ए6 [भाग]” के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “58” के स्थान पर प्रविष्टि “68” रखी जाएगी;
 - (xix) सर्वेक्षण संख्या “406/3सी [भाग]” के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “204” के स्थान पर प्रविष्टि “219” रखी जाएगी;
 - (xx) सर्वेक्षण संख्या “333/1 [भाग]” के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “निजी” के स्थान पर प्रविष्टि “सरकारी” रखी जाएगी;
- (ख) गाँव “(3)” पेरियानाहल्ली” के सामने,-
- (i) सर्वेक्षण संख्या “499/ए [भाग]” के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “195” के स्थान पर प्रविष्टि “250” रखी जाएगी;
 - (ii) सर्वेक्षण संख्या “500/1बी [भाग]” के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “79” के स्थान पर प्रविष्टि “110” रखी जाएगी;
 - (iii) सर्वेक्षण संख्या “545/2ए2बी [भाग]” के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “480” के स्थान पर प्रविष्टि “487” रखी जाएगी;
 - (iv) सर्वेक्षण संख्या “546/1बी3 [भाग]” के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “100” के स्थान पर प्रविष्टि “110” रखी जाएगी;

- (v) सर्वेक्षण संख्या "551/1 [भाग]" के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "458" के स्थान पर प्रविष्टि "470" रखी जाएगी;
- (vi) सर्वेक्षण संख्या "560/2 [भाग]" के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "1015" के स्थान पर प्रविष्टि "1135" रखी जाएगी;
- (vii) सर्वेक्षण संख्या "566/1 [भाग]" के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "398" के स्थान पर प्रविष्टि "471" रखी जाएगी;
- (viii) सर्वेक्षण संख्या "575/1बी [भाग]" के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "1252" के स्थान पर प्रविष्टि "1352" रखी जाएगी;
- (ix) सर्वेक्षण संख्या "594/1 [भाग]" के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "1050" के स्थान पर प्रविष्टि "1055" रखी जाएगी;
- (x) सर्वेक्षण संख्या "595/6 [भाग]" के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "500" के स्थान पर प्रविष्टि "520" रखी जाएगी;
- (xi) सर्वेक्षण संख्या "597/1ए [भाग]" के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "2600" के स्थान पर प्रविष्टि "2650" रखी जाएगी;
- (xii) सर्वेक्षण संख्या "598/1 [भाग]" के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "23" के स्थान पर प्रविष्टि "24" रखी जाएगी;
- (xiii) सर्वेक्षण संख्या "600/1 [भाग]" के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "110" के स्थान पर प्रविष्टि "118" रखी जाएगी;
- (xiv) सर्वेक्षण संख्या "614/6 [भाग]" के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "4395" के स्थान पर प्रविष्टि "4399" रखी जाएगी;
- (xv) सर्वेक्षण संख्या "621/2एफ [भाग]" के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "3494" के स्थान पर प्रविष्टि "3542" रखी जाएगी;
- (xvi) सर्वेक्षण संख्या "624/4 [भाग]" के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "200" के स्थान पर प्रविष्टि "210" रखी जाएगी;
- (xvii) सर्वेक्षण संख्या "624/5 [भाग]" के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "60" के स्थान पर प्रविष्टि "66" रखी जाएगी;
- (xviii) सर्वेक्षण संख्या "658/2ए3ए [भाग]" के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "920" के स्थान पर प्रविष्टि "956" रखी जाएगी;
- (xix) सर्वेक्षण संख्या "658/2ए3बी [भाग]" के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "1050" के स्थान पर प्रविष्टि "1088" रखी जाएगी;
- (xx) सर्वेक्षण संख्या "659/1बी [भाग]" के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "354" के स्थान पर प्रविष्टि "358" रखी जाएगी;
- (xxi) सर्वेक्षण संख्या "659/2बी [भाग]" के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "182" के स्थान पर प्रविष्टि "186" रखी जाएगी;
- (xxii) सर्वेक्षण संख्या "659/3बी1 [भाग]" के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "384" के स्थान पर प्रविष्टि "423" रखी जाएगी;

- (xxiii) सर्वेक्षण संख्या “681/1बी2 [भाग]” के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “33” के स्थान पर प्रविष्टि “37” रखी जाएगी;
- (xxiv) सर्वेक्षण संख्या “681/1सी2 [भाग]” के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “31” के स्थान पर प्रविष्टि “42” रखी जाएगी;
- (xxv) सर्वेक्षण संख्या “681/1सी3 [भाग]” के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “89” के स्थान पर प्रविष्टि “98” रखी जाएगी;
- (xxvi) सर्वेक्षण संख्या “681/1सी4 [भाग]” के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “18” के स्थान पर प्रविष्टि “26” रखी जाएगी;
- (xxvii) सर्वेक्षण संख्या “661” के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “11800” के स्थान पर प्रविष्टि “17800” रखी जाएगी;

- (ग) गाँव “(1) बैसूहल्ली” के सामने,—
- (i) सर्वेक्षण संख्या “42/6 [भाग]” के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “812” के स्थान पर प्रविष्टि “832” रखी जाएगी;
- (ii) सर्वेक्षण संख्या “44/2एफ [भाग]” के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “120” के स्थान पर प्रविष्टि “128” रखी जाएगी;
- (iii) सर्वेक्षण संख्या “50/1यू [भाग]” के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “1250” के स्थान पर प्रविष्टि “1300” रखी जाएगी;
- (iv) सर्वेक्षण संख्या “66/3 [भाग]” के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “545” के स्थान पर प्रविष्टि “550” रखी जाएगी;
- (v) सर्वेक्षण संख्या “205/2 [भाग]” के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “1189” के स्थान पर प्रविष्टि “1200” रखी जाएगी;
- (vi) सर्वेक्षण संख्या “228/4 [भाग]” के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “387” के स्थान पर प्रविष्टि “395” रखी जाएगी;
- (vii) सर्वेक्षण संख्या “229/3बी [भाग]” के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “590” के स्थान पर प्रविष्टि “600” रखी जाएगी;
- (viii) सर्वेक्षण संख्या “251/2बी [भाग]” के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “1250” के स्थान पर प्रविष्टि “1270” रखी जाएगी;
- (ix) सर्वेक्षण संख्या “283/2 [भाग]” के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “850” के स्थान पर प्रविष्टि “878” रखी जाएगी;
- (II) तालुक “2” धर्मापुरी के सामने,—
- (क) गाँव “(3) टडंगम” के सामने,—
- (i) सर्वेक्षण संख्या “23/36 [भाग]” के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “105” के स्थान पर प्रविष्टि “112” रखी जाएगी;

- (ii) सर्वेक्षण संख्या "23/7 [भाग]" के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "550" के स्थान पर प्रविष्टि "750" रखी जाएगी;
 - (iii) सर्वेक्षण संख्या "36/2 [भाग]" के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "950" के स्थान पर प्रविष्टि "992" रखी जाएगी;
 - (iv) सर्वेक्षण संख्या "36/3ए [भाग]" के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "1286" के स्थान पर प्रविष्टि "1291" रखी जाएगी;
 - (v) सर्वेक्षण संख्या "37/2ए3 [भाग]" के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "76" के स्थान पर प्रविष्टि "81" रखी जाएगी;
 - (vi) सर्वेक्षण संख्या "37/2बी [भाग]" के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "180" के स्थान पर प्रविष्टि "205" रखी जाएगी;
 - (vii) सर्वेक्षण संख्या "79/1ए1ए [भाग]" के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "4800" के स्थान पर प्रविष्टि "4900" रखी जाएगी;
 - (viii) सर्वेक्षण संख्या "84/2सी1 [भाग]" के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "8830" के स्थान पर प्रविष्टि "8850" रखी जाएगी;
 - (ix) सर्वेक्षण संख्या "97/1ए [भाग]" के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "2300" के स्थान पर प्रविष्टि "2400" रखी जाएगी;
 - (x) सर्वेक्षण संख्या "97/1बी [भाग]" के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "1260" के स्थान पर प्रविष्टि "1308" रखी जाएगी;
 - (xi) सर्वेक्षण संख्या "97/2 [भाग]" के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "970" के स्थान पर प्रविष्टि "1030" रखी जाएगी;
 - (xii) सर्वेक्षण संख्या "474 [भाग]" के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "3850" के स्थान पर प्रविष्टि "4250" रखी जाएगी;
 - (xiii) सर्वेक्षण संख्या "475 [भाग]" के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "4432" के स्थान पर प्रविष्टि "4650" रखी जाएगी;
 - (xiv) सर्वेक्षण संख्या "477 [भाग]" के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "630" के स्थान पर प्रविष्टि "730" रखी जाएगी;
- (ख) गाँव "(1) नल्लानाहल्ली" के सामने,-
- (i) सर्वेक्षण संख्या "20/2सी3बी [भाग]" के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "258" के स्थान पर प्रविष्टि "260" रखी जाएगी;
 - (ii) सर्वेक्षण संख्या "24/4ए2 [भाग]" के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "1418" के स्थान पर प्रविष्टि "1425" रखी जाएगी;
 - (iii) सर्वेक्षण संख्या "64/6 [भाग]" के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "5" के स्थान पर प्रविष्टि "6" रखी जाएगी;
 - (iv) सर्वेक्षण संख्या "124/1बी1 [भाग]" के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "170" के स्थान पर प्रविष्टि "200" रखी जाएगी;

- (v) सर्वेक्षण संख्या “131/2ए1बी [भाग]” के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “680” के स्थान पर प्रविष्टि “693” रखी जाएगी;
- (vi) सर्वेक्षण संख्या “140/1बी1सी [भाग]” के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “620” के स्थान पर प्रविष्टि “660” रखी जाएगी;
- (vii) सर्वेक्षण संख्या “148/2 [भाग]” के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “905” के स्थान पर प्रविष्टि “921” रखी जाएगी;
- (viii) सर्वेक्षण संख्या “148/3 [भाग]” के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “892” के स्थान पर प्रविष्टि “893” रखी जाएगी;
- (ix) सर्वेक्षण संख्या “148/7बी [भाग]” के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “1240” के स्थान पर प्रविष्टि “1420” रखी जाएगी;
- (x) सर्वेक्षण संख्या “189/3 [भाग]” के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “632” के स्थान पर प्रविष्टि “700” रखी जाएगी;
- (xi) सर्वेक्षण संख्या “189/7बी1 [भाग]” के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “407” के स्थान पर प्रविष्टि “460” रखी जाएगी;
- (xii) सर्वेक्षण संख्या “189/7बी2 [भाग]” के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “67” के स्थान पर प्रविष्टि “81” रखी जाएगी;
- (xiii) सर्वेक्षण संख्या “191/1 [भाग]” के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “2117” के स्थान पर प्रविष्टि “2214” रखी जाएगी;
- (xiv) सर्वेक्षण संख्या “190/3डी [भाग]” के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “4550” के स्थान पर प्रविष्टि “4600” रखी जाएगी;
- (xv) सर्वेक्षण संख्या “191/5ए2बी [भाग]” के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “40” के स्थान पर प्रविष्टि “50” रखी जाएगी;
- (xvi) सर्वेक्षण संख्या “198/1 [भाग]” के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “3700” के स्थान पर प्रविष्टि “3750” रखी जाएगी;
- (xvii) सर्वेक्षण संख्या “209/1 [भाग]” के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “147” के स्थान पर प्रविष्टि “150” रखी जाएगी;
- (xviii) सर्वेक्षण संख्या “209/14 [भाग]” के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “300” के स्थान पर प्रविष्टि “360” रखी जाएगी;
- (xix) सर्वेक्षण संख्या “213/1एल1ए [भाग]” के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “790” के स्थान पर प्रविष्टि “810” रखी जाएगी;
- (xx) सर्वेक्षण संख्या “213/1एल1सी [भाग]” के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “130” के स्थान पर प्रविष्टि “140” रखी जाएगी;
- (xxi) सर्वेक्षण संख्या “213/1एल3 [भाग]” के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “50” के स्थान पर प्रविष्टि “60” रखी जाएगी;
- (xxii) सर्वेक्षण संख्या “213/1के [भाग]” के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “1312” के स्थान पर प्रविष्टि “1319” रखी जाएगी;

- (xxiii) सर्वेक्षण संख्या "217/5 [भाग]" के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "228" के स्थान पर प्रविष्टि "250" रखी जाएगी;
- (xxiv) सर्वेक्षण संख्या "35/1 [भाग]" के सामने, स्तम्भ (7) में, प्रविष्टि "शुष्क" के स्थान पर प्रविष्टि "नम" रखी जाएगी;
- (xxv) सर्वेक्षण संख्या "35/2 [भाग]" के सामने, स्तम्भ (7) में, प्रविष्टि "शुष्क" के स्थान पर प्रविष्टि "नम" रखी जाएगी;
- (ग) गाँव "(2) रेदीहल्ली" के सामने,-
- (i) सर्वेक्षण संख्या "27/1 [भाग]" के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "80" के स्थान पर प्रविष्टि "83" रखी जाएगी;
- (ii) सर्वेक्षण संख्या "32/3 [भाग]" के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "1460" के स्थान पर प्रविष्टि "1500" रखी जाएगी;
- (iii) सर्वेक्षण संख्या "43/2 [भाग]" के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "4600" के स्थान पर प्रविष्टि "4614" रखी जाएगी;
- (iv) सर्वेक्षण संख्या "43/3 [भाग]" के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "25" के स्थान पर प्रविष्टि "34" रखी जाएगी;
- (v) सर्वेक्षण संख्या "76 [भाग]" के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "3900" के स्थान पर प्रविष्टि "4050" रखी जाएगी;
- (vi) सर्वेक्षण संख्या "78/1 [भाग]" के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "1200" के स्थान पर प्रविष्टि "1205" रखी जाएगी;
- (vii) सर्वेक्षण संख्या "86/14 [भाग]" के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "530" के स्थान पर प्रविष्टि "547" रखी जाएगी;
- (viii) सर्वेक्षण संख्या "86/3बी1 [भाग]" के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "300" के स्थान पर प्रविष्टि "309" रखी जाएगी;
- (ix) सर्वेक्षण संख्या "89/1बी7 [भाग]" के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "60" के स्थान पर प्रविष्टि "68" रखी जाएगी;
- (x) सर्वेक्षण संख्या "93/1 [भाग]" के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "660" के स्थान पर प्रविष्टि "700" रखी जाएगी;
- (xi) सर्वेक्षण संख्या "143/3बी [भाग]" के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "2300" के स्थान पर प्रविष्टि "2330" रखी जाएगी;
- (xii) सर्वेक्षण संख्या "166 [भाग]" के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "2750" के स्थान पर प्रविष्टि "2758" रखी जाएगी;
- (xiii) सर्वेक्षण संख्या "224/4 [भाग]" के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "8" के स्थान पर प्रविष्टि "16" रखी जाएगी;
- (xiv) सर्वेक्षण संख्या "376/1 [भाग]" के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि "83" के स्थान पर प्रविष्टि "88" रखी जाएगी;

- (xv) सर्वेक्षण संख्या “399/5 [भाग]” के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “1380” के स्थान पर प्रविष्टि “1407” रखी जाएगी;
- (xvi) सर्वेक्षण संख्या “405/3 [भाग]” के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “41” के स्थान पर प्रविष्टि “44” रखी जाएगी;
- (xvii) सर्वेक्षण संख्या “406/1 [भाग]” के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “450” के स्थान पर प्रविष्टि “500” रखी जाएगी;
- (xviii) सर्वेक्षण संख्या “406/7 [भाग]” के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “1200” के स्थान पर प्रविष्टि “1300” रखी जाएगी;
- (xix) सर्वेक्षण संख्या “407 [भाग]” के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “650” के स्थान पर प्रविष्टि “2320” रखी जाएगी;
- (xx) सर्वेक्षण संख्या “428/1बी [भाग]” के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “750” के स्थान पर प्रविष्टि “776” रखी जाएगी;
- (xxi) सर्वेक्षण संख्या “428/1सी [भाग]” के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “800” के स्थान पर प्रविष्टि “825” रखी जाएगी;
- (xxii) सर्वेक्षण संख्या “428/1डी [भाग]” के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “800” के स्थान पर प्रविष्टि “844” रखी जाएगी;
- (xxiii) सर्वेक्षण संख्या “428/2 [भाग]” के सामने, स्तम्भ (8) में, प्रविष्टि “3050” के स्थान पर प्रविष्टि “3258” रखी जाएगी;

(xxiv) सर्वेक्षण संख्या “440/1बी1 [भाग]” के सामने

(क) स्तम्भ (6) में, प्रविष्टि “सरकारी” के स्थान पर प्रविष्टि “निजी” रखी जाएगी;

(ख) स्तम्भ (7) में, प्रविष्टि “अदिद्रविदर कुदिरुप्पु” के स्थान पर प्रविष्टि “शुष्क” रखी जाएगी;

(xxv) सर्वेक्षण संख्या “209/10 [भाग]” के सामने

(क) स्तम्भ (6) में, प्रविष्टि “सरकारी” के स्थान पर प्रविष्टि “निजी” रखी जाएगी;

(ख) स्तम्भ (7) में, प्रविष्टि “सड़क” के स्थान पर प्रविष्टि “शुष्क” रखी जाएगी;

(xxvi) सर्वेक्षण संख्या “210” के सामने

(क) स्तम्भ (6) में, प्रविष्टि “निजी” के स्थान पर प्रविष्टि “सरकारी” रखी जाएगी;

(ख) स्तम्भ (7) में, प्रविष्टि “शुष्क” के स्थान पर प्रविष्टि “निजी” रखी जाएगी;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन मूल अधिसूचना में उल्लिखित प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

[फा. सं. भाराप्र/तक/एलए/केटी/अगासी 3(ए) 11/2006]

प्रभाकर, उप-सचिव

पाद टिप्पणी : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 5 अक्टूबर, 2006, में का.आ. 1711(अ), तारीख 5 अक्टूबर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2007

S.O. 346(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways), number S.O.1711 (E), dated the 5th October, 2006, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part – II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 5th October, 2006, namely:—

In the said notification,—

- (a) in the preamble in para 3, for the words "Special District Revenue Officer" the words "District Revenue Officer" shall be substituted;
- (b) in the Schedule,—
 - (I) against Taluk "1" Palacode", -
 - (A) against village "(2) Kerakodahalli",
 - (i) against Survey number "138/3(Part)", in column (8), for the entry "850", the entry "900" shall be substituted;
 - (ii) against Survey number "141/2A1(Part)", in column (8), for the entry "758", the entry "788" shall be substituted;
 - (iii) against Survey number "141/2C1(Part)", in column (8), for the entry "1189", the entry "1200" shall be substituted;
 - (iv) against Survey number "142/2B5(Part)", in column (8), for the entry "828", the entry "866" shall be substituted;
 - (v) against Survey number "145/2C4(Part)", in column (8), for the entry "237", the entry "257" shall be substituted;
 - (vi) against Survey number "146/2A1(Part)", in column (8), for the entry "276", the entry "337" shall be substituted;
 - (vii) against Survey number "146/2C1(Part)", in column (8), for the entry "557", the entry "558" shall be substituted;

825 GT/07-26

- (viii) against Survey number "174/1(Part)", in column (8), for the entry "702", the entry "721" shall be substituted ;
- (ix) against Survey number "174/2(Part)", in column (8), for the entry "1900", the entry "1935" shall be substituted ;
- (x) against Survey number "176/2(Part)", in column (8), for the entry "760", the entry "769" shall be substituted ;
- (xi) against Survey number "180/1(Part)", in column (8), for the entry "435", the entry "448" shall be substituted ;
- (xii) against Survey number "188/1B(Part)", in column (8), for the entry "162", the entry "169" shall be substituted ;
- (xiii) against Survey number "197/3(Part)", in column (8), for the entry "635", the entry "671" shall be substituted ;
- (xiv) against Survey number "197/7(Part)", in column (8), for the entry "27", the entry "30" shall be substituted ;
- (xv) against Survey number "197/12(Part)", in column (8), for the entry "134", the entry "140" shall be substituted ;
- (xvi) In column (5), for the entry "198/2A", the entry "198/2A1" shall be substituted ;
- (xvii) against Survey number "280/1A6(Part)", in column (8), for the entry "85", the entry "110" shall be substituted ;
- (xviii) against Survey number "400/3A6(Part)", in column (8), for the entry "58", the entry "68" shall be substituted ;
- (xix) against Survey number "406/3C(Part)", in column (8), for the entry "204", the entry "219" shall be substituted ;
- (xx) against Survey number "333/1(part)", in column (6), for the entry "Private", the entry "Government" shall be substituted.;
- (B) against village "(3) Periyana halli ",
 - (i) against Survey number "499/A(Part)", in column (8), for the entry "195", the entry "250" shall be substituted ;
 - (ii) against Survey number "500/1B(Part)", in column (8), for the entry "79", the entry "110" shall be substituted ;
 - (iii) against Survey number "545/2A2B(Part)", in column (8), for the entry "480", the entry "487" shall be substituted ;
 - (iv) against Survey number "546/1B3(Part)", in column (8), for the entry "100", the entry "110" shall be substituted ;

- (v) against Survey number "551/1(Part)", in column (8), for the entry "458", the entry "470" shall be substituted ;
- (vi) against Survey number "560/2(Part)", in column (8), for the entry "1015", the entry "1135" shall be substituted ;
- (vii) against Survey number "566/1(Part)", in column (8), for the entry "398", the entry "471" shall be substituted ;
- (viii) against Survey number "575/1B(Part)", in column (8), for the entry "1252", the entry "1352" shall be substituted ;
- (ix) against Survey number "594/1(Part)", in column (8), for the entry "1050", the entry "1055" shall be substituted ;
- (x) against Survey number "595/6(Part)", in column (8), for the entry "500", the entry "520" shall be substituted ;
- (xi) against Survey number "597/1A(Part)", in column (8), for the entry "2600", the entry "2650" shall be substituted ;
- (xii) against Survey number "598/1(Part)", in column (8), for the entry "23", the entry "24" shall be substituted ;
- (xiii) against Survey number "600/1(Part)", in column (8), for the entry "110", the entry "118" shall be substituted ;
- (xiv) against Survey number "614/6(Part)", in column (8), for the entry "4395", the entry "4399" shall be substituted ;
- (xv) against Survey number "621/2F(Part)", in column (8), for the entry "3494", the entry "3542" shall be substituted ;
- (xvi) against Survey number "624/4(Part)", in column (8), for the entry "200", the entry "210" shall be substituted ;
- (xvii) against Survey number "624/5(Part)", in column (8), for the entry "60", the entry "66" shall be substituted ;
- (xviii) against Survey number "658/2A3A(Part)", in column (8), for the entry "920", the entry "956" shall be substituted ;
- (xix) against Survey number "658/2A3B(Part)", in column (8), for the entry "1050", the entry "1088" shall be substituted ;
- (xx) against Survey number "659/1B(Part)", in column (8), for the entry "354", the entry "358" shall be substituted ;
- (xxi) against Survey number "659/2B(Part)", for the entry "182", the entry "186" shall be substituted ;

- (xxii) against Survey number "659/3B1(Part)", in column (8), for the entry "384", the entry "423" shall be substituted ;
 - (xxiii) against Survey number "681/1B2(Part)", in column (8), for the entry "33", the entry "37" shall be substituted ;
 - (xxiv) against Survey number "681/1C2(Part)", in column (8), for the entry "31", the entry "42" shall be substituted ;
 - (xxv) against Survey number "681/1C3(Part)", in column (8), for the entry "89", the entry "98" shall be substituted ;
 - (xxvi) against Survey number "681/1C4(Part)", in column (8), for the entry "18", the entry "26" shall be substituted ;
 - (xxvii) against Survey number "661", for the entry "11800", the entry "17800" shall be substituted.
- (C) against village "(1) Baisu halli ",
- (i) against Survey number "42/6(Part)", in column (8), for the entry "812", the entry "832" shall be substituted ;
 - (ii) against Survey number "44/2F(Part)", in column (8), for the entry "120", the entry "128" shall be substituted ;
 - (iii) against Survey number "50/1U(Part)", in column (8), for the entry "1250", the entry "1300" shall be substituted ;
 - (iv) against Survey number "66/3(Part)", in column (8), for the entry "545", the entry "550" shall be substituted ;
 - (v) against Survey number "205/2(Part)", in column (8), for the entry "1189", the entry "1200" shall be substituted ;
 - (vi) against Survey number "228/4(Part)", in column (8), for the entry "387", the entry "395" shall be substituted ;
 - (vii) against Survey number "229/3B(Part)", in column (8), for the entry "590", the entry "600" shall be substituted ;
 - (viii) against Survey number "251/2B(Part)", in column (8), for the entry "1250", the entry "1270" shall be substituted ;
 - (ix) against Survey number "283/2(Part)", in column (8), for the entry "850", the entry "878" shall be substituted ;

(II) against Taluk " 2" Dharmapuri ", -

(A) against village "(3) Thadangam",-

- (i) against Survey number "23/36(Part)", in column (8), for the entry "105", the entry "112" shall be substituted ;
 - (ii) against Survey number "23/7(Part)", in column (8), for the entry "550", the entry "750" shall be substituted ;
 - (iii) against Survey number "36/2(Part)", in column (8), for the entry "950", the entry "992" shall be substituted ;
 - (iv) against Survey number "36/3A(Part)", in column (8), for the entry "1286", the entry "1291" shall be substituted ;
 - (v) against Survey number "37/2A3(Part)", in column (8), for the entry "76", the entry "81" shall be substituted ;
 - (vi) against Survey number "37/2B(Part)", in column (8), for the entry "180", the entry "205" shall be substituted ;
 - (vii) against Survey number "79/1A1A(Part)", in column (8), for the entry "4800", the entry "4900" shall be substituted ;
 - (viii) against Survey number "84/2C1(Part)", in column (8), for the entry "8830", the entry "8850" shall be substituted ;
 - (ix) against Survey number "97/1A(Part)", in column (8), for the entry "2300", the entry "2400" shall be substituted ;
 - (x) against Survey number "97/1B(Part)", in column (8), for the entry "1280", the entry "1308" shall be substituted ;
 - (xi) against Survey number "97/2(Part)", in column (8), for the entry "970", the entry "1030" shall be substituted ;
 - (xii) against Survey number "474(Part)", in column (8), for the entry "3850", the entry "4250" shall be substituted ;
 - (xiii) against Survey number "475(Part)", in column (8), for the entry "4432", the entry "4650" shall be substituted ;
 - (xiv) against Survey number "477(Part)", in column (8), for the entry "630", the entry "730" shall be substituted ;
- (B) against village "(1) Nallanahalli",
- (i) against Survey number "20/2C3B(Part)", in column (8), for the entry "258", the entry "260" shall be substituted ;
 - (ii) against Survey number "24/4A2(Part)", in column (8), for the entry "1415", the entry "1425" shall be substituted ;

- (iii) against Survey number "64/6(Part)", in column (8), for the entry "5", the entry "6" shall be substituted ;
- (iv) against Survey number "124/1B1(Part)", in column (8), for the entry "170", the entry "200" shall be substituted ;
- (v) against Survey number "131/2A1B(Part)", in column (8), for the entry "680", the entry "693" shall be substituted ;
- (vi) against Survey number "140/1B1C(Part)", in column (8), for the entry "620", the entry "660" shall be substituted ;
- (vii) against Survey number "148/2(Part)", in column (8), for the entry "905", the entry "921" shall be substituted ;
- (viii) against Survey number "148/3(Part)", in column (8), for the entry "892", the entry "893" shall be substituted ;
- (ix) against Survey number "148/7B(Part)", in column (8), for the entry "1240", the entry "1420" shall be substituted ;
- (x) against Survey number "189/3(Part)", in column (8), for the entry "632", the entry "700" shall be substituted ;
- (xi) against Survey number "189/7B1(Part)", in column (8), for the entry "407", the entry "460" shall be substituted ;
- (xii) against Survey number "189/7B2(Part)", in column (8), for the entry "67", the entry "81" shall be substituted ;
- (xiii) against Survey number "191/1(Part)", in column (8), for the entry "2117", the entry "2214" shall be substituted ;
- (xiv) against Survey number "190/3D(Part)", in column (8), for the entry "4550", the entry "4600" shall be substituted ;
- (xv) against Survey number "191/5A2B(Part)", in column (8), for the entry "40", the entry "50" shall be substituted ;
- (xvi) against Survey number "198/1(Part)", in column (8), for the entry "3700", the entry "3750" shall be substituted ;
- (xvii) against Survey number "209/1(Part)", in column (8), for the entry "147", the entry "150" shall be substituted ;
- (xviii) against Survey number "209/14(Part)", in column (8), for the entry "300", the entry "360" shall be substituted ;
- (xix) against Survey number "213/1L1A(Part)", in column (8), for the entry "790", the entry "810" shall be substituted ;

- (xx) against Survey number "213/1L1C(Part)", in column (8), for the entry "130", the entry "140" shall be substituted ;
- (xxi) against Survey number "213/1L3(Part)", in column (8), for the entry "50", the entry "60" shall be substituted ;
- (xxii) against Survey number "213/1K(Part)", in column (8), for the entry "1312", the entry "1319" shall be substituted ;
- (xxiii) against Survey number "217/5(Part)", in column (8), for the entry "228", the entry "250" shall be substituted ;
- (xxiv) against Survey number "35/1", in column (7), for the entry "Dry", the entry "Wet" shall be substituted ;
- (xxv) against Survey number "35/2(part)", in column (7), for the entry "Dry", the entry "Wet" shall be substituted.;
- (C) against village "(2) Reddihalli",-
 - (i) against Survey number "27/1(Part)", in column (8), for the entry "80", the entry "83" shall be substituted ;
 - (ii) against Survey number "32/3(Part)", in column (8), for the entry "1460", the entry "1500" shall be substituted ;
 - (iii) against Survey number "43/2(Part)", in column (8), for the entry "4600", the entry "4614" shall be substituted ;
 - (iv) against Survey number "43/3(Part)", in column (8), for the entry "25", the entry "34" shall be substituted ;
 - (v) against Survey number "76(Part)", in column (8), for the entry "3900", the entry "4050" shall be substituted ;
 - (vi) against Survey number "78/1(Part)", in column (8), for the entry "1200", the entry "1205" shall be substituted ;
 - (vii) against Survey number "86/14(Part)", in column (8), for the entry "530", the entry "547" shall be substituted ;
 - (viii) against Survey number "86/3B1(Part)", in column (8), for the entry "300", the entry "309" shall be substituted ;
 - (ix) against Survey number "89/1B7(Part)", in column (8), for the entry "60", the entry "68" shall be substituted ;
 - (x) against Survey number "93/1(Part)", in column (8), for the entry "660", the entry "700" shall be substituted ;

- (xi) against Survey number "143/3B(Part)", in column (8), for the entry "2300", the entry "2330" shall be substituted ;
- (xii) against Survey number "166(Part)", in column (8), for the entry "2750", the entry "2758" shall be substituted ;
- (xiii) against Survey number "224/4(Part)", in column (8), for the entry "8", the entry "16" shall be substituted ;
- (xiv) against Survey number "376/1(Part)", in column (8), for the entry "83", the entry "88" shall be substituted ;
- (xv) against Survey number "399/5(Part)", in column (8), for the entry "1380", the entry "1407" shall be substituted ;
- (xvi) against Survey number "405/3(Part)", in column (8), for the entry "41", the entry "44" shall be substituted ;
- (xvii) against Survey number "406/1(Part)", in column (8), for the entry "450", the entry "500" shall be substituted ;
- (xviii) against Survey number "406/7(Part)", in column (8), for the entry "1200", the entry "1300" shall be substituted ;
- (xix) against Survey number "407(Part)", in column (8), for the entry "650", the entry "2320" shall be substituted ;
- (xx) against Survey number "428/1B(Part)", in column (8), for the entry "750", the entry "776" shall be substituted ;
- (xxi) against Survey number "428/1C(Part)", in column (8), for the entry "800", the entry "825" shall be substituted ;
- (xxii) against Survey number "428/1D(Part)", in column (8), for the entry "800", the entry "844" shall be substituted ;
- (xxiii) against Survey number "428/2(Part)", in column (8), for the entry "3050", the entry "3258" shall be substituted ; -
- (xxiv) against Survey number "440/1B1 (Part)",
 - (A) in column (6), for the entry "Government", the entry "Private" shall be substituted;
 - (B) in column (7), for the entry "Adidravidar Kudieruppu", the entry "Dry" shall be substituted;
- (xxv) against Survey number "209/10(part)", -
 - (A) in column (6), for the entry "Government", the entry "Private" shall be substituted;
 - (B) in column (7), for the entry "Road", the entry "Dry" shall be substituted;

(xxvi) against Survey number "210",-

(A) in column (6), for the entry "Private", the entry "Government" shall be substituted;

(B) in column (7), for the entry "Dry", the entry "Private" shall be substituted;

Any person interested in the land mentioned in this notification may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the purpose mentioned in the principal notification under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

[F. No. NHAI/Tech/LA/KT/Agasi 3(A) 11/2006]

PRABHAKAR, Dy. Secy.

Foot note :- The principal notification was published *vide* S.O. No. 1711(E), dated the 5th October, 2006, in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 5th October, 2006.